सुप्रभात
रांची, गुरुवार
28.12.2023
* नगर संस्करण । पेज : 12

धरती आबा की ऊर्जावान भूमि से प्रकाशित लोकप्रिय दैनिक

खबर मन्त्र

सबकी बात सबके साथ

khabarmantra.net पौष, कृष्ण पक्ष, द्वितीया संवत 2080 मूल्य : ₹ 3 । वर्ष : 11 । अंक : 165 12 अभिनेत्री रुबीना ने दिखायी जुड़वां बेटियों की पहली झलक

न्यूज डायरी

सीआइएसएफ जवान ने खुद को मार ली गोली

रांची। खलारी थाना क्षेत्र के एनके एरिया स्थित सीआइएसएफ कैंप में बुधवार को जवान वीएन वर्मा ने सर्विस रिवाल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वह उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। मामले में जांच चल रही है।

कुश्ती की देखरेख करेगी तीन सदस्यीय तदर्थ समिति

नयी दिल्ली। भारतीय कुश्ती संघ एक बार फिर तदर्थ समिति के हवाले हो गया है। खेल मंत्रालय ने भारतीय ओलंपिक संघ (आइओए) से भारतीय कुश्ती संघ का कामकाज देखने के लिए एक तदर्थ समिति बनाने को कहा था, जिसके बाद यह एक्शन लिया गया है।

राज्य प्रशासनिक सेवा के दो अफसरों पर गिरी गाज

रांची। राज्य प्रशासनिक सेवा के दो अफसरों पर गाज गिरी है। नीमडीह के तत्कालीन बीडीओ डेविड बलिहार पर मनरेगा में मानव दिवस जन की धीमी प्रगति समेत कम रोजगार उपलब्ध कराने जबकि गोला के तत्कालीन बीडीओ पवन कुमार महतो पर सोलर लाइट, एलईडी लाइट व पानी टैंकर खरीदारी में अनियमितता का आरोप है।

राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जायेंगी ममता

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की सीएम और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन में शामिल होने की संभावना नहीं है। बहुचर्चित राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में करेंगे।

मुखबिरी के आरोप में गला रेत कर हत्या

बोकारो। गोमिया प्रखंड के चतरो चट्टी थाना क्षेत्र के दनरा गांव में नक्सलियों ने पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाकर सुखराम मांझी की गर्दन काट कर हत्या कर दी। परिजनों के मुताबिक घटना मंगलवार शाम करीब 6 बजे की है।

सरना कोड के लिए 30 दिसंबर को भारत बंद

रांची। सरना को धर्म की मान्यता देने की मांग पर आदिवासी सेंगेल अभियान (एएसए) ने 30 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। सेंगेल प्रमुख सालखन मुर्मू ने एक दिन के सांकेतिक भारत बंद का आह्वान किया है।

30 तक मुख्यालय नहीं छोड़ें सचिव : मुख्य सचिव

रांची। राज्य के मुख्य सचिव एल खयांग्ते ने सभी विभागों के सचिवों को 30 दिसंबर तक मुख्यालय नहीं छोड़ने का आदेश दिया है। मालूम हो कि 29 दिसंबर को झारखंड सरकार का स्थापना दिवस है। इसके मद्देनजर मुख्य सचिव ने यह आदेश दिया हैं। वहीं दूसरी तरफ 27 से 29 दिसंबर तक दिल्ली में मुख्य सचिवों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन होने वाला है। अध्यक्षता पीएम मोदी करेंगे। इसमें केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, मुख्य सचिव और सभी राज्यों के 200 से ज्यादा अधिकारी शामिल होंगे।

गहना आभूषण
सोना (बिक्री) : 60,300 रु./10 ग्राम
चांदी : 79,000 रु./प्रति किलो

20 साल तक शोषण से बीमार हो गया था झारखंड : हेमंत सोरेन

जनता की उम्मीदें पूरी कर रही हमारी सरकार: सीएम

- लोगों की समस्याएं सीधे मुझ तक आती हैं
- राज्य को मजबूत बनाने की बना रहे योजना
- गांव के लोगों को साथ लेकर चल रही सरकार
- विकास की लंबी रेखा खींचने का कर रहे प्रयास

खबर मन्त्र ब्यूरो

रांची/लातेहार। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड को मजबूत बनाने के लिए उनकी सरकार लगातार जनहित की योजनाएं बना रही है। श्री सोरेन बुधवार को लातेहार जिला के कुंदरी गांव में आयोजित आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि अब हर वर्ष आपके द्वार आयेंगे। इस अभियान का अनुसरण देश का हर राज्य कर रहा है। मैंने पूर्व में ही कहा था कि जब यहां आदिवासी-मूलवासी की सरकार बनेगी तो यह सरकार गांव के लोगों के साथ संचालित होगी। यही वजह है कि आज गांव-गांव पदाधिकारी शिविर लगा कर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और उसका समाधान भी कर रहे हैं। (शेष पेज 11 पर)

लातेहार में सरकार आपके द्वार

हम बोलते नहीं, जमीन पर काम करते हैं

सीएम ने ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। कहा कि जब राज्य में डबल इंजन की सरकार थी तो जनता से सिर्फ झूठे वादे किये गये। जनता ने डबल इंजन सरकार के झूठ को अच्छे से समझा और उन्हें उखाड़ फेंका। श्री सोरेन ने कहा कि हम जो वादा करते हैं, उसे पूरा भी करते हैं। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आज केंद्र सरकार झारखंड के लाखों करोड़ रुपये अपने पास रखे हुए है। अगर वह पैसा झारखंड को मिल जाये तो हमारा राज्य आज देश का सबसे उन्नत राज्य बन जायेगा।

युवाओं को देंगे प्रशिक्षण : मुख्यमंत्री ने कहा कि लातेहार में कार्य कर रही खनन कंपनियां यहां के स्थानीय युवाओं को भारी वाहन और खनन कार्य में उपयोग किये जाने वाले मशीनों के संचालन करने का प्रशिक्षण देंगी। कहा कि स्वरोजगार के लिए सरकार मदद कर रही है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत विभिन्न तरह के छोटे व्यापार के लिये ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

झारखंड हाइकोर्ट से सीएम को बड़ी राहत

लीज आवंटन मामले से जुड़ा पीआइएल खारिज

खबर मन्त्र संवाददाता

रांची। सीएम हेमंत सोरेन को झारखंड हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। खनन लीज पट्टा से जुड़ी जनहित याचिका को मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायाधीश आनंद सेन की खंडपीठ ने बुधवार को खारिज कर दिया। विभागीय मंत्री रहते हुए सीएम ने खुद और अपने रिश्तेदारों को माइनिंग लीज आवंटन करने से संबंधित आरटीआइ कार्यकर्ता एवं हाइकोर्ट के अधिवक्ता सुनील कुमार महतो की जनहित याचिका पर झारखंड हाइकोर्ट ने वर्चुअली बुधवार को फैसला सुनाया।

लीज आवंटन मामले में दायर सुनील कुमार महतो की जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में पिछले माह सुनवाई हुई थी। मुख्य न्यायाधीश संजय मिश्रा और न्यायाधीश आनंद सेन की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने इससे पहले सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन एवं अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने कोर्ट को बताया था कि सीएम हेमंत सोरेन के माइनिंग लीज से संबंधित शिव शंकर शर्मा की दो जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। प्रार्थी ने इस केस में आरोप लगाया है वह प्रेयर और आरोप शिव शंकर शर्मा के केस में भी था। सुनील कुमार महतो की याचिका में कुछ नया नहीं है। (शेष पेज 11 पर)

क्या था याचिका में

प्रार्थी ने कोर्ट को पूर्व सुनवाई में बताया था कि सीएम हेमंत सोरेन ने खान विभाग के मंत्री पद पर रहते हुए संवैधानिक पद का दुरुपयोग किया है और खुद के लिए अनगड़ा में माइनिंग लीज आवंटित कर लिया है। इसके अलावा उन्होंने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन एवं साली सरला मुर्मू के फार्म को भी माइनिंग लीज आवंटित किया गया है। प्रार्थी ने यह भी कहा है कि इन सभी बिंदुओं को लेकर संबंधित प्राधिकार के पास सीएम, उनके रिश्तेदारों एवं सहयोगियों की जांच करके कार्रवाई का अनुरोध किया था। किसी संबंधित प्राधिकार ने कार्रवाई नहीं की। अंततः उन्होंने हाइकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की, ताकि संबंधित प्राधिकार को जांच कर कार्रवाई का आदेश पारित किया जाये।

दीघा-सोनपुर में गंगा पर बनेगा छह लेन का पुल

एजेंसी

नयी दिल्ली। केंद्र सरकार ने बिहार के दीघा तथा सोनपुर को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर छह लेन के पुल के निर्माण को बुधवार को मंजूरी दी। इसके बनने से उत्तर तथा दक्षिण के बीच यातायात की सुविधा को बेहतर बनाया जा सकेगा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके अलावा कैबिनेट ने नॉर्थ त्रिपुरा और साउथ त्रिपुरा को जोड़ने से जुड़े प्रस्ताव और न्यूजीलैंड में महावाणिज्य दूतावास खोलने की भी मंजूरी दे दी। बैठक के बाद

केंद्रीय कैबिनेट का फैसला

सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इस पुल पर 3065 करोड़ की लागत आयेगी और पुल का निर्माण 42 माह में पूरा किया जा सकेगा। पुल को ऐसे एक्स्ट्रा केबल से तैयार किया जायेगा कि इसके नीचे गंगा नदी पर बड़े जहाजों की आवाजाही हो सकेगी। इस पुल की लम्बाई 4.5 किलोमीटर होगी और यह छह लेन का होगा। इसके बनने से छपरा, मोतीहारी तथा बेतिया सहित कई जिलों में आवाजाही को आसान बनाया जा सकेगा। पुल का निर्माण साढ़े तीन साल में पूरा किया जा सकेगा। (शेष पेज 11 पर)

जस्टिस एस चंद्रशेखर होंगे झारखंड हाइकोर्ट के एक्टिंग सीजे

रांची। झारखंड हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा 28 को सेवानिवृत हो रहे हैं। हाइकोर्ट के सीनियर जस्टिस एस चंद्रशेखर को चीफ जस्टिस के कार्यालय का दायित्व सौंपा गया है। यह दायित्व 29 दिसंबर 2023 से प्रभावित होगा। इससे संबंधित नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री आफ लॉ एंड जस्टिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिप्टी सेक्रेटरी नारायण प्रसाद की ओर से बुधवार को जारी किया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि राष्ट्रपति की ओर से झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर को हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस कार्यालय की ड्यूटी के निर्वहन के लिए नियुक्त किया गया है, जो 29 दिसंबर से प्रभावी होगा।

मुस्लिम लीग जम्मू-कश्मीर पर केंद्र ने लगाया प्रतिबंध

एजेंसी

नयी दिल्ली। केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में राष्ट्र विरोधी व अलगाववादी गतिविधियों में शामिल और आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने वाले मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसर्रत आलम गुट) को प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत परपर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। श्री शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर बताया कि देश विरोधी गतिविधियों के कारण इस संगठन पर गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत बैन लगाया गया है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में यह गुट और इसके सदस्य राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। (शेष पेज 11 पर)

राष्ट्र विरोधी कोई भी काम सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी : शाह

आम लोगों को उकसाता है संगठन

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ट्वीट में कहा कि यह संगठन और इसके सदस्य आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करता है और लोगों को जम्मू-कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए उकसाता है। राष्ट्र-विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का स्पष्ट संदेश है कि हमारे राष्ट्र की एकता, संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जायेगा और उसे कानून के पूर्ण प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। इस संगठन और इसके सदस्य जम्मू-कश्मीर में राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रतिबंध लगाने की घोषणा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जायेगा।

चुनाव पर मंथन करने को खड़गे ने झारखंडी नेताओं को बुलाया दिल्ली

खबर मन्त्र ब्यूरो

रांची, नयी दिल्ली। लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 29 दिसंबर को झारखंड के नेताओं की बैठक बुलायी है। बैठक में भाग लेने के लिए झारखंड के तमाम बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। वहीं राहुल गांधी की न्याय यात्रा झारखंड से भी गुजरेगी, जिससे कार्यकर्ता उत्साहित हैं। कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गयी है। बैठक में इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के साथ सीट शेयरिंग पर पार्टी का स्टैंड क्या होगा, पार्टी की चुनावी तैयारियां कैसी है और कहां-कहां सुधार की जरूरत है, इस पर चर्चा होगी। बैठक में झारखंड से प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम शामिल हो रहे हैं।

अनुसार झारखंड की 14 लोकसभा सीटों का खाका, इंडिया दल की कमजोरी-मजबूती का पूरा खाका लेकर झारखंड के नेता दिल्ली जा रहे हैं। मंत्री आलमगीर आलम के पीएस ने फोन पर बताया कि अभी मंत्री आलमगीर आलम पाकुड़ में हैं। 29 दिसंबर को वह सरकार स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद दिल्ली चले जायेंगे। झारखंड प्रदेश महासचिव सह मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि पार्टी के लिए दिल्ली की बैठक बेहद अहम होने वाली है। वहीं राहुल गांधी की न्याय यात्रा के रूट चार्ट में झारखंड का नाम होने से राज्य के कांग्रेसजन खासा उत्साहित हैं।

अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदला, पीएम करेंगे उद्घाटन

अयोध्या। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। अयोध्या से भाजपा सांसद ने बुधवार को एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी दी। अयोध्या में आगामी 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, जिसमें पीएम मोदी मुख्य अतिथि होंगे। इससे पहले 30 दिसंबर को पीएम अयोध्या में नये एयरपोर्ट और नवनिर्मित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी करेंगे। लल्लू सिंह ने एक्स पर लिखा कि पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में नवनिर्मित भव्य अयोध्या रेलवे स्टेशन के अयोध्या जंक्शन का नाम, जनभावनाओं की अपेक्षा के अनुरूप, परिवर्तित कर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। इसके के लिए अयोध्या के साधु-संतों, अयोध्यावासियों, श्रद्धालुओं की तरफ से पीएम मोदी, सीएम योगी, गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का सहृदय आभार व कृतज्ञता व्यक्त करता हूं।

14 से राहुल इंफाल से शुरू करेंगे भारत न्याय यात्रा

झारखंड समेत 14 राज्यों से होते हुए महाराष्ट्र में खत्म होगी

एजेंसी

नयी दिल्ली। कांग्रेस नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर पूर्व से पश्चिम तक यात्रा पर निकलेंगे। कांग्रेस ने बुधवार को न्याय यात्रा की घोषणा की। यह यात्रा 14 जनवरी को इंफाल मणिपुर में शुरू होगी और 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होने की उम्मीद है। इस यात्रा में राहुल गांधी के युवाओं, महिलाओं और हाशिये पर मौजूद लोगों से बातचीत करने की उम्मीद है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि न्याय यात्रा 6,200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यात्रा 14 राज्यों और 85 जिलों को कवर करेगी।

14 राज्यों से गुजरेगी यात्रा : भारत न्याय यात्रा मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और अंत में महाराष्ट्र राज्यों से होकर गुजरेगी। यात्रा 14 राज्यों और 85 जिलों को कवर करेगी। दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में संगठन सचिव केसी वेणुगोपाल ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पहली भारत जोड़ो यात्रा का शानदार अनुभव लेकर यात्रा कर रहे हैं। वह युवाओं, महिलाओं और हाशिए पर मौजूद लोगों से बातचीत करने वाले हैं। (शेष पेज 11 पर)

कैसे आया यात्रा का विचार

श्री वेणुगोपाल ने बुधवार को बताया कि 21 दिसंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सर्वसम्मति से अपना मत रखा कि राहुल गांधी को अब पूर्व से पश्चिम की ओर एक यात्रा करनी चाहिए। राहुल गांधी भी सीडब्ल्यूसी की इस इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार हो गये।

आइएचएम प्राचार्य को मडुआ मैन स्टार ऑफ झारखंड अवार्ड

आइएचएम के डॉ भूपेश कुमार ने मडुआ को दिलायी अंतरराष्ट्रीय पहचान

खबर मन्त्र ब्यूरो

रांची। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, रांची के प्राचार्य डॉ भूपेश कुमार को हेलो लाइफ मैगजीन द्वारा आयोजित स्टार अवार्ड 2023 में मडुआ मैन के रूप में स्टार ऑफ झारखंड 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट पर्यटन विभाग, झारखंड सरकार द्वारा संचालित झारखंड का एक मात्र सरकारी संस्थान है। डॉ कुमार को यह अवार्ड झारखंड के स्थानीय मिलेटस मडुआ आधारित विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाने के साथ-साथ विश्वस्तरीय पहचान दिलाने के लिए प्रदान किया गया है।

बताते चलें कि डॉ भूपेश कुमार के नेतृत्व में विश्व पर्यटन दिवस 2023 एवं संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाने व झारखंडी मिलेट मडुआ को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। डॉ भूपेश के नेतृत्व में संस्थान के छात्रों ने 52 मिनट में मडुआ आधारित 54 तरह के कुकीज बनाकर एक अनोखा कीर्तिमान स्थापित करते हुए इंडिया बुक ऑफ रिकार्ड 2023 में भी अपने संस्थान का नाम दर्ज कराया।

मैग्जीन को दिया धन्यवाद

डॉ. भूपेश ने सम्मान मिलने के लिए हैलो लाइफ मैग्जीन की प्रमुख रोनिता व संपादक प्रवीण रमन व उनकी टीम का धन्यवाद देते हुए इस प्रयास की सराहना की। उन्होंने मैग्जीन द्वारा समाज में सकरात्मक सोच के साथ लोगों तक खबर पहुंचाने की इस मुहिम को एक अनूठी पहल बताया। साथ ही कहा कि आईएचएम रांची, झारखंडी मडुआ को विश्वस्तरीय पहचान दिलाने की ओर अग्रसर है। झारखंडी मडुआ/रागी को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से मडुआ आधारित विभिन्न प्रकार के व्यंजनों एवं खाद्य सामग्रियों जैसे मडुआ के ओट्स लड्डू, शकरपारा, नमकीन पारे, केक, कुकीज, चिप्स, मफिन्स, नमकीन सेव जैसे व्यंजनों पर शोध किया जा रहा है, ताकि मडुआ के व्यंजन तैयार कर व्यवसाय किया जा सके साथ हीं स्वरोजगार के अवसर प्राप्त कर सके।

घाटशिला: दो हाइवा की टक्कर में तीन की मौत

खबर मन्त्र संवाददाता

घाटशिला। पूर्वी सिंहभूम जिले में बालू लदे एक हाइवा ने सड़क पर खड़ी दूसरी हाइवा में जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गयी। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक हाइवा का उपचालक घायल है। यह हादसा घाटशिला थाना के मनोहर कॉलोनी के पास एनएच-18 फोरलेन पर हुआ। बहरागोड़ा की ओर से आ रहे बालू लदे हाइवा ने पीछे से एक स्थिर हाइवा को टक्कर मार दी। घटना की सूचना मिलने पर घाटशिला पुलिस और झामुमो नेता जगदीश भगत मौके पर पहुंचे। आसपास के लोगों की मदद से मृतकों और घायल को अनुमंडलीय अस्पताल घाटशिला पहुंचाया। टक्कर के बाद दूसरे हाईवे पर फंसे चालक को कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। मृतकों की पहचान सनोज कर्मकार (राजनगर बटुझोड़ा) और पवित्र कर्मकार उर्फ पिंटू (घाटशिला मनोहर कॉलोनी) के रूप में हुई। तीसरे मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। पवित्र के पिता शत्रुघ्न कर्मकार ने बताया कि उनका बेटा रात करीब एक बजे टाटा से काफिला लेकर आया था। इसी दौरान दुर्घटना हुई।

राज्य की पीडीएस दुकानों से गरीबों को मिलेगी चना दाल

राज्य खाद्य निगम के गोदाम से पीडीएस दुकानों तक पहुंचाये जा रहे दाल

खबर मन्त्र ब्यूरो

रांची। झारखंड के पीडीएस लाभुकों को राशन दुकान से चना दाल भी मिलेगी। गोदाम से चने की दाल दुकानों में पहुंचायी जा रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल परिवारों को झारखंड सरकार प्रति माह एक किलो चना दाल देगी। इसका लाभ राज्य के करीब 65 लाख से अधिक राशन कार्डधारी परिवारों को मिलेगा।

राशन कार्डधारियों को दाल देने के लिए राज्य सरकार ने बजट में करीब 500 करोड़ का प्रावधान चालू वित्त वर्ष में किया है। लाभुकों को एक रुपये में एक किलो चना दाल दी जायेगी। दिसंबर महीने में जो दाल मिलेगी, वह सितंबर माह की होगी। लाभुक दाल अपने-अपने पीडीएस दुकान से दाल प्राप्त कर सकते हैं।

सरकार ने दाल की खरीद के लिए नेफेड को भेज दी है राशि : खाद्य आपूर्ति विभाग ने नेफेड से 55 रुपये किलो की दर से चना की खरीद की है। इस पर नेफेड ने 15 रुपये प्रति किलो प्रोसेसिंग की राशि सब्सिडी के तौर पर छूट दी है। एक माह के दाल की खरीद पर करीब 3 करोड़ 57 लाख 50 हजार खर्च होंगे।

कैसे होगा दाल का वितरण : चना दाल की गुणवत्ता जांच करने के बाद प्रखंड में स्थित राज्य खाद्य निगम के गोदामों में डोर स्टेप डिलिवरी के माध्यम से जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को आपूर्ति की जाएगी। चना दाल का वितरण ई-पॉस मशीन के माध्यम से होगा। राशन दुकानदार प्रति किलोग्राम एक रुपए लाभुक से लेगा, जो दुकानदार का कमीशन होगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं करेगी।

न्यायिक आयोग बनाना औचित्य नहीं, दोषियों पर सीधे कार्रवाई हो: राजेंद्र

रांची। मूलवासी सदान मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि जब गृह विभाग ने मान लिया है कि अपराधी और जेल अधिकारियों के मिली भगत से कुछ लोग अपने इशारे पर काम कर रहे हैं। ईडी की छापामारी में ईडी ने जो आरोप लगाया था उस आरोप को डीसी रांची ने भी सही बताया था? इसके बाद गृह विभाग ने भी स्वीकार किया है कि बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा कोटवार जेल में बंद अपराधी व प्रभावशाली लोग अपने इशारे पर काम करा रहे हैं। इस पर राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि दोषियों के ऊपर सीधे कार्रवाई करने के बजाय गृह विभाग न्यायिक आयोग बनाने की बात कर रहा है। प्रसाद ने कहा कि यह दोषियों को बचाने का प्रयास है। प्रसाद ने कहा कि जब जिला के उ ळश्पायुक्त ने भी अपने जांच में ईडी के आरोप को सही बताया है तो फिर अलग से न्याय न्यायिक आयोग बनाने का कोई औचित्य नहीं है।

सीईओ ने सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारियों से की ऑनलाइन बैठक, दिये निर्देश

मतदाता सूची के प्रकाशन की अंतिम तिथि 22 जनवरी तक बढ़ी : सीइओ

वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए अपने बीएलओ से संपर्क करें या ऑनलाइन आवेदन करें

खबर मन्त्र ब्यूरो

रांची। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) के रवि कुमार ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर लोक सभा निर्वाचन 2024 के लिए राज्य में चल रहे मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत सूची प्रकाशन की अंतिम तिथि 22 जनवरी 2024 तक बढ़ा दी गयी है। पहले यह आखिरी तिथि 5 जनवरी 2024 निर्धारित थी। बुधवार को उन्होंने सभी जिलों के उपायुक्तों/ जिला निर्वाचन पदाधिकारियों से भी वर्चुअल बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने मतदाता पंजीकरण कार्य में संलग्न राज्य के अन्य सभी पदाधिकारियों, कर्मचारियों, राजनीतिक दलों एवं आम नागरिकों से अपील की है, कि जो पात्र मतदाता किसी भी कारण से अभी भी पंजीकरण से छूटे हुए हैं, उनके मामलों में इस बढ़ी हुई तिथि का लाभ लिया जा सकता है। साथ ही अनुरोध किया कि पंजीकरण या शिफ्टिंग से जुड़े आवेदन यथा शीघ्र समर्पित करें ताकि संबंधित बदलाव मतदाता सूची में दर्ज कराये जा सकें।

उन्होंने कहा कि इसके लिए अपने बीएलओ से सम्पर्क किया जा सकता है। लोग चाहें तो वोटर हेल्पलाइन ऐप या वोटर पोर्टल जैसे ऑनलाइन माध्यम भी अपने मतदाता पंजीकरण के लिए अपना सकते हैं। उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग का ध्येय है कि कोई भी मतदाता न छूटे, इसका अक्षरशः अनुपालन करवाने के लिए सभी बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) से इस बात का प्रमाण पत्र भी लिया जा रहा है कि उनके मतदान क्षेत्र अंतर्गत कोई भी मतदाता नहीं छूटा है। फिर भी आम लोगों से भी इस बात की अपेक्षा की जा रही है कि यदि उनका नाम किसी कारण छूटा है तो वे भी एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर पहल करते हुए अपने बीएलओ से अविलंब संपर्क करें या ऑनलाइन तरीके से आवेदन करें। इस दौरान ओएसडी गीता चौबे, निर्वाचन पदाधिकारी मुख्यालय संजय कुमार, अवर सचिव सुनील कुमार सिंह सहित निर्वाचन कार्यालय के सभी संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे।

हेमंत सोरेन सरकार के चार साल हो रहे पूरे, प्रधान सचिव ने समारोह स्थल का लिया जायजा, कहा

कार्यक्रम का होगा भव्य आयोजन, व्यवस्था में कमी न होने दें

खबर मन्त्र संवाददाता

रांची। झारखंड में 29 दिसंबर को हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल के चार साल पूरे होने जा रहे हैं। इस मौके पर रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्यस्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा। जिसकी तैयारियां जोरो-शोरों से चल रही है। प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे बुधवार को कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से सारी तैयारियों का बारीकी से निरीक्षण करने को कहा है।

विनय कुमार चौबे ने कहा कि यह कार्यक्रम राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम में भारी भीड़ होगी। जिसके लिए तमाम व्यवस्था चाक-चौबंद रखने की आवश्यकता है। उन्होंने कार्यक्रम के लाइव टेलीकास्ट के लिए अतिरिक्त एलईडी की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। कहा कि कार्यक्रम के भव्य आयोजन की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की है। मौके पर डीसी राहुल कुमार सिन्हा, अपर जिला दंडाधिकारी (विधि-व्यवस्था) राजेश्वर नाथ आलोक, जिला नजारत उप समहर्ता रांची केवल कृष्ण अग्रवाल, जिला जन संपर्क पदाधिकारी डॉ. प्रभात शंकर और आयोजन से जुड़े तमाम अधिकारी उपस्थित रहे।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र

हजारीबाग जिले में स्कूली बच्चों की पोशाक खरीदारी में हुए घोटाले की जांच करे सरकार

खबर मन्त्र ब्यूरो

रांची। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्य सचिव एल खियाग्ते को पत्र लिख कर पोशाक घोटाले की जांच की मांग की है। श्री मरांडी ने कहा है कि हजारीबाग जिला अन्तर्गत सरकारी स्कूल के बच्चों को पोशाक वितरण में किये गये भ्रष्टाचार एवं अनियमितता की जांच कराकर कार्रवाई करें। उपर्युक्त संदर्भ में हजारीबाग के विधायक मनीष जयसवाल ने आपके नाम से प्रेषित शिकायत पत्र की प्रतिलिपि मुझे भी हस्तगत कराया है। विधायक ने बीते शीतकालीन सत्र में जिले में पोशाक वितरण में हुये भ्रष्टाचार के विषय में मामले को उठाकर सदन का ध्यान आकृष्ट कराया था। इसके अलावे आपूर्ति किये गये स्वेटर एवं पोशाक की गुणवत्ता इतनी खराब है कि सप्ताह भर में ही स्वेटर और पोशाक फटना शुरू हो गया है। निदेशक शिक्षा परियोजना द्वारा जारी दिशा निर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि यदि जिले में संचालित स्वयं सहायता समूह उक्त कार्य को निर्धारित समय में कर सकते है तो उनके माध्यम से कराना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपूर्ति किए गए पोशाक की गुणवत्ता अति निम्न कोटि की है, जो जाँच का विषय है।

डीएसपीएमयू के असिस्टेंट प्रो. डॉ. अशोक नाग निष्कासित, घूस लेकर क्लास देने का है आरोप

राजभवन के आदेश के बाद उन्हें किया गया सस्पेंड

खबर मन्त्र ब्यूरो

रांची। डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय (डीएसपीएमयू) के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. अशोक नाग को सस्पेंड कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार, राजभवन के आदेश के बाद उन्हें सस्पेंड किया गया है। एक सप्ताह पहले आशोक नाग को यूके मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर पद से हटाया गया था। डॉ. अशोक नाग पर चार शिक्षकों ने घूस लेकर क्लास देने का आरोप लगाया था। उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग (राजभवन) से भी इसकी शिकायत की थी। इसके बाद डीएसपीएमयू ने एक जांच कमेटी का गठन किया था। लेकिन उस कमेटी ने जांच करने से इनकार कर दिया। इसके बाद फिर से एक कमेटी गठित की गयी, जिसने जांच के बाद रिपोर्ट जमा कर दी है।

इधर अशोक नाग पर आरोप लगाने वाले शिक्षकों को भी अब झारखंड के किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ाने नहीं दिया जायेगा। मालूम हो कि अशोक नाग दो बार कांके विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं। हाल के दिनों में वह आजसू पार्टी में भी शामिल हुए हैं।

मनरेगा घोटाले में पूजा सिंघल की भूमिका की जांच के मामले में हाईकोर्ट ने प्रार्थी और उसके अधिवक्ता राजीव कुमार को हटाया

खबर मन्त्र संवाददाता

रांची। झारखंड हाइकोर्ट ने मनरेगा घोटाले में खूंटी की तत्कालीन डीसी पूजा सिंघल की भूमिका की जांच को लेकर दायर अरुण कुमार दुबे की जनहित याचिका पर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में वर्चुअली सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में प्रार्थी अरुण कुमार दुबे एवं उसके अधिवक्ता राजीव कुमार के क्रेडेंशियल को सही नहीं मानते हुए दोनों को मामले से हटाने का आदेश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए एमिकस क्यूरी की नियुक्ति करने का निर्देश देते हुए मामले को किसी सक्षम बेंच में भेजने का निर्देश दिया। कोर्ट ने मामले में सुनवाई जारी रखने का निर्देश दिया।

बता दें कि पूर्व में सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल एवं महाधिवक्ता राजीव रंजन ने राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में पक्ष रखते हुए रूल्स के खिलाफ याचिका दाखिल किए जाने के आधार पर इसे खारिज करने की मांग की थी। पूर्व में कोर्ट ने सरकार का पक्ष जानने के बाद मेंटीबिलिटी (याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं) पर फैसला सुरक्षित रखा था।

क्या बताया था प्रार्थी ने : पूर्व की सुनवाई में प्रार्थी के अधिवक्ता की ओर से अदालत को बताया गया था कि खूंटी में मनरेगा योजनाओं में अभी 200 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय गड़बड़ी मिली है। उस दौरान पूजा सिंघल खूंटी के डीसी थी। इस मामले में खूंटी जिला के विभिन्न पुलिस थानों में 16 प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। बाद में खूंटी पुलिस से जांच लेकर एसीबी को सौंपा गया। एसीबी से पूरे मामले की जांच करायी गयी, लेकिन उसमें तत्कालीन उपायुक्त पूजा सिंघल की भूमिका की जांच नहीं की गयी। उपायुक्त के द्वारा ही चेक पर हस्ताक्षर किया जाता था। उनकी भूमिका की इडी से जांच कराने का आग्रह किया गया। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी ने जनहित याचिका दायर की है। उन्होंने खूंटी की तत्कालीन उपायुक्त पूजा सिंघल की भूमिका की जांच कराने की मांग की है।

वेतनमान की मांग को लेकर आज से सीएम आवास का घेराव करेंगे 62 हजार पारा शिक्षक

दो दिनों तक सीएम आवास को घेरे रखने का पारा शिक्षकों ने लिया निर्णय

खबर मन्त्र ब्यूरो

रांची। एक मांग वेतनमान को लेकर राज्य के 62 हजार पारा शिक्षक गुरुवार से सीएम आवास का घेराव करेंगे। सरकार से नाराज चल रहे राज्य के पारा शिक्षकों (सहायक अध्यापकों) ने दो दिनों तक सीएम आवास को घेरे रखने का निर्णय लिया है। संघ के ऋषिकेष पाठक ने बताया कि झारखण्ड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर 28 दिसंबर से मुख्यमंत्री आवास-घेरा डालो-डेरा डालो राज्य व्यापी कार्यक्रम के तहत अनिश्चितकालीन घेराव किया जाएगा। इसके लिए राज्य के विभिन्न जिलों से रांची पहुंचे

मुख्यमंत्री आवास- घेरा डालो-डेरा डालो राज्यव्यापी कार्यक्रम

राज्य के सहायक अध्यापक मोहराबादी मैदान में एकत्रित होकर रैली के माध्यम से मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए कूच करेंगें। इसके लिए राज्य के विभिन्न जिलों के सहायक अध्यापकों ने रांची पहुंचना भी शुरू कर दिया है। सुबह 10 बजे तक राज्य के सभी जिलों से करीब 62 हजार पारा शिक्षक मोरहाबीद पहुंचेंगे और सीएम आवास का घेराव करेंगे। इसका नेतृत्व विनोद बिहारी महतो, संजय दुबे, विनोद तिवारी, सिद्दीक शेख, ऋषिकेश पाठक, प्रद्युमन सिंह, विकास कुमार चौधरी, सुमन कुमार, निरंजन कुमार डे, सुशील कुमार पांडे, बेलाल अहमद, नेली लुकस, अभिलाष झा, जया रानी करेंगी।

चार साल बाद अमर बाउरी के रूप में मिला नेता प्रतिपक्ष

वर्ष 2023 का भाजपा का लेखा-जोखा

बाबूलाल मरांडी के प्रदेश अध्यक्ष बनते ही भाजपा का बढ़ा ग्राफ

उदय चौहान

रांची। वर्ष 2023 भाजपा के लिए खास मायने रखता है। इसी साल बाबूलाल मरांडी के रूप में झारखंड भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिला। इसके अलावा चार साल के बाद अमर बाउरी के रूप में नया नेता प्रतिपक्ष मिला। इन दोनों नेताओं के मनोनयन के बाद पार्टी का ग्राफ बढ़ा है। प्रदेश अध्यक्ष बनते ही श्री मरांडी ने संकल्प यात्रा के बहाने पूरे राज्य का दौरा कर कार्यकर्ताओं को मांजने का काम किया। हालांकि, उन्होंने अभी तक अपनी टीम का गठन नहीं किया है। इससे पार्टी में उहापोह की स्थिति बन रही है। उन्होंने साफ किया है कि वह पूर्व की कमेटी से पूरा काम ले रहे हैं। फिलहाल, उम्मीद की जा रही है कि बाबूलाल मरांडी की टीम का गठन इस साल होना मुश्किल है।

इसके पहले राजधानी रांची में भाजपा की ओर से आयोजित बिरसा मुंडा विश्वास रैली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आदिवासियों का विश्वास जीतने के लिए मोदी सरकार की उपलब्धियों का ब्योरा भी पेश किया। आदिवासियों को खूब समझाने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार की कई बड़ी उपलब्धियों का बखान किया। यह समझाने की भरपूर कोशिश की कि इन उपलब्धियों से किस तरह आदिवासी समुदाय के जीवन में बदलाव आ रहा है। वहीं, आदिवासी समुदाय से आने वाले हेमंत सोरेन के शासन में किस तरह आदिवासियों को नजरअंदाज किया जा रहा है।

मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर झारखंड में बीजेपी बूथ स्तर तक महा जनसंपर्क अभियान चलाया। इसके तहत हर दिन कई कार्यक्रम हुए। भाजपा के नेता और कार्यकर्ता लोगों के घर-घर पहुंच कर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनायी। इसके बाद 10 और 11 जून को विशाल जनसभा की गयी। झारखंड में जनसंपर्क अभियान को 4 क्लस्टर में बांटकर 14 लोकसभा क्षेत्र, 81 विधानसभा क्षेत्र और 29464 बूथों के लिए कार्यक्रम की रचना की गई थी। यह कार्यक्रम पूरे 1 महीने तक चला। एक से 22 जून तक प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विशिष्ट परिवारों, व्यक्तियों से संपर्क के कार्यक्रम हुआ। 20 से 30 जून तक बूथ स्तर पर घर-घर संपर्क अभियान चलाया गया और मिस्ड कॉल नंबर पर समर्थन प्राप्त किया। 23 जून डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर प्रधानमंत्री डिजिटल रैली के माध्यम से बूथ स्तर पर कार्यकर्ता और जनता को संबोधित किया।

पीएम नमो ने 14 एवं 15 नवंबर को झारखंड का किया दौरा

उल्लेखनीय है कि 14 एवं 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नमो ने झारखंड का दौरा किया। श्री मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली का दौरा किया। इसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संकल्प सभा के समापन पर 28 अक्टूबर को रांची आये और संगठन को मजबूत करने का मंत्र दिया। जुलाई में बूथ जीतो, चुनाव जीतो कार्यक्रम शुरू हुआ। इसके अलावा संगठन को धार देने के लिए 5 अगस्त को मधुबन में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया। इसके पहले केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का कार्यक्रम रांची में 30 मई को हुआ। इस साल के शुरूआत में तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं-नेताओं ने राज्य सरकार के विरुद्ध अभियान छेड़ा था।

इधर, वर्ष 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर झारखंड प्रदेश भाजपा ने मंथन शुरू कर दिया है। रांची में प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक में पार्टी ने राज्य के 40 लाख परिवारों से सीधा संपर्क साधने का लक्ष्य तय किया। इसमें राज्य के पार्टी सांसद, विधायक, प्रदेश कार्यसमिति, जिला और मंडल कमेटियों के प्रत्येक पदाधिकारी की जिम्मेदारी तय की गई है। यह अभियान आगामी 30 मई से शुरू होकर 30 जून तक चला। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, अन्नपूर्णा देवी, प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर ने लोस चुनाव की तैयारी में अपनी ताकत झोंक दी है। कुल मिला कर इस साल भाजपा ने सांगठनिक रूप से अधिक ताकत अर्जित की है।

संकल्प रथ के माध्यम से जरूरतमंदों को मिल रहा लाभ : बाबूलाल मरांडी

खबर मन्त्र ब्यूरो

रांची। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि विकसित भारत संकल्प रथ के माध्यम से जरूरतमंदों को लाभ मिल रहा है। श्री मरांडी बुधवार को खेल गांव के समीप रांची नगर निगम की ओर से केन्द्र सरकार की योजनाओं को लेकर लगाई गई संकल्प रथ में उपस्थित लाभुको को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की उदासीनता के कारण इस रथ में पर्याप्त सामग्री की कमी है। इसे और ज्यादा प्रभावी बनाने की जरूरत है। आज भी कई जरूरतमंद केन्द्र सरकार की योजना प्राप्त करने से वंचित रह गये हैं। मोदी जी का लक्ष्य है कि सभी जरूरतमंदों को इन सभी योजनाओं का लाभ मिले।

मौके पर सीपी सिंह ने कहा कि भारत के गरीब अब मोदी जी की योजनाओं के कारण उनका आर्थिक जीवन स्तर सुधर रहा है। विधायक नवीन जयसवाल ने कहा को यह रथ गांव गांव जाकर लोगों को केन्द्र सरकार की योजनाओं की न सिर्फ जानकारी दे रही है, बल्कि तुरन्त फॉर्म भर कर नये जरूरतमंदों को इसका लाभ भी दिला रही है। महानगर अध्यक्ष केके गुप्ता ने कहा कि प्रत्येक दिन यह रथ किसी दो स्थान में लगाई जाती है।

कार्यक्रम का संचालन वरुण साहु एवं धन्यवाद ज्ञापन बलराम सिंह ने किया। इस अवसर पर जीतूचरण राम, संजीव विजयवर्गीय, हेमंत दास, राकेश भास्कर, संतोष कुमार, सीताराम रवि, रंजन पासवान, जितेन्द्र सिंह पटेल, रणधीर सिंह, सुभाष अग्रवाल, अजय अग्रवाल, सुजाता कच्छप आदि उपस्थित थे।

छह जनवरी को पतरातू में आजसू की केंद्रीय समिति की होगी बैठक

रांची। आजसू पार्टी सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो की अध्यक्षता में 6 जनवरी को पतरातू (रामगढ़) में केंद्रीय समिति की बैठक होगी। साथ ही शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित होगा। बैठक में पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारी, केंद्रीय सदस्य, विधानसभा प्रभारी, जिला प्रभारी, जिलाध्यक्ष एवं सचिव, जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य, प्रमुख एवं उपप्रमुख, महानगर अध्यक्ष एवं सचिव भाग लेंगे। इसके अलावा साथ ही सभी अनुषंगी इकाई (अखिल झारखण्ड महिला संघ, अखिल झारखण्ड छात्र संघ, आजसू बुद्धिजीवी मंच, अखिल झारखण्ड श्रमिक संघ, अखिल झारखण्ड किसान संघ, अखिल झारखण्ड अधिवक्ता संघ, अखिल झारखण्ड उद्योग एवं व्यापार संघ, अखिल झारखण्ड पिछड़ा वर्ग महासभा, अखिल झारखण्ड अल्पसंख्यक महासभा, अखिल झारखण्ड अनुसूचित जनजाति महासभा, अखिल झारखण्ड अनुसूचित जाति महासभा एवं आजसू पार्टी कला-संस्कृति प्रकोष्ठ) के केंद्रीय अध्यक्ष एवं महासचिव भी उपस्थित रहेंगे।

स्पीड न्यूज

सीजीपीसी में पहली बार सदस्यों ने स्वयं निभायी शाम के दीवान की प्रक्रिया

जमशेदपुर। जमशेदपुर में सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी (सीजीपीसी) के इतिहास में पहली बार इनके सदस्यों ने चार साहिबजादों की शहीदी को समर्पित शाम के दीवान की पूरी प्रक्रिया स्वयं निभा कर एक उदाहरण पेश किया है। गुरुद्वारा सिंह सभा, मानगो में मंगलवार को देरशाम तक चले दीवान में प्रधान सरदार भगवान सिंह रहरास साहिब का पाठ पढ़ शहीदों को नमन किया। शाम छः बजे से रहरास साहिब के पाठ से शाम के दीवान की शुरूआत की गयी। सीजीपीसी के प्रधान सरदार भगवान सिंह ने स्वयं पाठ करने की इच्छा जतायी और काफी शालीन और गुरमत अनुसार पाठ पूरा किया। सदस्यों द्वारा सोदर का भी पाठ किया गया। इस दौरान धार्मिक कविता और कथा का भी आयोजन किया गया जिसमे मुख्य रूप से महासचिव गुरचरण सिंह बिल्ला, उपाध्यक्ष चंचल सिंह, सुखविंदर सिंह राजू, गुरमीत सिंह और हरचरण सिंह ने कथा वाचन किया जबकि सह सचिव परमजीत सिंह काले ने ३संगते नि मेरा नां गुजरी, मैं गोबिंद दी माँ गुजरी, मैं गुजर गुजर के गुजरी हां, संगते नि मेरा नां गुजरी३ तथा ३मेरे बाजां वाले वरगा कोई होर न सानी ए, दूजा कौण जहान अंदर पुत्रां दा दानी ए३ कविता पाठ कर संगत की आंखें नम कर दीं। इसके आलावा हुकमनामा भी सीजीपीसी सदस्यों द्वारा ही लिया गया। सबद-कीर्तन की सेवा बच्चियों द्वारा की गयी। अंत में समाप्ति की अरदास सीजीपीसी के महासचिव अमरजीत सिंह ने की। सीजीपीसी के सदस्यों द्वारा शाम के दीवान की प्रक्रिया पूरी किये जाने पर हर्ष जताते हुए सरदार भगवान सिंह ने कहा कि यह प्रेरित करने करने वाला वाकया है। उन्होंने कहा, जमशेदपुर में सीजीपीसी के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब सीजीपीसी के सदस्यों ने स्वयं शाम के दीवान की प्रक्रिया पूरी की हो।

सोशल मीडिया पर उप्र पुलिस को हड़काने वाला युवक हिरासत में

जमशेदपुर। पुलवामा की तारीख पर उत्तर प्रदेश को दहलाने की सोशल मीडिया पर धमकी देने वाले सरायकेला खरसावां जिले के कपाली निवासी एक युवक तलहा मजहर को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। तलहा देवबंद में रह कर धार्मिक शिक्षा ले रहा था।

मानगो आदर्शनगर के बंद घर से दस लाख के सोने का आभूषण चोरी

जमशेदपुर। मानगो पोस्ट ऑफिस रोड के आदर्श नगर में रहने वाले जितेंद्र पांडे के घर से लगभग दस लाख रुपए के सोने के आभूषण चोरी हो गए । जितेंद्र पांडे ने मामले की जानकारी भाजपा नेता विकास सिंह को दिया सूचना मिलते ही विकास सिंह जितेंद्र पांडे के घर पहुंचकर मामले की जानकारी प्राप्त कर विकास सिंह ने घटना की जानकारी मानगो थाना में दिया। जितेंद्र पांडे ने बताया की दो दिन पूर्व वें अपने भाई इस्पलान बस्ती गए हुए थे। आप शाम को जब अपने घर लौटे तो उनका मुख्य दरवाजा बंद था बालकोनी का दरवाजा खुला हुआ था चोर कहां से प्रवेश किया समझ में नहीं आ रहा लेकिन जब कमरे में प्रवेश किया तो देख की अलमीरा खुला हुआ है अलमीरा के अंदर बना लॉकर को खोल कर लॉकर में रखें लगभग दस लाख रुपए के आभूषण डब्बे सहित गायब थे। जितेंद्र की पत्नी मौके में बेहोश हो गई। जितेंद्र ने बताया मुख्य दरवाजे का ताला बंद रहने के बावजूद चोर अंदर कैसे प्रवेश कर गए समझ से परे हैं। पुलिस जांच आरंभ कर दी।

अंशु को योगी श्रेष्ठ व स्मिकी को मिला योग गौरव की उपाधि

जमशेदपुर। भारतीय योग चिकित्सक महासंघ द्वारा प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय योगा प्राईम अवार्ड समारोह का आयोजन उत्तरप्रदेश के कानपुर स्थित पद्मपत सिंघानिया ऑडिटोरियम मे किया गया। सरकार योगा एकेडमी के संचालक अंशु सरकार को 'योगी श्रेष्ठ-2023' एवं योगा क्वीन स्मिकी सरकार को 'योग गौरव' की उपाधि से विभूषित किया गया। यह सम्मान अंशु को योग के माध्यम से कई असाध्य बीमारियों से लोगो को बिना दवा के निजात दिलाने के लिए दिया गया, जबकि स्मिकी को योग प्रतियोगिताओं मे अपनी विशेष उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया।

घाटशिला एनएच पर खड़े हाइवा को दूसरे हाइवा ने टक्कर मारी, 3 की मौत

खबर मन्त्र ब्यूरो

जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम जिला के घाटशिला थाना अंतर्गत मनोहर कॉलोनी के समीप एनएच-33 पर बुधवार की सुबह 1:00 बजे एक खड़े हाईवा को बहरागोड़ा से बालू लेकर आ रहे दूसरे हाइवा ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस दुघर्टना में तीन लोगों की मौत हो गई है, जबकि खलासी को काफी चोट आई है जिसका एमजीएम अस्पताल में इलाज चल रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शव को अलग किया। मृतकों की पहचान राजनगर बटुझोरा निवासी सनोज कर्मकार, घाटशिला मनोहरपुर कॉलोनी निवासी पवित्र कर्मकार उर्फ पिंटू के रूप में हुई है, जबकि एक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। घायल युवा की पहचान विकास कर्मकार के रूप में हुई है, जो राजनगर बटु जोरा का रहने वाला है। मृतक पवित्र कर्मकार के पिता शत्रुघ्न कर्मकार ने पुलिस को बताया कि उसका बेटा रात लगभग 1:00 बजे टाटा से कान्वाई लेकर आया था इस दौरान उसे पता चला कि उसके मित्र का हाईवा खराब हो गया है।

वह उसे टॉर्च दिखाने के लिए गया था। तभी इतने में पीछे से तेज रफ्तार से आ रहा बालू लता हाईवा ने खराब हाईवा को पीछे से टक्कर मार दी। इससे दौरान इकलौते पुत्र पवित्र कर्मकार उर्फ पिंटू एवं सनोज की मौत हो गई।

जमशेदपुर के विशाल अग्रवाला ने संभाला यंग इंडियंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार

खबर मन्त्र ब्यूरो

जमशेदपुर। जमशेदपुर के युवा उद्योगपति विशाल अग्रवाला ने यंग इंडियंस (वायआई) के राष्ट्रीय अध्यक्ष (नेशनल चेयर) का पदभार संभाल लिया है। विशाल ने 23 दिसंबर को चेन्नई में आयोजित यंग इंडियंस के एनुअल मीट (टेक प्राइड) में पदभार संभाला। उल्लेखनीय है कि इस आयोजन में विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर मुख्य अतिथि थे। यंग इंडियंस कान्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सीआईआई) का जीवंत और गतिशील हिस्सा है। इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। देश में इसके 66 चैप्टर हैं जिनमें 21 से 45 आयु वर्ग के 6300 से ज्यादा सदस्य हैं जो राष्ट्र निर्माण, यूथ लीडरशिप और थॉट लीडरशिपर के क्षेत्र में काम करते हैं। वायआई की सामाजिक पहल और कार्यक्रम इसके प्रमुख स्टेकहोल्डर इसके चैप्टरों के जरिए युवाओं को प्रेरित करते हैं जिनमें 2,00,000 कालेजों के युवा, 13,00,000 स्कूली छात्र और 240 ग्रामीण अंचल शामिल हैं।

ऐसे हुई थी यंग इंडियंस की स्थापना

यंग इंडियंस के पहले अध्यक्ष संजय रेड्डी ने बताया है कि इस संगठन की स्थापना किस तरह हुई। पहले सीआईआई के तहत युवाओं के लिए एक यंग बिजनेस काउंसिल हुआ करती थी, लेकिन संजय रेड्डी को लगा कि बिजनेस की बात तो सीआईआई और यंग बिजनेस काउंसिल के लिए एक ही समान है तो युवाओं के लिए ऐसा संगठन बनना चाहिए जिसकी गतिविधियां बिजनेस के अलावा सामाजिक व अन्य क्षेत्रों से भी जुड़ी हों। संजय रेड्डी को सीआईआई नेतृत्व का ग्रीन सिगनल मिल गया और इस तरह यंग बिजनेस काउंसिल यंग इंडियंस बन गया और संजय रेड्डी इसके पहले अध्यक्ष बने।

कई बड़े आयोजनों में दायित्व संभाल चुके हैं विशाल अग्रवाला

अग्रवाला यंग इंडियंस के मंच से कई बड़े आयोजनों को सफलता के साथ आयोजित करा चुके हैं। इसी साल देश में जी 20 सम्मेलन जैसे बड़े वैश्विक आयोजन के तहत आयोजित जी 20 वायईए के इंडियन शेरपा थे। यंग इंडियंस के सालाना सम्मेलन में शिरकत करने आए विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर के एक घंटे के सेशन का मॉडरेशन भी विशाल अग्रवाला ने किया था। विशाल 2014 में यंग इंडियंस के जमशेदपुर चैप्टर के संस्थापक अध्यक्ष थे। 2015-16 में वे यंग इंडियंस के मासूम वर्टिकल के राष्ट्रीय सदस्य रहे। 2017-18 में उन्हें आंत्रप्रेन्योरशिप वर्टिकल के नेशनल को चेयर का दायित्व मिला। 2019-20 में वे इंटरनेशनल एंगेजमेंट के अध्यक्ष रहे। 2021 में विशाल को यंग इंडियंस के पूर्वी भारत का अध्यक्ष बनाया गया। 2022 में वे जी 20 वायईए के शेरपा बनाए गए. विशाल सीटीसी इंडिया, सीटीसी प्रेसीजन व केमेर प्रेसीजन जीएमबीएच के डायरेक्टर हैं। वे इंडियन कटिंग टूल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के डायरेक्टर और सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसायटी (सीड्स) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। उनकी स्कूलिंग लोयोला स्कूल से हुई और साउथर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल ट्रेड पर फोकस के साथ मास्टर इन ग्लोबल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर चुके हैं।

टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के महासचिव ने कंपनी के वीपी विशाल बादशाह के साथ की बैठक

मजदूरों का स्थायीकरण जमशेदपुर प्लांट में ही करे प्रबंधन : आरके सिंह

बैठक के बाद यूनियन पदाधिकारियों को दिया गया ब्योरा

खबर मन्त्र ब्यूरो

यूनियन पदाधिकारियों को बैठक का ब्योरा देते महासचिव आरके सिंह और अध्यक्ष गुरमीत सिंह तोते।

जमशेदपुर। बुधवार को टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के पदाधिकारियों की एक बैठक यूनियन कार्यालय में संपन्न हुई। जमशेदपुर प्लांट की अस्थाई की स्थाईकरण एवं वार्ड एम्पलाइज के विषय पर अपने पक्ष को रखने के लिए टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष गुरमीत सिंह और महामंत्री आरके सिंह कॉरपोरेट के वरीय अधिकारियों से मिलने के लिए वहां गए थे। वहां हुई बातचीत को पदाधिकारीगण के साथ साझा करने एवं वर्तमान स्थिति को सबको अवगत कराने हेतु यह बैठक आयोजित की गई थी।

इस बैठक में महामंत्री आरके सिंह ने बताया कि वहां पर टाटा मोटर्स के वी पी विशाल बादशाह जी, वरीय पदाधिकारी सीताराम कांडी जी और अन्य पदाधिकारी के साथ बैठक हुई।

हम लोगों ने विस्तार पूर्वक यहां के स्थिति, यहां की परंपरा और यहां के मजदूरों का कंपनी से लगाव आदि विषयों को समझाते हुए यह मांग किया की कि अस्थाई का स्थाईकरण किया जाए किंतु स्थानांतरण की जो बात हो रही है वैसा ना हो। स्थानांतरण पर रोक लगाई जाए।

वहीं वार्ड एम्पलाई सिस्टम पूर्व की भांति जारी रहे। इन बातों को हम लोगों ने गहराई से वरीय पदाधिकारी के पास रखा। अध्यक्ष महोदय ने बतलाया की महामंत्री ने विस्तार पूर्वक बातों को रखा है और हम लोगों को पॉजिटिव सोचना चाहिए। वरीय प्रबंधन के लोगों ने वह आपस में विचार कर जमशेदपुर के प्रबंधन से बातचीत कर जो भी उचित होगा वैसा कदम उठाने की बात की। सूचना यहां के प्लांट हेड और वरीय पदाधिकारी के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाने की बात हुई है और जल्द ही वार्ता होगी।

सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने पर डीसी ने की समीक्षा बैठक

जमशेदपुर। 29 दिसंबर को राज्य सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सरायकेला खरसावां जिले के लाभुकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने को लेकर उपायुक्त रविशंकर शुक्ला के द्वारा संबंधित पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक आहूत की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त के द्वारा योजनाओं के तहत लाभुकों के चयन सभी प्रखंडों से लाभुकों की आवागमन को लेकर चर्चा करते हुए पदाधिकारी को निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने लाभुकों के आवागमन हेतु वाहनों की उपलब्धता, प्रत्येक वाहनों में मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति तथा लाभुकों के सहूलियत के मद्देनजर सभी बसों में फर्स्ट-एड-किट, नास्ता-पानी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कर निर्धारित समयावधी में लाभुकों को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सहभागिता सुनिश्चित करने तथा सुरक्षित वापस घर तक छोड़ने के संबन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

भगवान की भक्ति की कोई उम्र नहीं होती : पं. जगदीश भूषण मिश्र

खबर मन्त्र ब्यूरो

जमशेदपुर। मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल के प्रांगण में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव के तीसरे दिन प्रतापगढ़ अवध से पधारे कथावाचक पंडित जगदीश भूषण मिश्रा ने भक्ति। पर विशेष रूप से प्रकाश डाला। कथावाचक श्री मिश्रा ने कहा कि भगवान की भक्ति की कोई उम्र नहीं होती है लोग सोचते हैं अभी तो माया का संसार है, जितना हो सके धन अर्जित कर लेना है। परिवार का पालन पोषण करना यही हमारा परम धर्म है लेकिन मानव तन इसलिए नहीं मिला है कि केवल परिवार का पालन पोषण करें जब तक हम भगवान के चरणों से नहीं जुड़ेंगे किसी संत का आशीर्वचन नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। ध्रुव के पावन प्रसंग को सुनते हुए महाराज जी ने बताया कि बालक ध्रुव ने केवल 5 वर्ष की अवस्था में भगवत आराधना करके अपने जीवन को महान बनाया।

39वीं डीएई सुरक्षा व स्वास्थ्य पर सेमिनार का आगाज

खबर मन्त्र ब्यूरो

जादूगोड़ा। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक डॉक्टर सी के अस्नानी के मार्गदर्शन पर नरवा पहाड़ ऑडिटोरियम में तीन दिवसीय सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य पर आयोजित सेमिनार का आज बुधवार को भव्य उद्घाटन के साथ शुरू हो गया। प्रत्येक वर्ष यह बैठक परमाणु ऊर्जा विभाग की किसी इकाई में आयोजित की जाती रही है। यूसील को 10 साल बाद इसकी मेजबानी का मौका मिला है। कार्यक्रम की शुरूआत मुख्य अतिथियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मोनोग्राफ पुस्तक का विमोचन के साथ किया गया।संचालन समिति में शामिल तम्मला पल्ली यूरेनियम के अतिरिक्त अधीक्षक विपिन कुमार शर्मा एवं चंदन झा ने मोनोग्राफ 2023 में अध्याय भी लिखा। प्रस्तुतियां डॉ पीटीवी द्वारा दी गईं। तत्पश्चात दिनेश कुमार शुक्ला एस सत्यकुमार, एसबी चाफले यूसील के सी एम डी डॉक्टर सी के अस्नानी, तकनीकी निर्देशक राजेश कुमार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। स्वागत भाषण यूसील के निदेशक तकनीकी राजेश कुमार ने दिया। इसके पूर्व औद्योगिक एवं अग्नि सुरक्षा से संबंधित पुरस्कार वितरण की गई व प्रतिभागियों को पुरुस्कृत कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर यूसील के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ सी के अस्नानी ने कंपनी की तुम्मला पल्ली यूरेनियम प्रोजेक्ट महाप्रबंधक एम एस राव, उप महाप्रबंधक सुमन सरकार समेत वरिष्ठ अधिकारियों का रोजगार संघों की प्रगति में योगदान की सराहना की।

रतन टाटा के जन्मदिन पर भारत रत्न-3.0 वीडियो सॉग लांच

झारखंड-बिहार के चर्चित गायक अजीत अमन दी है आवाज

खबर मन्त्र ब्यूरो

जमशेदपुर। देश के रतन व टाटा ग्रुप के अंतरिम चेयरमैन रतन टाटा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बुधवार सोनारी स्थित उदय मूवीज स्टूडियो में भारत रत्न 3.0 भोजपुरी वीडियो सौंग लांच हुआ। रतन टाटा का जन्मदिन 28 दिसंबर गुरुवार को पूरे देश भर धूमधाम से मनाया जाता है। वीडियो का लांच शहर के जाने माने शिक्षक आलोक राज सिंह,उदय मूवीज के चेयर मैन उदय साहू और हेमा साहू ने किया। भारत रत्न 3.0 वीडियो सौंग में झारखंड बिहार के चर्चित गायक अजीत अमन ने दिया है। वहीं इस वीडियो के निमार्ता नेहिष सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन के चेयरमैन अवनीश श्रीवास्तव निर्देशक मनोज पांडे है। इसके अलावे सूर्या सिंह हेम्ब्रम और थोर टुडू ने विशेष सहयोग किया है। इस मौके पर गायक अजीत अमन ने बताया कि यह वीडियो सौंग बनाने का मुख्य उदेश्य रतन टाटा को भारत रत्न दिलाना है। उन्होंने बताया कि वीडियो की शुरूआत में ही भारत रत्न और रतन टाटा को दिखाया गया है। वीडियो का संगीत भी काफी खूबसूरत बना है। इस मौके पर रतन टाटा से मिल चुके आर्टिस्ट असीम पोद्दार ने कहा कि रतन टाटा महान व्यक्ति है। उन्होंने कहा कि अजीत रतन ने रतन टाटा पर गीत गाकर उनके फेंस को खुश करने का मौका दिया है। वीडियो के गीत अमित तिवारी ने लिखा है।

वीडियो लांच के मौके पर गायक अजीत अमन के साथ निर्देशक मनोज पांडे, उदय साहू, आर्टिस्ट असीम पोद्दार, आलोक राज सिंह, राजेश तिवारी,जीवन साहू आदि उपस्थित थे।

एडम 11 बनी नेबरहुड प्रीमियर लीग सीजन-1 की विजेता

जमशेदपुर। ब्रह्मानंद नारायणा मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, तामोलिया, जमशेदपुर (बीएनएमएच) द्वारा दो दिवसीय नेबरहुड प्रीमियर लीग सीजन-1 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट की विजेता टीम एडम 11 को ट्राफी सहित नगद 25,000 की इनामी राशि और रनर अप विजया हेरीटेज क्रिकेट क्लब को नगद 15000 सहित ट्रॉफी प्रदान किया गया। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में 20 टीम शामिल थी। लीग के सभी मैंचें सीएच एरिया दुर्गा पूजा क्रिकेट ग्राउंड में टेनिस गेंद से खेली गई। सभी नॉकआउट मुकाबले दिन की रोशनी में संपन्न हुई। मैन ऑफ द मैच, बेस्ट क्रिकेटर, बेस्ट बॉलर एवं बेस्ट बैट्समैन आदि को भी पुरस्कृत किया गया। इस संबंध में बुधवार को बीएनएमएच के फैसिलिटी डायरेक्टर विनीत राज ने कहा कि यह क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन जमशेदपुर के 20 प्रतिष्ठित सोसाइटीज एवं क्लब के बीच किया गया, जिसमें टूर्नामेंट में रजिस्ट्रेशन के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं रखा गया था। उन्होंने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य था कि हम सोशल एवं अन्य वर्चुअल मीडिया से बाहर निकाल कर अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो और स्वस्थ समाज का गठन के लिए एक पहल करें। इस तरह के स्पोर्ट्स एक्टिविटी से समाज में एक संदेश दिया जाएगा की अपने व्यस्त जीवन से आधे घंटे या 1 घंटे समय निकालकर हमें शारीरिक गतिविधि में भाग लेना चाहिए।

आधुनिक तरीके से खेती कर गुड़ांबादा की महिला किसान हो रहीं स्वावलम्बी

बंजर जमीन को बनाया उपजाऊ, आर्थिक समृद्धि की तरफ बढ़ाया कदम

खबर मन्त्र ब्यूरो

खेत में लगी हरी मिर्च तोड़ती महिला।

जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम के गुड़ाबांदा प्रखंड के भालकी पंचायत में सुंड़गी गांव के मारेडीह टोला की महिला किसानों ने मिलकर 'नय आड़े जल उपभोक्ता समूह' नाम से संगठन बनाई और 5 एकड़ बंजर भूमि को अपने श्रमदान से खेती योग्य बना दिया। पहले जिस जमीन पर कोई फसल नहीं होता था आज वहां बैंगन के बाद अब मिर्च के पौधे लहलहा रहे हैं। संगठन से जुड़ी महिला किसान बाले मुर्मू, माही मुर्मू, पावरा मुर्मू, कंदरी मुर्मू, मेरी मुर्मू एवं सोनिया मुर्मू के प्रयास ने महिला सशक्तिकरण का मजबूत उदाहरण पेश किया है।

किसानों को दिखा रहीं नई राह, बनीं प्रेरणास्त्रोत

सरकार की योजनाओं के साथ-साथ इन महिला किसानों को एनजीओ एवं एफपीओ (घरोंज लहाती महिला उत्पादक प्रॉड्युसर कंपनी) का भी सहयोग प्राप्त हुआ। कृषि विभागीय पदाधिकारी एवं एफपीओ ने इन महिला किसानों को तकनीक और उत्पादन क्षमता बढ़ाने में सहयोग की। जिला कृषि पदाधिकारी मिथिलेश कुमार कालिन्दी एवं जिला उद्यान पदाधिकारी अनिमा लकड़ा ने भी लगातार इन महिला किसानों का उत्साहवर्धन किया। अपने श्रम एवं इच्छाशक्ति के बल पर आज ये महिलाएं अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणास्त्रोत बनीं हैं। विषम परिस्थिति को कैसे अपने अनुकुल बनाकर अपने ही गांव-घर में रहकर परंपरागत खेती बाड़ी को आधुनिक तकनीक से करके अपनी आर्थिक स्थित को मजबूत किया जा सकता है, इस दिशा में महिला किसानों ने सशक्त उदाहरण पेश किया है।

पारंपरिक खेती छोड़ तकनीक से बढ़ाया उत्पादन

महिला किसानों के सामने बड़ी चुनौती सिंचाई की थी। तकनीक का ज्यादा ज्ञान नहीं होने तथा बाजार की औसत जानकारी भी इनके राह में रोड़ा बनी। महिला किसानों के कुछ कर गुजरने की इच्छा को देखते इन्हें सरकार की योजनाओं से जोड़ा गया। सोलर पंपसेट के द्वारा पाइप लाइन के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई। उसके बाद पहली बार इन्होने साढ़े चार(4.5) एकड़ जमीन में बैंगन की खेती की। पहले साल के उत्पादन से प्रोत्साहित होकर इस बार अब साढ़े चार एकड़ जमीन में मिर्च की खेती इन महिलाओं ने किया। खेत की जानवरों से सुरक्षा के लिए झटका फेंसिंग घेराबंदी की व्यवस्था की गई।

खबर एक नजर में

शिव की नगरी काशी में साक्षात वास करते हैं महादेव : वृजनंदन शास्त्री

कथा सुनाते वृजनंदन शास्त्री। नृत्य करते शिव-पार्वती वेष में कलाकार।

जमशेदपुर। मानगो एनएच 33 स्थित वसुन्धरा एस्टेट (नियर इरीगेशन कॉलोनी) में श्री शिव महापुराण कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के दूसरे दिन बुधवार को वृन्दावन से पधारे स्वामी वृजनंदन शास्त्री महाराज ने व्यास पीठ से काशी महात्म एवं रूद्राक्ष महिमा का वर्णन का सुंदर व्याख्यान किया। कथा के दौरान प्रसंग के आधार पर कलाकारों ने जीवंत झांकी भी प्रस्तुत की। महाराज श्री ने कहा कि काशी नगरी पतित पावनी गंगा के तट पर बसी हैं। यह भगवान शिव को समर्पित है तथा स्वर्ण मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। भगवान शिव का काशी से विशेष महात्य है। इन्हें काशी के नाथ देवता भी कहा जाता है कि जिस बिंदु पर पहले ज्योतिर्लिंग, जो दिव्या प्रकाश में स्थित शिव का प्रकाश है। काशी में घाट और उत्तरवाहिनी गंगा एवं मंदिर में स्थापित शिवलिंग वाराणसी को धर्म, अध्यात्म, भक्ति एवं ध्यान का महत्वपूर्ण केंद्र की ख्याती प्रदान करता है, क्योंकि शिव की नगरी काशी में महादेव साक्षात वास करते हैं। यहां बाबा विश्वनाथ के दो मंदिर बेहद खास हैं। पहला विश्वनाथ मंदिर जो 12 ज्योतिलिंगों में नौवां स्थान स्थान रखता हैं। वहीं दूसरा जिसे नया विश्वनाथ मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर काशी विवि के प्रांगण में स्थित है। कथावाचक ने आगे रूद्राक्ष की महिमा का वर्णन करते हुए बताया कि रुद्राक्ष का अर्थ है रुद्र का अक्ष। यानी भगवान रुद्र की आंखें। माना जाता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के अश्रुओं से हुई है। उन्होंने कठोर तप के बाद जब आंखें खोली तो उनके आंखों से जो आंसू भूमि पर गिरे उसी से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। शिवपुराण में रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान शिव कहते हैं कि रुद्राक्ष मालाधारी मनुष्य को देखकर मैं शिव, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। रुद्राक्ष धारण करना अत्यंत शुभ एवं मंगलकारी है। रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को सात्विक होना चाहिए। इसका आयोजन यजमान किरण-उमाशंकर शर्मा द्वारा किया गया हैं। बुधवार को शैलेन्द्र सिंह, डॉ संजय पांडा, दिनेश बागड़िया, नीपम मेहता, प्रंशात, सुनील मारवाह, विशाल अग्रवाल, अमरेन्द्र पासवान शिव के दरबार में हाजरी लगायी। महाराज जी तीसरे दिन गुरूवार को पार्वती तप, शिव आराधना एवं नंदीश्वर महिमा का प्रसंग सुनायेंगे। बुधवार के कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रमुख रूप से कृपाशंकर शर्मा, रामाशंकर शर्मा, गिरजाशंकर शर्मा, भाजयुमो के प्रदेश मीडिया प्रभारी कृष्णा शर्मा उर्फ काली शर्मा, संतोष शर्मा समेत सैकड़ों की संख्या में भक्तगण शामिल थे।

बी ए कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के छात्र का स्क्यला सॉफ्ट में हुआ प्लेसमेंट

जमशेदपुर। बी ए कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जमशेदपुर के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग के मेधावी छात्र मनीष कुमार चौधरी का चयन झारखण्ड की अग्रणी सॉफ्टवेयर कंपनी स्क्यला सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड जमशेदपुर में कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव के पद पर आकर्षक पैकेज में हुआ है। कंपनी के द्वारा इसका इंटरव्यू 15 दिसंबर को हुआ था और ये कंपनी में छः महीने की ट्रेनिंग में रहेंगे और इनका कार्य क्षेत्र जमशेदपुर रहेगा। एक और छात्र मजाहिद अंसारी को कंपनी ने प्रतीक्षा सूची में रखा है। मनीष के इस चयन पर कॉलेज के चेयरमैन डॉ शिव कुमार सिंह, प्रभारी प्राचार्या अनुमिता सेन गुप्ता, प्लेसमेंट अधिकारी राहुल सिंह तथा सभी प्रोफेसर्स ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए बधाई एवं उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनायें दी हैं।

बोड़ाम झामुमो अध्यक्ष श्यामापद महतो का निधन

जमशेदपुर। झारखंड आंदोलनकारी सह झामुमो प्रखंड अध्यक्ष एवं 20 सूत्री के बोड़ाम प्रखंड अध्यक्ष श्यामापद महतो का मगंलवार की देर रात हार्ट अटैक से निधन हो गया। श्यामापद महतो का शव उनके घर गौरडीह पंचायत पहुंचा तो श्रद्धांजलि अर्पित करने जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी उपस्थित रहे। उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई इस दौरान बोड़ाम बाजार में प्रखंड विकास अधिकारी और स्थानीय ग्रामीणों, दुकानदारों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और पार्टी कार्यालय में भी नेता और कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मंगल कालिंदी की उपस्थिति में दुंदू गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया जहां काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। मौके पर विधायक मंगल कालिंदी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा झारखंड आंदोलन और झामुमो परिवार के लिए श्यामापद महतो जी ने अभूतपूर्व योगदान दिया था। उनकी मृत्यु से मन आहत है हम उनकी कमी महसूस करेंगे। परमात्मा इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। मौके पर बिश्वनाथ सिंह सरदार,पूर्व परिषद सवापन महतो, बीर सिंह सोरेन ,हिमांशु महतो, अजय रजक,चंद्रशेखर टुडू, छोटुलाल हांसदा कालीपद महतो, अश्विनी महतो,विक्टर सोरेन, सुभाष कर्मकार, विजय महतो, काजल सिंह, राजा सिंह एवं विभिन्न झारखंड आंदोलनकारी, झामुमो के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे।

गोलमुरी : कांग्रेस पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष सीताराम रुंगटा की जयंती मनायी गई

जमशेदपुर। बुधवार को गोलमुरी कार्यालय में समाजसेवी सम्मानित उद्योगपति एवं कांग्रेस पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष के जन्म तिथि पर एक समारोह का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता पटेल सेवा समिति के अध्यक्ष एवं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रामाश्रय प्रसाद जी ने किया। सर्वप्रथम इस महान पुरुष स्वर्गीय सीताराम रुंगटा के तस्वीर पर माल्यार्पण करके नमन किया गया। फिर सदस्यों ने पुष्प अर्पित किया। सभा में अध्यक्ष रामाश्रय प्रसाद ने स्वर्गीय सीताराम रुंगटा को याद करते हुए कहा कि बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसे महामानव के साथ मुझे कांग्रेस पार्टी का कार्य करने का मौका मिला। ऐसे पुरुष थे जो एक उद्योगपति के रूप में ऐसा पहचान बनाकर गए जहां आज शिक्षा, समाज सेवा एवं राजनीति के क्षेत्र में अहम योगदान दिया। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक विद्यालय एवं महाविद्यालय की स्थापना की। उनके साथ मुझे कार्य करते हुए समाज सेवा एवं अनुशासन का पाठ सीखने का अवसर मिला। आज उनके द्वारा स्थापित कल-कारखानों में हजारों हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। क्षेत्र की जनता उन्हें आज भी नगर पिता के नाम से जानते हैं कि हमेशा असहाय एवं जरूरतमंदों को हर तरह से मदद करते थे। उनके अनुशासन एवं विचार से प्रभावित होकर उनके सुपुत्र नंदलाल रूंगटा एवं छोटे भाई मुकुंद रूंगटा एवं उनके परिवार के सदस्य उनके बताएं मार्ग पर चलकर उनके द्वारा स्थापित किए गए प्रतिष्ठान में चार चांद लगाते हुए आ रहे हैं। उनके कार्यों को देखते हुए राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार ने कई सम्मानित स्थान उनको दिए थे। अंत में सभी सदस्यों ने इस माह मानव को याद करते हुए 2 मिनट का मौन रखा। इस अवसर पर वृंदा प्रसाद, शत्रुघ्न प्रसाद, धिरीक्षण प्रसाद गुप्ता, शिव बालक प्रसाद, भगवान प्रसाद नरेश कुमार सिंह अभिषेक कुमार, अनामिका सरकार, जयकुमार महतो, अमरेश कुमार सिंह, विनय कुमार सिंह, रामलाल मनोज कुमार, अंशु कुमार, मनोज कुमार, राम दरस चौधरी, शैलेश कुमार, सुरेश प्रसाद, नागेंद्र शर्मा, उमानंद राय प्रेम कुमार, श्री राम केशव सिंह, उपेंद्र प्रसाद सिंह एवं अन्य उपस्थित थे।

स्पीड न्यूज

समस्या गिनाने से नहीं, हल करने से होंगे बदलाव : उपायुक्त

मेदिनीनगर। झारखंड शिक्षा परियोजना पलामू के तत्वावधान में समाहरणालय के ब्लाक 'ए' सभागार में शिक्षा विषयक जिला स्तरीय मुखिया सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता उपायुक्त शशि रंजन ने की। मौके पर उप विकास आयुक्त रवि आनंद भी मौजूद थे। स्वागत भाषण पलामू जिला शिक्षा पदाधिकारी अनिल कुमार चौधरी ने किया। जबकि पलामू जिला शिक्षा अधीक्षक ने सम्मेलन के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर जिला परिषद के उपाध्यक्ष आलोक कुमार सिंह एवं पलामू जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष प्रमिला सिंह ने सम्मेलन को संबोधित किया। पंचायतीराज राज पदाधिकारी विनय कुमार श्रीवास्तव ने पंचायती राज अधिनियम की रोशनी में मुखियागण के शिक्षा संबंधी दायित्वों को रेखांकित करते हुए प्रेरित किया। सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी अशोक कुमार रजक ने बच्चों की शिक्षा निर्बाध पूरी करने पर विस्तृत प्रस्तुति दी। संचालन शिक्षक परशुराम तिवारी ने किया। इस मौके पर उपायुक्त शशि रंजन ने कहा कि यह समय समस्या गिनाने का नहीं, बल्कि उसे हल करने का है। परिवर्तन सकारात्मक प्रयासों से ही होंगे। उन्होंने मुखियाओं से संवाद करते हुए पूछा कि वे बतायें कि उन्होंने विद्यालय के बच्चों के लिए क्या अच्छा किया है और क्या परिणाम मिला? उन्होंने अनेक मुखिया के सकारात्मक पहल की सराहना की। वहीं उप विकास आयुक्त रवि आनंद ने कहा कि शिक्षा के प्रसार के लिए मुखियागण को ठोस पहल करना जरूरी है। बच्चों का नामांकन काफी नहीं है। उनका विद्यालय में ठहराव एवं शिक्षा पूरी कराना प्रमुख कार्य है। सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी जे मुथू ने धन्यवाद ज्ञापन किया। सम्मेलन में एडीपीओ उदय कुमार सिंह, क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी हरेन्द्र तिवारी, रामनरेश राम, जीतवाहन उरांव, बीपीओ कृष्णकांत द्विवेदी, रोहित, मनोज तिवारी, शिक्षा कर्मी राजीव कुमार, शादाब हुसैन, विकास दूबे, आमोद सिन्हा, रामसरेख पाण्डेय, मुकेश सिन्हा, विनोद तिवारी, जावेद अंसारी, विजय शुक्ला आदि उपस्थित थे।

कांग्रेस आज मनायेगी स्थापना दिवस

मेदिनीनगर। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष राजेश ठाकुर के निर्देश पर 28 दिसंबर को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर पलामू जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा धूमधाम से स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इसकी जानकारी पार्टी के पलामू जिलाध्यक्ष बिट्टु पाठक ने दी। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ता से 28 दिसंबर को कार्यक्रम में भाग लेकर सफल बनाने की अपील की है।

विश्रामपुर के प्रसिद्ध देव स्थल महत्वाना धाम परिसर में 31 को लगेगा भव्य मेला

विश्रामपुर (पलामू)। विश्रामपुर खुटिसौत नदी तट किनारे स्थित बाबा महत्वना धाम परिसर में 31 दिसंबर को भव्य मेला लगेगा। इसकी तैयारी जोरों पर चल रही है। यहां उल्लेखनीय है कि इलाके में आस्था के केंद्र बाबा महत्वना धाम देव स्थल पर साल के अंतिम दिन मेला लगता रहा है। धाम के पुजारी सरयू चौधरी ने बताया कि इस बार मेला को अविस्मरणीय बनाने के लिये कई नये प्रयोग किये जा रहे है। मेला में बच्चों के मनोरंजन हेतु भी व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा मेला स्थल पर सारा दिन भोजपुरी दोगोल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस मेले में दूर-दूर से लोग आते है। चुकी महत्वना धाम देव स्थल प्रकृति के गोद मे स्थित है इसलिये इस मनोरम स्थल पर लोग पिकनिक का भी लुफ्त उठाने आते है।

मृतकों के परिजनों से मिले भाजपा नेता

विश्रामपुर (पलामू)। भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य डॉ ईश्वर सागर चंद्रवंशी उर्फ मुन्ना चंद्रवंशी बुधवार को विश्रामपुर प्रखंड क्षेत्र के तीन अलग-अलग गांवों में जाकर मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने परिजनों को ढाढस बंधाया और संभव मदद का भरोसा दिलाया। यहां उल्लेखनीय है कि विश्रामपुर के गुरी गांव निवासी अंजनी मिश्रा की मौत मंगलवार को बिजली करंट की चपेट में आने से हो गयी थी। उनका दाह संस्कार बुधवार को गांव के शमशान घाट पर किया गया। जिसमे मुन्ना चंद्रवंशी भी शामिल हुए। स्व अंजनी मिश्रा भाजपा के सक्रिय सदस्य थे। यहां भी मुन्ना चंद्रवंशी मृतक के दाह संस्कार में शामिल होकर श्रद्धा-सुमन अर्पित किया और सांत्वना दिया। इधर शंखा गांव निवासी बचनदेव साव की माता का भी निधन लंबी बीमारी के बाद हो गया था। चंद्रवंशी के साथ नंददेव यादव, संजय चंद्रवंशी, मेराज आलम, सोएब साह, आशीष पांडेय सहित कई लोगों मौजूद थे।

आरपीएस पब्लिक स्कूल में क्रिसमस की धूम

हुसैनाबाद पलामू। जपला छतरपुर मुख्य मार्ग पर ग्राम संढा में स्थित आरपीएस पब्लिक स्कूल में क्रिसमस समारोह का आयोजन धूमधाम से किया गया। इस समारोह में यीशु मसीह के आगमन पर बच्चों ने नृत्य संगीत से मंचन कर सब का मन मोह लिया। इस कार्यक्रम में कक्षा नर्सरी से कक्षा तीन तक के विद्यार्थी शामिल थे। इस समारोह के मुख्य अतिथि प्राचार्य मनुज शर्मा ने कहा कि यह त्यौहार प्रेम और सौहार्द का है तथा दूसरों की सहायता करना हमारा कर्तव्य है। कुमारी नैंसी कक्षा पाँचवी के द्वारा मंच संचालन की जिम्मेदारी निभाई समारोह के सांता क्लॉज में सेंटा क्लोज ने बच्चों को उपहार दिए जिसे देखकर बच्चे अति उत्साहित हुए। मौके पर रंजना के साथ दीपक महतो, श्वेतालिनाए, अनुप्रिया, अमृता ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।

खलिहान में रखें पुआल में लगी आग गांव के युवक पर लगा आरोप

हुसैनाबाद पलामू। अंचल थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत जमुआ टोला मधेकचहरी गांव में दिव्यांग व्यक्ति सुरेंद्र पासवान के खलिहान में 300 बोझा धान के सुखे पुआल में रविवार को बीते रात्रि आग लगा दिया गया। जिससे लगभग 50 हजार रुपये का नुकसान हो गया है। इस सबन्ध में दिव्यांग सुरेंद्र पासवान ने अपने गांव के लवकुश कुमार रजवार पिता विनोद रजवार पर आरोप लगाया हैं। भुक्तभोगी ने हुसैनाबाद थाना में आवेदन देकर कार्रवाई करने की गुहार लगाया हैं। आवेदन में इससे पूर्व में भी 2 बोरा धान चोरी करने एवं ग्रामीणों के समकक्ष उक्त व्यक्ति द्वारा स्वीकार करने की बात कही हैं। उसने यह बदले की भावना से किया है। फिलहाल आवेदन के आलोक में पुलिस मामले की जांच कर रही है।

गरीबों में कंबल वितरित करना सबसे बड़ा पुनीत कार्य : बद्रीनारायण सिंह

हुसैनाबाद (पलामू)। जिले में बढ़ रही ठंड को देखते हुए महुआरी पंचायत के पंसस बद्रीनारायण सिंह द्वारा पंचायत के प्रत्येक वार्ड में गरीब व जरूरतमंद असहाय लोगों के बीच कंबल वितरण किया गया। उन्होंने इस कड़कड़ाती ठंड में गरीबों, जरूरतमंदों में लगभग 100 की संख्या में कंबल वितरित कर ठंड से राहत दिलाने का कार्य किया है। मौके पर पंसस बद्रीनारायण सिंह ने कहा कि मनुष्य के जीवन की सार्थकता तब है, जब वह गरीब और असहायों की सेवा करे। सर्दी के इस मौसम में गरीबों को गर्म कपड़े वितरण करना सच्ची मानव सेवा है। यह कम्बल हर उस गरीब व बुजुर्गों के लिए जीवन दायिनी साबित होगा जिनके पास ठण्ड से बचने का और कोई उपाय नही है। समाजसेवी ने बताया कि यह कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। मौके पर श्याम बिहारी सिंह, अखिलेश सिंह, लखन महतो ,शत्रुघ्न सिंह, राम आशीष सिंह, विनय कुमार सिंह, राम जन्म मिस्त्री, नंदलाल सिंह, महेंद्र सिंह, कृष्णा सिंह, बैठा, जमुना प्रसाद सिंह, बैकुंठ सिंह, अरुण, अजय सोनू, राजेश समेत ग्रामीण उपस्थित थे।

विकसित भारत कार्यक्रम से गांव होंगे मजबूत : डॉ मेहता

हमारा संकल्प विकसित भारत का लाइव ग्रामीणों को दिखाया गया

खबर मन्त्र संवाददाता

तरहसी पलामू। पांकी विधानसभा क्षेत्र के तरहसी प्रखंड के ग्राम पाठक पगार और सोनपुरा में प्रधानमंत्री द्वारा चलाये जा रहे हमारा संकल्प विकसित भारत के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसका उदघाटन विधायक डा शशिभूषण मेहता ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत का लाईव ग्रामीणों को दिखा गया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि देश आजादी के बाद पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए जिन्होंने एक-एक योजनाओं का चयन ग्रामीणों के ध्यान में रखकर किया गया है। ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभ ग्रामीणों को दिलाया जा सके। हमारा संकल्प विकसित भारत के तहत प्रधानमंत्री ने जो योजनाओं को दर्शाया है उससे ग्रामीणों को काफी हद तक लाभ मिलेगा। साथ ही वे रोजगार के प्रति सजग होंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की सही जानकारी झारखंड सरकार द्वारा नहीं दी जा रही है जिस कारण जरूरतमंद लोग केंद्र की योजनाओं से वंचित हो रहे हैं। चाहे सर्वजन पेंशन योजना हो या नल जल हर घर योजना हो या किसानों के हित में लाई गई योजना के साथ ही साथ महिला-पुरूष, दिव्यांग, बेरोजगार के साथ सभी वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए योजना संचालित की गई है। जिसकी जानकारी नहीं रहने के कारण लोग लाभांवित नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह सरकार गरीब गुरबों के हक हिस्सा को लूट ही रही है लेकिन केंद्र सरकार की योजनाओं से भी वंचित कर रही है। कार्यक्रम मे तरहसी भाजपा मंडल अध्यक्ष अजीत प्रसाद गुप्ता, महामंत्री शिवपाल कुमार, रघुनंदन साव, पुनम देवी, फरिदा देवी, दिलीप कुमार, लाला प्रसाद यादव, प्रखंड तरहसी के बीडीओ एवं सीओ केदारनाथ सिंह, सनोज कुमार, मुखिया साजिदा खातुन, सोनपुरा के मुखिया मृत्युंजय सिंह, परमेश्वर साव, प्रवीन सिंह, कार्तिक सिंह एवं स्वयं सहायता के बहने एवं आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका और पीडीएस दुकानदार व सभी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित थे।

पांकी विधायक शशिभूषण से मिलकर ग्राम लोहड़ी के लोगों ने समस्याओं को रखा

खबर मन्त्र संवाददाता

सतबरवा पलामू। पांकी विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने बुधवार को प्रखंड क्षेत्र के लोहड़ी गांव के ग्रामीणों से मुलाकात किया। इस दौरान ग्रामीणों ने कई समस्याएं रखी। जिसमें लोहड़ी गांव स्थित मलय नदी पर पुल का निर्माण करने, बबन पाठक के घर से शमशान घाट तक पीसीसी पथ का निर्माण, माइनर विभाग के द्वारा अधूरे पड़े सिंचाई परियोजना को पूर्ण करने, देवी मंडप के समीप सामुदायिक भवन का निर्माण, मलय नदी पर कामेश्वर भुइयां के घर के समीप छठ घाट का निर्माण समेत अन्य कई समस्या से विधायक डॉ कुशवाहा को अवगत कराया गया। मेहता ने कहा कि सभी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर एक-एक कर की जाएगी। उन्होंने पूर्व विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि सिंचाई परियोजना अधूरा होना समझ से परे है। आखिर किस स्थिति में योजना अधूरा है, इसकी जांच पड़ताल करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पांकी विधानसभा क्षेत्र का समुचित विकास के लिए कृत संकल्पित हूं। पूरे विधानसभा क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जा रही है। डॉ मेहता ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सभी वर्ग समुदाय के लोगों का विकास तेजी गति से हो रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे जिसमें पांकी के मतदाताओं का भी अहम योगदान होगा। मौके पर लाला प्रसाद यादव,जिप सदस्य सुधा कुमारी, मुखिया रिंकी यादव, आशीष सिन्हा, राणा प्रताप कुशवाहा, अशोक यादव,महेश यादव, बलराम पाठक, रामनाथ पाठक, अजय उरांव, संजीव पाठक, मनोज पाठक, पंकज पाठक, चंचल यादव, गुड्डु पाठक समेत ग्रामीण मौजूद थे।

मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आपके बीच पहुंची है इसका लोग लाभ उठायें : सांसद

खबर मन्त्र संवाददाता

पाटन पलामू। विकसित भारत संकल्प यात्रा पाटन प्रखंड के ग्राम पंचायत सुठा एवं लोइगा पहुंची। मौके पर मुख्य अतिथि पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने आमजनो को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी आप सभी के पंचायतो में पहुंची है जो केंद्र के मोदी सरकार द्वारा गरीबों महिलाओं युवाओं किसानो के लिए चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दे रहा है। जो भी लाभुक योजनाओं से वंचित रह गए हैं वे सभी समयबद्ध इसका लाभ ले सके। देश में अमृत काल चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर विकसित राष्ट्र बनाना। देश को समृद्ध बनाने में गांव गरीब दलित किसान महिला युवा को आत्मनिर्भर बनाना आवश्यक है। इसी को लेकर केंद्र की मोद सरकार सैकड़ो योजनाएं चला रही हैं जो धरातल पर उतार भी रही हैं समाज के अंतिम व्यक्ति अंत्योदय तक विकास की किरण पहुंचे उनका जीवन स्तर सुवस्थित हो इसी का प्रयास केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। देश लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है गरीबी मिटाना मोदी सरकार का लक्ष्य है। भाजपा के वरिष्ठ नेता श्याम नारायण दुबे ने कहा कि आजादी के 75 साल हो गए परंतु किसी सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया, परंतु मोदी के नेतृत्व में हर संकल्प पूरा हो रहा है। भाजपा नेता बिभाकर नारायण पांडे ने कहा कि मोदी सरकार में महिलाओं का सम्मान एवं सुरक्षा बढ़ा है संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा मैं राजनीति सदा सुख नहीं सेवा का सशक्त माध्यम है। अविनाश वर्मा ने कहा कि 15 नवंबर 2023 से 24 जनवरी 2024 तक मोदी सरकार की योजनाएं हर गरीब तक सब प्रतिशत पहुंचे इसका सार्थक प्रयास चल रहा है। बीडीओ अमित कुमार झा ने केंद्र की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि जो योग्य लाभुक अभी तक कल्याणकारी योजनाएं जैसे आवास, आयुष्मान, बीमा, सम्मान निधि, पेंशन एवं अन्य योजनाओं से वंचित रह गए है वो इसका लाभ लेने के लिए आगे बढ़े। कार्यक्रम में विधायक पुष्पा देवी, शिवकुमार मिश्रा, सोमेश सिंह, संजय सिंह, संतोष पांडे, ईश्वरी पांडे, सीओ दीपक मिश्रा, मुखिया रोगीना बीबी, रणजीत कुमार यादव, मनोज कुमार, कौशल कुमार, सुमन देवी सहित ग्रामीण मौजूद थे।

क्षेत्र के गांवों को मिलेगा ग्राम गाड़ी योजना का लाभ : कमलेश कु सिंह

खबर मन्त्र संवाददाता

हुसैनाबाद पलामू। हुसैनाबाद हरिहरगंज विधायक कमलेश कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत सुदूरवर्ती गांव को प्रखंड व जिला मुख्यालय से जोड़ने व सुलभ आगमन हेतु बस चलाने का प्रस्ताव जिला परिवहन पदाधिकारी पलामू को दिया है। दिए गए प्रस्ताव में हुसैनाबाद प्रखंड के पंचायत महुदण्ड व डंडिला, पथरा, दंगवार, देवरी खुर्द, पोलडीह, जमुआ, झरगड़ा, हैदरनगर के सिघना, बारेवा, सड़या, परता, कुकही, लपेया,मोहमदगंज प्रखंड के कादल, पंसा, गाजी बिहारा, भाली, बटौआ, हरिहरगंज प्रखंड के ढकचा, सरसोट, कुलहिया, तुरी लंगुराही, पिपरा प्रखंड के सरैया, पिपरा शामिल है। विधायक ने प्रखंड व जिला मुख्यालय का बस रूट का प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत बस चलाने का प्रस्ताव दिया है।

उन्होंने कहा है कि प्रखंड को जिला और गांव को प्रखंड से जुड़ जाने से आम ग्रामीणों को काफी सहूलियत होगी। उन्होंने कहा है कि ग्राम गाड़ी योजना का लाभ सुदूरवर्ती गांव के ग्रामीणों को सुलभ आवा गमन की व्यवस्था करना है। इस योजना के शुरू हो जाने से ग्रामीणों को सस्ती दर पर परिवहन सेवा का लाभ मिल पाएगा।

इस्कॉन द्वारा हरेकृष्ण उत्सव आज से मनाया जायेगा

मेदिनीनगर। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस्कॉन द्वारा हरेकृष्ण उत्सव का आयोजन हरेकृष्ण प्रचारक केंद्र गीता भवन के तत्वावधान में 28 दिसंबर से किया जा रहा है। इसमें भागवत कथा का आयोजन भी किया गया है। इसके मुख्य प्रवचनकर्ता डा केशवानंद प्रभु, बैष्णोभक्त बदिका आश्रम और श्रीधाम मायापुर से पधारेंगे। इसके आयोजकों ने बताया कि 28 दिसंबर को नगर कीर्तन भ्रमण दोपहर दो बजे से होगा। जबकि 29 दिसंबर से 31 दिसंबर तक साहित्य समाज चौक स्थित संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में भागवत कथा का आयोजन होगा। इसमें भजन कीर्तन , आरती के साथ दर्शन आरती का आयोजन भी किया जायेगा। कार्यक्रम को सफल बनाने में अरबिंद सिंह, अभिषेक, श्याम, रूपेश, संदीप, मिथिलेश, आकाश, राहुल समेत अन्य भक्तगण लगे हैं।

नव वर्ष के आगमन पर पलामू पुलिस पूरी तरह मुस्तैद

एसपी ने की जिलेवासियों से सावधानी बरतने की अपील

खबर मन्त्र संवाददाता

मेदिनीनगर। नये साल के आगमन को लेकर जिलेवासी अपनी खुशी का इजहार करने के लिए कई योजनाएं बना रखे हैं वहीं पलामू जिला के विभिन्न पिकनिक स्पॉट भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। पिकनिक मनाने के लिए लोग अपने परिवार व मित्रजनों के साथ टोली बनाकर पिकनिक स्पॉट पर जाने की योजना में हैं। नये साल के आगमन पर किसी प्रकार की कोई अनहोनी की घटना घटित न हो इसे लेकर पलामू पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। पुलिस अधीक्षक रीष्मा रमेसन ने जिलेवासियों को नये साल के आगमन की शुभकामना देते हुए मार्मिक अपील की है। उन्होंने पलामू जिला के सीमावर्ती स्थान जो दूसरे राज्य से सटे हुए हैं जहां पर लोग पिकनिक का आनंद उठाते हैं वैसे स्थानों समेत सभी पिकनिक स्पॉटों पर पुलिस की तैनाती की गई है। एसपी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि दो पहिया या चार पहिया वाहन चलाने वाले लोग वाहन का कागजात अपने पास रखें। ट्रिपल लोड न चलें, हेलमेट का उपयोग करें। साथ ही सीट बेल्ट का उपयोग करें। नशा कर वाहन न चलायें। नियमों का उल्लंघन करनेवाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी। एसपी ने कहा कि सभी पिकनिक स्पॉट्स पर पुलिस की तैनाती रहेगी, किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की परेशानी हो तो तुरंत जाकर पुलिस पदाधिकारी को सूचना दें।

सड़क दुर्घटना में बाइक सवार की मौत, दो घायल

हरिहरगंज पलामू। थाना क्षेत्र के तेंदुआ गांव स्थित बीएनएस स्कूल के समीप एनएच 98 सर्विस रोड में मंगलवार की देर शाम हुई सड़क दुर्घटना में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। जबकि दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक रामपूर ग्राम निवासी सरयू राम का 21 वर्षीय पुत्र प्रकाश उर्फ छोटू कुमार है। जबकि अन्य घायलों में रामपूर निवासी सतेन्द्र राम 18 वर्षीय सूरज कुमार तथा गुड़ी बिगहा निवासी धीरेन्द्र राम शामिल हैं। इस संबंध में पुलिस निरीक्षक सुदामा कुमार दास ने बताया कि उक्त तीनों युवक बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। तेज गति के कारण बाइक सड़क किनारे लगे लोहा का साइड बेरिकेडिंग से टकरा गया। औरंगाबाद में इलाज के दौरान प्रकाश उर्फ छोटू की मौत हो गई।

पुलिस व उत्पाद विभाग ने अलग-अलग जगहों पर छापेमारी कर कई शराब भट्टी को किया ध्वस्त

हरिहरगंज पलामू। पुलिस अधीक्षक पलामू के निर्देश पर पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी सुदामा कुमार दास के नेतृत्व में तथा पथरा ओपी पुलिस के सहयोग से बुधवार को सुदूरवर्ती भांवर तथा खड़गपुर के जंगली इलाके में अवैध शराब निर्माण के विरुद्ध सघन छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने छह अवैध शराब की भट्टी को ध्वस्त करते हुए भारी मात्रा में जावा महुआ तथा सैंकड़ों लीटर निर्मित शराब को मौके पर ही नष्ट कर दिया। उत्पाद अधीक्षक के निर्देशानुसार आबकारी विभाग की टीम ने हरिहरगंज के सुदूरवर्ती बिहार सीमा से सटे शिकारपुर, कोठीला क्षेत्र के जंगल में अभियान चलाकर चार महुआ शराब भट्टी को नष्ट कर दिया। इस संबंध में उत्पाद अवर निरीक्षक अनूप प्रकाश ने बताया कि शिकारपुर, कोठीला के जंगल में अवैध रूप से संचालित चार महुआ शराब भट्टी को नष्ट किया गया है। वहीं करीब दो सौ लीटर महुआ शराब बरामद किया गया। छापेमारी के दौरान कई शराब बनाने का बर्तन एवं उपकरण को भी नष्ट किया गया है। अनूप प्रकाश ने बताया कि उक्त क्षेत्र बिहार सीमा से सटा हुआ है जिसके कारण अवैध शराब बनाने के कारोबार में लगे शराब कारोबारी झारखंड में शराब बनाकर बिहार में भेजने का काम करते हैं। उन्होंने कहा की अवैध शराब के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। इस कार्रवाई से अवैध शराब कारेबारियों में हड़कंप है।

ग्रामीण बैंक ने मृतक के परिजनों को सौपा चेक

सतबरवा पलामू। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक सतबरवा ब्रांच के द्वारा प्रखंड के पोंची गौरा निवासी बीमित रामेश्वर भूईया की नोमिनी सह पत्नी उर्मिला देवी तथा दुलसुलमा की स्वास्थ्य सहिया बसंती देवी के मृत्यु के पश्चात उसके पति जगदीश सिंह को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत क्लेम सेटलमेंट की राशि दो दो लाख रूपए बैंक खाते में स्थानांतरित की गई। जेएसपीएल के बीपीएम आलोक ने बताया कि पंचायत पोची ग्राम गौरा के रहने वाले रामेश्वर भुइयां की मृत्यु 11 महीने पहले हो गई थी। मौके पर जेआरजीबी के जेनरल मैनेजर सुशांत कुमार पांडेय, शाखा प्रबंधक घनश्याम कुमार, सामुदायिक समन्वयक रामनाथ विश्वकर्मा, प्रिती कुमारी ने संयुक्त रूप से डमी चेक दिया।

सांसद व विधायक पहुंचे चैनपुर के रानीताल डैम

एनडीआरएफ की टीम से की बातचीत

शाम तक नहीं मिला शव

खबर मन्त्र संवाददाता

चैनपुर पलामू। सांसद विष्णु दयाल राम व विधायक आलोक चौरसिया चैनपुर प्रखंड के रानीताल डैम पहुंचे। एनडीआरएफ की टीम से वार्ता कर डैम से शव निकालने को कहा। इसके बाद वे मृतक युवक के घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। मालूम हो कि चैनपुर प्रखंड अंतर्गत भड़गावा पंचायत के रानीताल डैम में डूबने से 45 वर्षीय धर्मेंद्र कमलापुरी की मौत सोमवार को हो गई थीं। जिसका शव बरामद नहीं किया जा सका था। इधर उपायुक्त शशि रंजन के निर्देश पर चैनपुर सीओ संजय बाखला ने एनडीआरएफ टीम को फैक्स कर घटना की जानकारी दी। साथ ही हर हाल में शव बरामदगी करने को कहा। जिस पर त्वरित करवाई करते हुए एनडीआरएफ की टीम अहले सुबह बुधवार को रानीताल डैम पहुंच गई। जहां टीम ने बोट के सहारे और गोताखोरों ने छलांग लगाकर खोजने का काफी प्रयास किया। घटनास्थल पर विधायक आलोक चौरसिया, पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने एनडीआरएफ की टीम से शव खोजबीन का जानकारी लिया और इसी तरह लोगो का दिन भर आना जाना लगा रहा।

कर्नल कप: रोमांचक मुकाबले में जपला ने लपेया को हराया

खबर मन्त्र संवाददाता

हुसैनाबाद (पलामू)। कपूरी मैदान में खेले जा रहे हैं कर्नल कप फुटबॉल प्रतियोगिता में बुधवार का मैच जपला बनाम लपेया खेला गया। जपला ने आक्रामक खेल खेलते हुए 3-1 से जीत दर्ज किया और विजय के साथ जपला ने टूर्नामेंट में अपना सफर समाप्त किया। दोनों टीमें पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी थी। इसके पूर्व समाजसेवी नथुनी पाल किसान ब्रिगेड सदस्य शिवपूजन सिंह और रविंद्र सिंह ने सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका मनोबल बढ़ाया। बताते चलें कि अभी तक दो टीम ग्रुप ए से बैरांव तथा ग्रुप डी से सड़ेया सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। मैच के दौरान अध्यक्ष माणिक चन्द्र सिंह, बद्रीनारायण सिंह, सत्यनारायण यादव, अशोक सिंह, परमेंद्र सिंह, शेखर कुमार, सगीर अहमद, बनारसी मेहता सहित हजारों खेल प्रेमी उपस्थित थे। आज का मैच बभंडी बनाम पथरा के बीच खेला जाएगा।

पाटन के डीलर एक जनवरी से जायेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर

खबर मन्त्र संवाददाता

पाटन पलामू। पाटन इंडिया फेयर प्राइस शौप डीलर्स फेडरेशन के आह्वान पर एक जनवरी 2024 से पुरे देश में अनिश्चितकालीन हड़ताल करने को लेकर पाटन डीलर संघ की बैठक प्रखंड मुख्यालय में किया गया।

बैठक की अध्यक्षता पाटन डीलर संघ के अध्यक्ष शेषनाथ सिंह ने की। बैठक में सर्वसम्मति से हड़ताल करने के लिए पाटन के सभी पीडीएस डीलरों ने संकल्प लिया। बैठक में डीलर संघ के अध्यक्ष शेषनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र एवं राज्य कि सरकार को बार बार औल इंडिया फेयर प्राइस डिलर संघ के द्वारा अपनी मांगों के लिए अनुरोध किया गया।

लेकिन आज तक कोई भी सरकार कुछ नहीं दिया, बल्कि डीलर को बंधुआ मजदूर बना कर रखा गया है। डीलर भुखे पेट रहकर काम करने पर मजबुर हैं।

बैठक में पीडीएस डीलर राजेन्द्र सिंह, धनंजय पाण्डेय, शारदा सिंह, गिरजा सिंह, सतीश ठाकुर, उपेन्द्र पासवान, प्रमोद मांझी, रामविनय पाण्डेय, विभुति उपाध्याय सहित सैकड़ों पीडीएस डीलर उपस्थित थे।

डॉ स्नेहलता त्रिपाठी ने चैनपुर प्रखंड में किया असहायों के बीच गर्म वस्त्र का वितरण

खबर मन्त्र संवाददाता

रामगढ़ पलामू। शहर के सुप्रसिद्ध दंत चिकित्सक सह रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य डॉ स्नेहलता त्रिपाठी के द्वारा रामगढ़ चैनपुर प्रखंड के आदिम जनजाति बहुल काचन ग्राम में कंपकपाती ठंड एवं शीतलहरी को देखते हुए असहाय एवं बेसहारा परिवार के बुजुर्ग महिला पुरुष और किशोर बालक बालिकाओं के बीच कंबल और गर्म अंग वस्त्रो का वितरण किया। गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय काचन रामगढ़ के प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति थी। इस मौके पर छोटे-छोटे बच्चों के बीच टॉफी बिस्कुट और सुरुचि खाद्य पदार्थों का भी वितरण किया गया। इस अवसर पर पलामू केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्टस फेडरेशन के मृत्युंजय शर्मा, सतीश तिवारी, रमाकांत पांडे, नवल किशोर शाही, शशिकांत त्रिपाठी, जितेंद्र कुमार, हनी सिन्हा, संजय अग्रवाल, सुनील कुमार, प्रिंस कुमार, रेड क्रॉस सोसाइटी पलामू के कोषाध्यक्ष अमिताभ कुमार मिश्र रामगढ़ के मुखिया उमाशंकर प्रसाद जी पंचायत समिति सदस्य वार्ड सदस्य शामिल थे।

स्पीड न्यूज

उत्पाद विभाग ने 60 पेटी नकली विदेशी शराब जप्त किया

धनबाद। धनबाद में शराब माफियाओं के द्वारा नए साल के मौके पर अवैध एवं नकली शराब भारी पैमाने पर खपाने की योजना को उत्पाद विभाग ने ध्वस्त कर दिया है। मैथन ओपी इलाके में पथलाबारी में एक घर मे छापेमारी कर कुल 60 पेटी अवैध नकली विदेशी शराब जब्त किया है। जिसमें ब्लैक टाइगर,मैकडॉवेल इंपिरियल ब्लू रॉयल स्टैग समेत कई अन्य ब्रांड की बोतलों में भरी गई शराब शामिल है।साथ ही दशरथ मंडल उर्फ साव नामक एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है।

मोदी सरकार के ताना शाह रवैये के खिलाफ विरोध मार्च

झरिया। बुधवार को झरिया विधान सभा युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रवि सिंह के नेतृत्व में झरिया इंदिरा चौक स्थित इंदिरा गाँधी के प्रतिमा के समक्ष मोदी सरकार के ताना शाह रवैये के खिलाफ उनके द्वारा एक साजिश के तहत लोक तंत्र की आवाज को दबाने हेतु 143 सांसदो के निलंबन के खिलाफ विरोध मार्च किया गया। साथ ही इस तानाशाह सरकार मोदी और अमित शाह का पुतला दहन किया गया। साथ ही कहा गया की निलंबन किये गये 143 सांसदों का निलंबन अविलम वापस ले, अन्यथा सदन से सड़क तक युवा कॉग्रेस आंदोलन करेगी। कार्यक्रम मे मुख्य रूप से सागर सिंह, फैजान खान समीर सिंह, प्रिंस चौहान, बांटी कुमार, प्रेम कुमार आदि मौजूद थे।

कतरास स्टेशन में मारवाड़ी महिला समिति ने बांटे कंबल

कतरास। कड़ाके की ठंड को देखते हुए मारवाड़ी महिला समिति कतरास शाखा के तत्वावधान में बुधवार को कतरास स्टेशन में जरूरतमंदों के बीच 35 कंबल, 25 टोपी, 25 ग्लाप्स एवं जूता चप्पल का वितरण किया। मौके पर समिति के अध्यक्ष प्रियंका चौधरी, राखी चौधरी, दीपा, रितु, पूनम, संगीता जलान,प्रीति, शिल्पा गोयल, अंजू, वीणा,मीतू अग्रवाल शामिल थी।

पर्यटक को लुभाने के लिए 22 सीटर बोट को किया गया लॉन्च

कुमारधुबी। नव वर्ष के आगमन को लेकर जहां एक ओर मैथन एवमं पंचेत डैम को दुल्हन की तरह सजाया गया वही दूसरी ओर पर्यटकों को लुभाने के लिए नौका बिहार में नए बोट की लॉन्चिंग की जा रही है, ताकि पर्यटकों को बेहतर सुविधा प्रदान किया जा सके। इसी कड़ी में बुधवार सुबह मैथन डैम स्थित बाबु घाट में 22 सीटर बोट का लॉन्चिंग किया गया बोट का उद्घाटन पूर्व विधायक अरूप चटर्जी एवं एगग्यारकुंड प्रखंड प्रमुख संगीता महतो ने फीता काटकर एवमं बैलून फोड़कर किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से बैंक आफ इंडिया के वरीय प्रबंधक विपद तारण गोराई उपस्थित रहे उनके साथ कार्तिक महतो,रौशन मिश्रा ,राम जी यादव, मंटू महतो, राजीव शर्मा, संतू चटर्जी आदि बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।

ट्रेन से कटकर युवक ने की आत्महत्या

कतरास। तेतुलमारी रेल स्टेशन पर बर्दवान हटिया पैसेंजर गड़ी से एक यूवक जो गोमो से चढ़ा था तेतुलमारी में गाड़ी के नीचे जा कर कट कर आत्महत्या कर लिया है। मृतक का नाम धीरज कुमार 21 वर्ष है। मौके पर आरपीएफ पहुंच कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया है।

माओवादियों ने की पूर्व वार्ड सदस्य की हत्या, जांच में जुटी पुलिस

खबर मन्त्र संवाददाता

बेरमो /बोकारो। जिला के उग्रवाद प्रभावित चतरोचट्टी थाना क्षेत्र के एक पूर्व वार्ड सदस्य की पुलिस मुखबिरी के आरोप में भाकपा माओवादियों ने हत्या कर दी है। घटना के संबंध में बताया गया कि मंगलवार की देर शाम गोमिया प्रखंड अंतर्गत चुटे पंचायत के दंडरा गांव निवासी सुखराम मांझी 35 वर्ष की हत्या कर दी गई है। उसका शव उसके घर से कुछ दूर वन विभाग के

आवास के निकट फेंक दिया गया है। घटना शाम के करीब साढ़े सात बजे की है। मिली जानकारी के अनुसार सुखराम मांझी अपने घर की दुकान पर था। गांव के कुछ लोग भी वहां थे। अचानक माओवादियों का एक ग्रुप पहुंचा और सुखराम मांझी को पकड़ लिया और गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। माओवादियों ने इस दौरान नारा लगाया कि पुलिस की मुखबिरी और एसपीओ बनना बंद करो। जो भी पुलिस की मुखबिरी करेगा, उसका यही हश्र होगा। माओवादियों ने घटना को अंजाम देने के बाद वहां पर्चा भी छोड़ा। पर्चा में सुखराम मांझी पर पुलिस का एसपीओ बनने का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में थाना प्रभारी नीरज कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है। लेकिन जबतक घटनास्थल पर नहीं पहुंचते हैं, तब कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। बता दें कि दंडरा गांव पूर्व से उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र रहा है।

धनबाद में चोरों का आतंक चरम पर

खबर मन्त्र संवाददाता

धनबाद। धनबाद में इन दोनों चोरों का आतंक काफी बढ़ गया है। आए दिन चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। चोर सबसे ज्यादा बंद घरों को निशाना बना रहे हैं । ताजा मामला सदर थाना क्षेत्र के बजरंग विहार कॉलोनी का है। जहां बीती रात चोरों ने बजरंग विहार कॉलोनी स्थित बैंक कर्मी सत्यनारायण रजक के घर को निशाना बनाया। चोरों ने दरवाजे का ताला तोड़ दिया और घर में रखी लाखों रुपए की संपत्ति लेकर फरार हो गए। घटना

की जानकारी पुलिस को दी गई है। जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फिलहाल चोरी गई संपत्ति का सटीक आकलन नहीं हो सका है।

इस्पात प्रबंधन और ओएनजीसी से गुहार

खबर मन्त्र संवाददाता

बोकारो। स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण संस्थान द्वारा बचत उद्यान बचाओ अभियान के तहत सिटी सेंटर स्थित बचत उद्यान का निरीक्षण किया गया। यह पार्क बोकारो इस्पात संयंत्र प्रबंधन और ओएनजीसी की लापरवाही तथा अनदेखी के कारण अपना न सिर्फ अस्तित्व खो रहा है बल्कि नशेड़ियों असामाजिक तत्वों और खानाबदोशों का अड्डा बन गया है। लोगों ने इस पार्क को मूत्र त्यागने का सबसे सुरक्षित स्थान बना लिया है। कई बार पर्यावरण रक्षकों द्वारा इसकी साफ सफाई भी की गई तथा इसे सुव्यवस्थित करने हेतु इस्पात प्रबंधन और ओएनजीसी से गुहार लगाई गई मगर दोनों ही कान में तेल डालकर सोए हैं। पार्क में बना शौचालय बंद ही रहता है। मौके पर संस्थान के महासचिव शशि भूषण ओझा मुकुल ने सिटी सेंटर के सभी व्यवसायियों एवं निवासियों को आह्वान किया कि इस पार्क को बचाने एवं सुंदर बनाने हेतु आगे आएं और संस्थान की मुहिम से जुड़ें।

निरीक्षण कार्यक्रम में रघुवर प्रसाद अखिलेश ओझा अधिवक्ता रमण ठाकुर मानवाधिकार मिशन के प्रदेश अध्यक्ष राजीव मिश्र गौरी शंकर सिंह मृणाल चौबे अजीत भगत वीरेंद्र चौबे लक्ष्मण शर्मा बीरेंद्र मिश्र अभय कुमार गोलू विजय त्रिपाठी भगवान पांडेय ममता गोस्वामी रोहित सिंह अनिल उपाध्याय योगेंद्र सिंह सहित कई पर्यावरण रक्षक उपस्थित रहे।

अयोध्या में पूजित अक्षत कलश ठाकुर कुल्ही दुर्गा मंदिर पहुंचा

धनबाद। धनबाद के धैया क्षेत्र अयोध्या में पूजित अक्षत कलश बुधवार को धैया, ठाकुर कुल्ही श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा मंदिर पहुंचा। जहां पूजित अक्षत कलश का विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति के कार्यकताओं ने विधिवत पूजा अर्चना की। जिसको लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महानगर गौ सेवा प्रभारी श्रवण कुमार ने बताया कि पूजित अक्षत को नगर के सभी सनातनी घरों में वितरण किया जाएगा। इसकी शुरूआत 1 जनवरी से 15 जनवरी तक होगी।

आजसू पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता थे स्व. रमेश दास: सदानंद महतो

तोपचांची। बुधवार को तोपचांची वाटर बोर्ड झील मोड में स्वर्गीय रमेश दास का पुण्यतिथि पर उनके प्रतिमा में माल्यार्पण करने के उपरांत 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगो ने बारी बारी से माल्यार्पण किया।इस कार्यक्रम के अवसर पर सदानंद महतो ने कहा कि स्वर्गीय रमेश दास आजसू पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता थे।वे समाज के उत्थान के प्रति चिंतनशील थे। वे अपने अल्प आयु में पंचायत से जिला तक के पदाधिकारी बने। उपस्थित संतोष महतो ने कहा कि वे आजसू पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे और पार्टी के लिए तन मन धन से पार्टी को बढ़ाने में अहम योगदान दिए थे। पार्टी हमेशा उनकी महत्वपूर्ण योगदानों को याद करती रहेगी।

एसपीजी वेतनमान की मांग को लेकर डेको कंपनी दूसरे दिन भी रहा बंद

कंपनी को प्रत्येक दिन हो रहा है लाखों रुपए का नुकसान

खबर मन्त्र संवाददाता

कतरास। एसटीजी डेको आउटसोर्सिंग कैलुडीह छाताबाद में कंपनी प्रबंधक के द्वारा वादा खिलाफी के खिलाफ कंपनी में कार्यरत कर्मियों द्वारा दुसरे दिन भी कंपनी का चक्का जामरहा। असहयोग आंदोलन से कंपनी को प्रति दिन लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है। बताते चले की एसटीजी डेको कंपनी के कर्मी एसपीजी वेतनमान की मांग को लेकर मंगलवार से धरने पर बैठे हैं। आउटसोर्सिंग कंपनी का काम बंद रहने के कारण कंपनी को प्रतिदिन 20 से 25 लख रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। कंपनी को शुरूआत करने के लिए छाताबाद कैलुडीह के युवाओं ने रियाज कुरैशी के नेतृत्व में मिलकर 40 लोगों की एक कमेटी बनाई थी। 40 कमेटी के नेतृत्व करता रियाज कुरेशी का कहना है कि कंपनी को एसपीजी देने से लाभ है ,लेकिन कंपनी जहां तक 75% युवाओं को रोजगार देने का बात था उससे अधिक युवकों को रोजगार दिया है। इसलिए अगर कंपनी एसपीजी लागू करती है तो दर्जनों युवाओं को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ेगा।

कोयलांचल वासियों का चीर परिचित डीसी ट्रेन का सपना 10 जनवरी को होगा पूरा

खबर मन्त्र संवाददाता

धनबाद। 15 जून 2017 को पीएमओ कार्यालय से जारी आदेश के बाद डीसी लाइन पर दौड़ने वाली सभी ट्रेनें बंद कर दी गई। ।कतरास कोयलांचल वासियों ने इसे केन्द्र सरकार की तुगलक्की फरमान करार देते हुए सभी ट्रेनें पुनः परिचालन करने के लिए वर्षों धरना प्रदर्शन करते रहे पर सभी प्रयास निरर्थक रहा। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और बाघमारा भाजपा विधायक ढुल्लू महतो का प्रयास निरंतर जारी रहा। परिणाम स्वरूप समय-समय पर डीसी लाइन से ट्रेनों का परिचालन और कतरास में ठहराव शुरू हो गई। कतरास कोयलांचल वासियों का लाइफ

लाइन कहीं जाने वाले डीसी ट्रेन का सपना अंततः 10 जनवरी 2024 को पूरी हो जाएगी। डीसी ट्रेन की परिचालन को लेकर बुधवार को कतरास स्टेशन पर बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो ने एक प्रेस वार्ता कर हेमंत सरकार की जमकर आलोचना की। विधायक ने कहा हेमंत सरकार को कोयला चोरी करवाने से फुर्सत कहां है कि वह जन समस्याओं पर ध्यान दें। विधायक ने कहा 10 जनवरी 2024 को धनबाद चंद्रपुरा के लिए दो डीसी ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगी ,और धनबाद रांची की डीसी ट्रेन कुछ ही दिनों बाद शुरू करवा दी जाएगी। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से सूर्य देव मिश्रा मुकेश कुमार झा सुनील शर्मा आदि मौजूद थे।

नियोजन एवं मांग को लेकर लड़ाई : वासुदेव

कुमारधुबी। दामोदर वैली वास्तुहारा संग्राम समिति का पिछले कई दशको से चला आ रहा आंदोलन ने बुधवार को उग्र रूप ले लिया । आज डीवीसी के विस्थापित वासुदेव महतो के नेतृत्व में आर पार की लड़ाई का ऐलान कर डीवीसी के मैथन स्थित प्रशासनिक भवन का घेराव कर दिया। घेराव को देखते हुए डीवीसी प्रबंधन ने अतिरिक्त सुरक्षा बल को तैनात कर बैरिकेटिंग कर दिया है। साथ ही मैथन पुलिस भी मौके पर मौजूद है। दरअसल समिति पिछले कई दशकों से विस्थापितों के हक में नियोजन और मुआवजा की माँग को लेकर प्रबंधन से लड़ाई लड़ रही है।

आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित

खबर मन्त्र संवाददाता

चिरकुंडा। चिरकुंडा नगर परिषद अंतर्गत वार्ड संख्या 21 का नगर परिषद कार्यालय में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शिविर लगाया गया । जिसमें 676 लोगों ने अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन जमा किए । जिसमे 606 का निष्पादन किया गया।शिविर में जन वितरण से जुड़े हुए आधार व राशन कार्ड में संशोधन को लेकर 60 लाभुकों ने आवेदन जमा किए। वहीं धोती,साड़ी व लूंगी के लिए 210 लाभुकों को इस योजना का लाभ मिला।

झारखण्ड शिक्षा परियोजना, कोडरमा
समग्र शिक्षा
समाहरणालय भवन, कोडरमा
दूरभाष: 8002410681, पिन कोड–825410 jepckoderma@yahoo.co.in& jepkoderma@gmail.com
पत्रांक 1559/SS-Koderma दिनांक 26/12/2023

इच्छा की अभिव्यक्ति

राज्य परियोजना निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद,राँची के निदेशानुसार कोडरमा जिला के 16 विद्यालयों (CM SoE, ULB, Model School, KGBV, JBAV एवं प्रखण्ड स्तरीय आदर्श विद्यालयों) में अधिष्ठापित पुस्तकालय हेतु पुस्तकों का क्रय किया जाना है। इस निमित दिनांक 10.01.2023 को समाहरणालय परिसर कोडरमा में पूर्वाह्न 10:00 बजे से पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है। पुस्तक मेला हेतु महत्वपूर्ण पुस्तकों की सूची जिला के वेबसाईट Koderma.nic.in पर देखा जा सकता है।

पुस्तक में भाग लेने हेतु इच्छुक प्रकाशक अपनी सहमति पत्र झारखण्ड शिक्षा परियोजना, कोडरमा कार्यालय को दिनांक 05.01.2024 तक समर्पित करते हुए पुस्तक मेला में संलग्न पुस्तकों की सूची के साथ भाग ले सकते है।

ह0/–
जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
समग्र शिक्षा, कोडरमा।

PR 314493 Jharkhand Education Project Council(23-24)D

उपायुक्त–सह– जिला दंडाधिकारी का कार्यालय, खूँटी
(जिला भू–अर्जन शाखा)

आम सूचना

लोधमा पिस्का न्यू रेलवे लाईन परियोजना के लिए अर्जित भूमि के मुआवजा भुगतान संबंधी मामलों का शीघ्र निष्पादन हेतु पंचाटियों/ रैयतों का भू–दस्तावेज की प्राप्ति एवं जाँच हेतु शिविर का आयोजन की तिथि निम्न प्रकार से निर्धारित की गयी है, जो इस प्रकार है–

परियोजना का नाम:– **लोधमा पिस्का न्यू रेलवे लाईन**

क्र0	अंचल का नाम	ग्राम का नाम	स्थल	तिथि	समय	जिला भू–अर्जन कार्यालय के प्रतिनुयक्ति कर्मियां
1	कर्रा	कुलहुटू	चबुतरा, कुलहुटू	03.01.2024 एवं 05.01.2024	11.00 बजे से 5.00 बजे तक	अमीन, राजस्व उप निरीक्षक, कानूनगो, लिपिक एवं अनुसेवक
2	कर्रा	काटमकुकू	महुआटोली मैदान के पास, काटमकुकू	04.01.2024 एवं 06.01.2024	11.00 बजे से 5.00 बजे तक	

अतः अंचल अधिकारी, कर्रा को निदेशित किया जाता है कि अंचल निरीक्षक एवं सबंधित राजस्व उप निरीक्षक को शिविर की तिथि को प्रतिनियुक्त करेंगे तथा शिविर की सूचना संबंधित रैयतों एवं ग्राम प्रधान को भेंजेंगे।

सभी संबंधित प्रभावित रैयतों से अनुरोध है कि अपने अपने अर्जित भूमि से संबंधित कागजात यथा खतियान/डीड, दाखिल खारिज कागज, लगान रसीद, बैंक पासबुक का छायाप्रति, आधार कार्ड, सी सी भाउचर, आवेदन, एवार्डी सत्यापन प्रतिवेदन, अंचल से सत्यापित वंशावली, पारिवारिक बंटवारानामा, क्षतिपूर्ति बन्धपत्र, फोटो–3 एवं रेमन्यु टिकट एवं अन्य आवश्यक कागजात के साथ निर्धारित तिथि को शिविर स्थल में उपस्थित होना सुनिश्चित किया जाय, ताकि शिविर स्थल पर आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजातों का सत्यापन कर मुआवजा भुगतान हेतु त्वरित कार्रवाई किया जा सके।

अनुलग्नक:– रैयतों की सूची।

ह0/–
जिला भू–अर्जन पदाधिकारी,
खूँटी।

PR 314427 (Land Reforms) 23-24 (D)

झारखण्ड सरकार कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, हजारीबाग
ई– अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना
ई–निविदा सं0 :– RDSPL/SD/HZB/31/2023-24

1.कार्य की विस्तृत विवरणी:

ग्रुप सं0	आईडेन्टीफिकेशन संख्या/पैकेज संख्या	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	अग्रधन की राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1.	RDSPL/SD/HZB/31/01/2023-24	बरकट्ठा	उत्क्रमित मध्य विद्यालय कल्हाबाद के उन्नयन हेतु विविध निर्माण कार्य।	24468600.00	489400.00	10000.00	12 माह
2.	RDSPL/SD/HZB/31/02/2023-24	दारु	कन्या उत्क्रमित मध्य विद्यालय दारु उन्नयन हेतु विविध निर्माण कार्य।	12391200.00	247900.00	10000.00	12 माह
3.	RDSPL/SD/HZB/31/03/2023-24	सदर	उत्क्रमित उच्च विद्यालय बमनवै के उन्नयन हेतु विविध निर्माण कार्य।	9449195.00	189000.00	10000.00	09 माह
4.	RDSPL/SD/HZB/31/04/2023-24	चुरचू	उत्क्रमित उच्च विद्यालय जबरा के उन्नयन हेतु विविध निर्माण कार्य।	15952600.00	319100.00	10000.00	12 माह

2. वेबसाइट में निविदा प्रकाशन की तिथि – 08.01.2024
3. ई–निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय – दिनांक 08.01.2024 से दिनांक 16.01.2024 को अपराह्न 5:00 बजे तक
4. ई–निविदा खोलने का स्थान – कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, हजारीबाग
5. ई–निविदा खोलने की तिथि एवं समय –18.01.2024 अपराह्न 2:00 बजे
6. ई–निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता :– कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, हजारीबाग
7. ई–निविदा प्रकोष्ठ का दूरभाष सं० – 9430154806
8. परिमाण विपत्र की राशि घट–बढ़ सकती है तद्नुसार अग्रधन की राशि देय होगी।
9. निविदा शुल्क एवं अग्रधन की राशि केवल Online Mode द्वारा स्वीकार्य होगी।
10. निविदा शुल्क एवं अग्रधन की राशि का ई–भुगतान जिस खाता से किया जायेगा, उसी खाते में अग्रधन की राशि वापस होगी।

विस्तृत जानकारी के लिये वेबसाईट www.jharkhandtenders.gov.in एवं कार्यालय की सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल,हजारीबाग

PR 314488 Rural Development(23-24)D

कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सिमडेगा।

मनरेगा अन्तर्गत रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति संबंधित आवश्यक आम सूचना

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सिमडेगा के विज्ञापन ज्ञापांक 1112(ii)/जि0ग्रा0, दिनांक 25.10.2023 द्वारा मनरेगा अन्तर्गत प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष), लेखा सहायक एवं ग्राम रोजगार सेवक के रिक्त पदों पर पूर्णतया संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में दावा–आपत्ति प्राप्ति के उपरांत स्वीकृत आवेदनों के आलोक में प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष) एवं लेखा सहायक के अभ्यर्थियों का लिखित दक्षता परीक्षा तथा ग्राम रोजगार सेवक के अभ्यर्थियों का मेधा सूची के आधार पर पदवार रिक्त पदों के विरूद्ध कोटिवार मूल प्रमाण पत्र संलग्न हेतु अभ्यर्थियों की सूची तैयार किया गया है। सफल अभ्यर्थियों की सूची जिले के वेबसाईट www.simdega.nic.in पर अपलोड किया गया है। चयनित अभ्यर्थियों का मूल प्रमाण पत्रों का तत्काल सत्यापन किया जाना है, जिसकी तिथि निम्नवत् है :–

क्र0	पद का नाम	मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन तिथि	Reporting Time	स्थान
1	प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी	28.12.2023	प्रातः 10.30 बजे	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सिमडेगा
2	तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष)			
3	लेखा सहायक			
4	ग्राम रोजगार सेवक			

नोट :– 1. सभी चयनित अभ्यर्थी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता, आवासीय, जाति, जन्म तिथि प्रमाण–पत्र (मैट्रिक), शपथ पत्र का मूल प्रति ऑनलाईन आवेदन प्रति एवं सभी प्रमाण पत्रों की स्व0–अभिप्रमाणित छायाप्रति एक सेट के साथ उपरोक्त निर्धारित स्थल पर उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।

2. सभी चयनित अभ्यर्थियों को अपने साथ एक अद्यतन पासपोर्ट साईज फोटो एवं आई0डी0 कार्ड (आधार कार्ड, पैन कार्ड यथा अन्य पहचान पत्र) लाना अनिवार्य होगा।

3. किसी चयनित अभ्यर्थियों द्वारा मूल प्रमाण–पत्र के साथ उपस्थित नहीं होने पर उनकी उम्मीदवारी स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

4. सभी चयनित अभ्यर्थियों का उनके मूल प्रमाण पत्रों से मिलान एवं सत्यापन किया जायेगा। सत्यापन के क्रम में त्रुटि पाये जाने की स्थिति में उनके अभ्यर्थितता/मेधा सूची/वरीय क्रम पर आवश्यक निर्णय नियुक्ति समिति द्वारा ली जायेगी, जो अंतिम एवं सर्वमान्य होगी।

5. चयनित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन के क्रम में त्रुटि पाये जाने की स्थिति में उनके स्थान पर प्रतीक्षा सूची में अंकित अभ्यर्थियों को अवसर दिया जायेगा, जिसकी सूचना प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को बाद में अलग से दी जायेगी।

6. वैसे अभ्यर्थियों जिनके आवेदन के साथ संलग्न शैक्षिणिक अंक पत्र में प्राप्तांक प्रतिशत के स्थान पर CGPA, DGPA, SGPA, AGPA आदि अंकित है, वे अपने CGPA, DGPA, SGPA, AGPA आदि को प्राप्तांक प्रतिशत में परिवर्तन करने के लिए अपने शैक्षिणिक संस्थान का Marks Conversion Certificate समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

7. वैसे अभ्यर्थियों जिनके द्वारा पी0जी0डी0सी0ए0 प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है, वे संबंधित संस्थान का मान्यता (AICTE/NIELIT/UGC etc.) संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे।

उपायुक्त
–सह–
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सिमडेगा।

PR 314486 (Simdega) 23-24 (D)

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, रामगढ़।

प्रेस–विज्ञप्ति

इस कार्यालय के निविदा आमंत्रण सूचना संख्या–317/RI/2022-23/RWD/RAMGARH जिसका PR No. 313902 (Rural Work Department) के द्वारा प्रकाशित निविदा मे वर्णित पैकेज सं0 **RWD/RAMGARH/10/SRPKG/01/2022-23** में Online में परिलक्षित निविदा की राशि 1,66,79,890 रू0 के स्थान पर 11,66,79,890 रू0 पढ़ा जाय।

निविदा की अन्य सभी शर्ते यथावत रहेंगी।

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, रामगढ़।

PR 314405 (Rural Work Department) 23-24 (D)

खबर मन्त्र

रांची. गुरुवार .28 दिसंबर 2023

अभिव्यक्ति

epaper.khabarmantra.net

बच्चों की सुरक्षा

बच्चे देश का भविष्य हैं, इसलिए उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार और समाज दोनों की है। इस स्थिति में, दोनों को अपनी भूमिका बेहतर ढंग से निभानी होगी और बच्चों के वर्तमान और भविष्य की रक्षा करनी होगी। लॉकडाउन ने वित्तीय संकट और गरीबी को जन्म दिया है, इसलिए यह परिवारों को हताशा में डाल रहा है और उन्हें अपने बच्चों को तस्करी के लिए धकेलने के लिए अतिसंवेदनशील बना रहा है। वर्तमान स्थिति पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के लिए एक सन्देश है, जिसमें पंचायतों को गांवों के भीतर और बाहर बच्चों के आंदोलनों की निगरानी के लिए एक प्रवास रजिस्टर बनाए रखने के लिए अनिवार्य किया जाए। माइग्रेशन रजिस्टर को नियमित रूप से ब्लॉक अधिकारियों द्वारा जांचा और सत्यापित किया जाना चाहिए।

आसपास के गांवों में सूक्ष्म स्तर की निगरानी के लिए सिस्टम बनाने की जरूरत है, ताकि लॉकडाउन से प्रभावित परिवारों के बच्चों को बाल श्रम के रूप में काम करने से रोका जा सके,पंचायतें, अन्य ग्रामीण स्तर के अधिकारी साथ ही ब्लॉक के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने में प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए कि बच्चे काम न करें और स्कूलों में बरकरार रहें। लॉकडाउन के बीच में कुछ राज्यों द्वारा श्रम कानूनों की कमजोर पड़ने की समीक्षा की जानी चाहिए और तुरंत बचाव करना चाहिए क्योंकि महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों के साथ बाल श्रम और बाल तस्करी की घटनाओं में वृद्धि हो सकती है। विशेषकर झारखंड बनने के बाद भी इस स्थिति में नियंत्रण नहीं हो पाया है क्योंकि राज्य के ग्रामीण इलाकों मेंअ ाज भी विकास की किरण और रोजगार के साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। जहां तक बच्चों की स्थिति का सवाल है इनका मुद्दा कभी चुनावी मुद्दा भी नहीं बनता है जबकि देश का भविष्य तय करता है।

कुश्ती संघ का निलंबन

भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव परिणाम आए थे, जिसमें संघ के पूर्व विवादित अध्यक्ष तथा भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह अध्यक्ष निर्वाचित हुए । जिससे लंबे समय से पूर्व अध्यक्ष को हटाने के लिये आंदोलनरत महिला पहलवानों में आक्रोश व्याप्त हो गया था। खासकर, ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मालिक ने एक प्रेस वार्ता में चुनाव को लेकर रोष व्यक्त करते हुए कुश्ती को अलविदा कह दिया। उसके बाद पहलवान बजरंग पूनिया ने पद्मश्री लौटाने की घोषणा की थी। फिर गूंगा पहलवान के नाम से चर्चित वीरेंद्र सिंह ने भी पद्मश्री लौटाने की बात कही थी। साथ ही चंद खाप-पंचायतें भी खिलाड़ियों के समर्थन में उतरती दिखीं। दरअसल, महिला पहलवानों का आरोप था कि संजय सिंह के जरिये बृजभूषण शरण सिंह कुश्ती संघ पर अपना वर्चस्व बनाये रखेंगे, क्योंकि संजय सिंह उनके बिजनेस पार्टनर भी हैं। दरअसल, नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने अंडर-15 और अंडर-18 के ट्रायल उ.प्र. के गोंडा स्थित नंदिनी नगर में आयोजित करने की घोषणा की थी, जो कि बृजभूषण शरण सिंह के राजनीतिक वर्चस्व वाला क्षेत्र है। जिसके बाद उठे विवाद के उपरांत ही केंद्रीय खेल मंत्रालय ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को निलंबित कर दिया और नये अध्यक्ष द्वारा लिये फैसलों को भी रद्द कर दिया। वहीं खेल मंत्रालय की दलील है कि भारतीय कुश्ती महासंघ को इसलिए निलंबित किया गया क्योंकि निर्वाचित संस्था ने उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। वहीं निलंबित अध्यक्ष का कहना है कि नियमों का उल्लंघन नहीं किया है ,यदि जरूरत पड़ी तो कोर्ट जाएंगे। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर खासी मुखर रही है और इस फैसले को लीपापोती की कवायद बता रही है। कहा जा रहा है कि आम चुनाव की ओर बढ़ते देश में किसी जनाक्रोश से बचने के लिये सरकार ने यह कार्रवाई की है।

नई सीएसआर निगरानी नीति की आवश्यकता

भारत दुनिया का इकलौता देश है जहां कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) को कानूनन अनिवार्य बनाया गया है। यह कानून व्यापारिक गतिविधियों से अर्जित धनलाभ में से कुछ भाग को सामाजिक रूप से व्यय करने के प्रावधान करता है। 01 अप्रैल, 2014 से यह कानून लागू है। अब इस कानून और इसके क्रियान्वयन के अनुभवों पर विचार करने की आवश्यकता के नई सीएसआर निगरानी नीति की जरूरत महसूस की जा रही है। यह कानून हमारे हजारों साल पुराने जीवन दर्शन की बुनियाद पर खड़ा है। यह ऐसी बुनियाद है जहां दान और परोपकार का उद्देश्य समाज के वास्तविक जरूरतमन्दों के लिए विकास और उत्कर्ष के अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए होता रहा है।

यह कानून सिर्फ भारतीय कंपनियों पर ही लागू नहीं होता है बल्कि उन सभी विदेशी कंपनियों के पर लागू होता है जो भारत में कार्य करती हैं। कानून के अनुसार, एक कंपनी को जिसका सालाना नेटवर्थ 500 करोड़ों रुपये या सालाना इनकम 1000 करोड़ रुपये या वार्षिक मुनाफा 5 करोड़ रुपये का हो तो उसको सीएसआर पर खर्च करना जरूरी होता है। यह खर्च कंपनी के तीन साल के औसत लाभ का कम से कम दो प्रतिशत होना जरूरी है । 2014 से 2021 की अवधि में इस कानून के तहत 126938 करोड़ रुपये धन एकत्रित हुआ। यह रकम शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत विकास, पोषण, ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय जैसे क्षेत्रों में खर्च की गई। इसमें नीतिगत बदलाव की आवश्यकता इसलिए महसूस की जा रही है क्योंकि देश में इस राशि का वितरण आसमान है।

तुलनात्मक रूप में ज्यादा वास्तविक जरूरतमंद क्षेत्रों के लिए इससे कोई खास फायदा नहीं मिल पा रहा है। बेशक कानून इस राशि के व्यय के लिए औद्योगिक इकाइयों के स्थानीय क्षेत्रों को प्राथमिकता देता है लेकिन यह भी तथ्य है कि भारत में समग्र विकास की गति भौगोलिक रूप से बहुत असमान है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्य विकास के लगभग सभी संकेतकों पर उत्तर भारत के अन्य राज्यों से अभी भी अग्रणी हैं। सीएसआर के तहत खर्च के आंकड़े इस असमान विकास को कम करने के स्थान पर बढ़ाते नजर आ रहे हैं। अब तक व्यय की गई कुल सीएसआर राशि में 40 फीसदी तो केवल सात राज्यों में ही खर्च हुई है। इसमें पैन इंडिया यानी एक साथ हुए देशव्यापी आवंटन को भी जोड़ लिया जाए तो यह आंकड़ा 60 फीसदी हो जाता जाता है।



- डॉ अजय

इसके विपरीत विनिर्माण क्षेत्र के उपक्रमों के सामने कई समस्याएं रहती हैं। इनमें पूंजी की आवश्यकता, विस्तारित भुगतान अवधि, पूंजी, अधोसंरचना और कच्चे माल की बढ़ी हुई लागत और परिष्कृत रोजगार को लेकर पूर्वग्रह शामिल है। अपर्याप्त लॉजिस्टिक्स के कारण देरी होती है और तैयार माल बढ़ता जाता है। इससे लागत बढ़ती है। छोटे हुए आपूर्तिकताओं के पास काम करने की पर्याप्त क्षमता नहीं होती।

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 4023 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र में 18605 करोड़ रुपये ,गुजरात में 6221 करोड़ रुपये ,कर्नाटक में 7160 करोड़ रुपये , तमिलनाडु में 5437 करोड़ रुपये ,आंध्र प्रदेश में 5100 करोड़ रुपये एवं तेलंगाना में 2500 करोड़ रुपये सीएसआर के तहत 2014 से अब तक व्यय किए गए हैं।

यह ऐसे राज्य हैं जहां औद्योगिक विकास के साथ मानवीय दृष्टि से भी जीवन स्तर समेत अन्य संकेतक देश के अन्य राज्यों से बेहतर हैं। इन राज्यों की कुल आबादी भी खर्च के अनुपात में समान नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा या पूर्वोत्तर के राज्यों में आधारभूत विकास से लेकर सामाजिक रूप से निवेश की आवश्यकता अत्यधिक है। तथ्य यह है कि 22 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में गुजरात की तुलना में आधा यानी 3288 करोड़ का फंड ही मिल सका। इसी तरह बिहार में तो यह आंकड़ा मात्र 691 करोड़ ही हो पाया है। कमोबेश मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा 1149, छत्तीसगढ़ में 1385, पश्चिम बंगाल में 2487 और झारखंड में 873 करोड़ रहा।

सरकार ने कुछ संशोधन कर इस खर्च में रिसर्च और डेवलपमेंट को भी जोड़ा है लेकिन अभी इस दिशा में कोई ठोस काम दिखाई नही दे रहा है।एक और विसंगति यह है कि बड़े घरानों ने अपने प्रभाव वाले एनजीओ एवं ट्रस्ट खड़े कर लिए हैं। यह ट्रस्ट यूनिवर्सिटीज, अस्पताल और कौशल विकास केंद्र संचालित करते हैं। यह एक तरह से केवल धन का डायवर्जन भर है। बेहतर होगा सरकार सीएसआर के लिए कुछ बड़े बुनियादी बदलाव सुनिश्चित करे। मसलन कुल धन का 75 फीसदी तो अभी तक शिक्षा ,स्वास्थ्य और गरीबी पर खर्च हुआ है। इन तीनों क्षेत्रों में सभी सरकारें पिछले 75 साल से पानी की तरह पैसा खर्च कर रही हैं। सीएसआर की राशि का इन क्षेत्रों में व्यय किया जाना असल में दोहराव भर लगता है। अच्छा होगा कि एक नियामक निकाय सीएसआर के लिए खड़ा किया जाए। देशभर की सीएसआर राशि एक स्थान पर संकलित हो। इस राशि के खर्च के लिए एक विशेषज्ञ पैनल हो। हर जिले में एक कौशल विकास केंद्र बनाया जाए। बड़ी कंपनियां यहां खर्च करें। कानून के अनुसार, एक कंपनी को जिसका सालाना नेटवर्थ 500 करोड़ों रुपये या सालाना इनकम 1000 करोड़ रुपये या वार्षिक मुनाफा 5 करोड़ रुपये का हो तो उसको सीएसआर पर खर्च करना जरूरी होता है। यह खर्च कंपनी के तीन साल के औसत लाभ का कम से कम दो प्रतिशत होना जरूरी है । 2014 से 2021 की अवधि में इस कानून के तहत 126938 करोड़ रुपये धन एकत्रित हुआ। यह रकम शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत विकास, पोषण, ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय जैसे क्षेत्रों में खर्च की गई। जहां औद्योगिक विकास के साथ मानवीय दृष्टि से भी जीवन स्तर समेत अन्य संकेतक देश के अन्य राज्यों से बेहतर हैं। इन राज्यों की कुल आबादी भी खर्च के अनुपात में समान नहीं है।

इसी तर्ज पर फूड प्रोसेसिंग,ऑटोमोबाइल जैसे प्रयोग अमल में लाए जा सकते हैं। यह प्रयोग जनभागीदारी से किए जा सकते हैं। नीतिगत स्तर पर देश के हर जिले को इस कानून के दायरे में लाकर विकास और सामाजिक कल्याण दोनों के लक्ष्यों को चरणबद्ध तरीके से साधा जा सकता है।

खास बात

लंबी आयु का राज

प्रशांत कुमार झा

एक ताजा शोध में वैज्ञानिकों ने दीर्घ आयु से जुड़ी कोशिकाओं के संकेत-प्रेषण मार्गों की पहचान की है। इन्हें सिनर्जिस्टिक सेलुलर पाथवे भी कहा जाता है। ये संकेत मार्ग ह्यसी एलिगेंसनामक पारदर्शी नेमेटोड कीड़े के जीवनकाल में पांच गुना वृद्धि कर सकते हैं।

बुढ़ापा-रोधी शोध में इस कीड़े का उपयोग एक मॉडल के रूप में होता है। इसके कई जीन मनुष्य से मिलते-जुलते हैं। इसका जीवनकाल औसतन तीन हफ्ते का होता है। कीड़े के जीवनकाल में पांच गुना वृद्धि मनुष्य के चार सौ या पांच सौ वर्ष तक जिंदा रहने के बराबर है। वैज्ञानिकों की शोध मुख्य रूप से सी एलिगेंस कीड़े में आयु-वृद्धि को नियंत्रित करने वाले दो प्रमुख संकेत-मार्गों पर आधारित हैं। ये संकेत मार्ग विकास-क्रम के दौरान मनुष्यों को हस्तांतरित हुए हैं। वैज्ञानिक काफी समय से कोशिकाओं के इन संकेत मार्गों पर गहन शोध कर रहे हैं।

इस खोज से ज्यादा प्रभावी बुढ़ापा-रोधी दवाएं विकसित करने में मदद मिलेगी। अमेरिका की ह्यएमडीआइ बॉयोलॉजिकल लेबोरेटरी, कैलिफोर्निया में नोवाटो स्थित बक इंस्टीट्यूट फॉर शोध ऑन एजिंग और चीन की नानजिंग यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मिलकर के साथ मिलकर कोशिकाओं के संकेत-प्रेषण मार्गों का पता लगाया है। बक इंस्टीट्यूट के भारतीय मूल के वैज्ञानिक पंकज कपाही के मुताबिक, संकेत-मार्गों में सामूहिक रूप से होने वाली अंतर-क्रिया की खोज से मनुष्य का जीवनकाल बढ़ाने के लिए मिश्रित चिकित्सा विधियां अपनाई जा सकती हैं। वैज्ञानिकों ने दीर्घ जीवन में एक खास प्रोटीन की भूमिका का पता लगाया है।

एमडीआइ बॉयोलॉजिकल लेबेरेटरी की शोध टीम के प्रमुख जेरोड ए रॉलिंस के मुताबिक, हमने देखा कि कुछ कीड़े यदि पी 62 नामक प्रोटीन को अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न करते हैं तो वे अधिक समय तक जीते हैं। यह प्रोटीन दरअसल कोशिका के विषाक्त प्रोटीन को पहचान लेता है।

सेनफर्ड बर्नहम प्रीबिस मेडिकल डिस्कवरी इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों द्वारा की गई खोज का पूरा ब्योरा नेचर कम्युनिकेशंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है।

परशुराम का अहंकार

धर्म-प्रवाह

स्वामी सत्यानंदजी परमहंस

लक्ष्मण ने कहा कि उस समय आप मेरा सिर नहीं काट पाये थे अभी आइये आपको मैं हिसाब-किताब बराबर कर देता हूं। परशुराज जी को बात समझ में नहीं आ रही थी।अहंकार ने ज्ञान का हरण कर लिया था। बात बहुत आगे बढ़ती गयी। तो श्रीराम जी ने कहा कि वे अपराधी नहीं है। मैंने धनुष तोड़ा है। अगर आपकी समझ में मैने गलती की है तो आप मालिक है मुझे दंड दे सकते हैं।अगर दंड में आप मेरा सिर भी काट लेंगे तो प्रसन्नता होगी। परशुराम जी ने कहा कि मैं चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाला नहीं हूं। तुमने धनुष तोड़कर बल का प्रदर्शन किया है तो मेरे साथ युद्ध करो। । श्रीराम ने कहा कि यह शोभा नहीं देता, आप मालिक हैं, मैं दास हूं। आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूं। स्वामी और सेवक के बीच युद्ध कैसा?

परशुरामजी बार-बार युद्ध के लिये ललकारते रहे और श्री राम सदा विनयशील होकर जबाव देते रहे। तब विश्वामित्रजी ने कहा कि युद्ध से बल की परीक्षा ली जाए, उससे बढ़िया है उससे पहले ऐसे ही परीक्षा लिया जाए। युद्ध करते हुए वे जानेगें कि वे कितना बली है। उसके पहले आप परीक्षा ले लिजिये, इनमें बल है किश नहीं। कोई तरकीब आपके पास है परीक्षा लेने का तो लीजिये। परशुराम के कंधा पर शारंगधर धनुष था।जिससे कभी विष्णु जी ने युद्ध किया था। वही धनुष विष्णु जी ने ऋचीक ऋषि को दिया। ऋचीक ने इसे अपने पुत्र जमदाग्नि ऋषि को दिया जिसे बाद में परशुराम ने प्राप्त किया।

(ब्रह्म विद्यालय सह आश्रम)

नेकियों का सिला बदी में मिले,
और शोहरत की कमाई क्या है,
इस बुलंदी पे आ के जाना है,
अच्छा होने में बुराई क्या है..!

- कुमार विश्वास, कवि

आपके ट्वीट

भारत की कालजयी मृत्युंजयी सनातन वैदिक संस्कृति सम्पूर्ण विश्व को अपना परिवार मानती है, जबकि पश्चिमात्य चिंतन में विश्व बाजार है। प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के प्रति उपभोग नही, अपितु उपयोग की वृत्ति रखें।

- अवधेशानंद गिरी

डबल इंजन सरकार उत्तर प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए संकल्पित है। आज काशी में हो रहे विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण से पूर्वांचल सहित पूरे प्रदेश के मेरे परिवारजनों का जीवन और आसान होगा। **-नरेन्द्र मोदी, पीएम**

नाम में ही नहीं, विचारों में भी करना होगा बदलाव

व्यंग्य

सुशील कुमार 'नवीन'

मॉर्निंग वॉक में मेरे साथ अजीब किस्से घटते ही रहते हैं। कोशिश करता हूं कि बचा रहूं पर हालात ही ऐसे बन जाते हैं कि बोले और कहे बिना रहा ही नहीं जाता। सुबह-सुबह हमारे एक दुखियारे पड़ोसी श्रीचन्द जी मिल गए। दुखियारे इसलिए कि ये 'तारक महता का उल्टा चश्मा' के पत्रकार पोपट लाल की तरह है। लाख जतन कर लिए पर विवाह का संजोग नहीं बन रहा। मुझसे बोले-आप हमारे बड़े भाई हैं। एक सलाह लेनी है। मैंने कहा-जरूर, मुझसे आपका कोई काम बने तो यह मेरा सौभाग्य होगा। एक बाबा के विज्ञापन की कटिंग दिखाकर बोले-कल इस बाबा जी के पास गया था। मैंने उनसे सारी कहानी विस्तारपूर्वक सुनाने को कहा तो उन्होंने बताया कि दोपहर 12 बजे मैं विज्ञापन में दिए गए पते पर पहुंचा। बाबा जी एक रंगीन लाइटों से जगमगाते कक्ष में सुंदर आसन पर भस्म रमाये बैठे थे। चारों ओर धूप और दीप की सुगंध बरबस उन्हीं की ओर खींच रही थी।

कमरे में मेरे प्रवेश करते ही बाबा ने अपने दिव्य चक्षु खोले। मेरी तरफ देखा और हंसकर बोले-श्रीचन्द, सब गड़बड़ी तुम्हारे नाम में है। नाम बदलना पड़ेगा। मैंने भी उत्सुकतावश इस बारे में और जानना चाहा तो बोले-बड़े भोले बनते हो। नाम श्री(लक्ष्मी) चन्द(चन्द्र, सरताज,स्वामी) रखकर 'श्री' का वरण करना चाहते हो। नहीं हो सकता। अनन्ता,अवयुक्ता,अनिरुद्धा,अदित्या, दयानिधि,दानवेन्द्र,देवेश, देवकीनन्दन तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं करने देंगे। नाराज है वो तुमसे। मूर्ख बालक। अपने घर की 'श्री' तुम्हें कौन देगा।

बाबा लगातार बोलते जा रहे थे और मैं सुनता जा रहा था। उनके रुकने पर उपाय पूछा तो वो बोले-कृपा चाहते हो तो अपने नाम के आगे से 'श्री' हटा दो। मैंने कहा-नाम से 'श्री' हटाने से तो मजाक बन जायेगा। 'श्री' के बिना तो चन्द की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। बाबा गुस्सा होकर बोले- तुम तो निरे अज्ञानी हो।'श्री' हटाने से भी तुम्हारे नाम में कोई कमी नहीं आएगी। रूपवान हो तो चन्द के साथ 'रूप' जोड़ रूपचन्द हो जाओ। परमात्मा की मेहर चाहिए तो 'मेहर' जोड़ मेहरचन्द हो जाओ। धार्मिकता रग रग में भरी हो तो 'धर्म' जोड़ धर्मचन्द हो जाओ। दयावान हो तो 'दया के चन्द' दयाचन्द हो जाओ। पूर्णता प्राप्त करनी हो तो पूर्णचन्द बन जाओ। अमरता प्राप्त करनी हो तो अमरचन्द हो जाओ। रोमान्टिक हो तो प्रेमचन्द बन जाओ। सोमप्रिय हो तो सोमचन्द हो जाओ। ज्ञानवान हो तो ज्ञानचन्द बन जाओ। बाबाजी का प्रवचन रुकने का ही नाम नहीं ले रहा था। नाम बदलने से तुम्हारा भाग्य बदलेगा या नहीं यह मैं नहीं कह सकता। पर नाम क्या, नाम में एक भी वर्ड की बढ़ोतरी और घटोत्तरी सब कुछ बदल सकती है। राम रमा तो मोहन मोहिनी, श्याम श्यामा का रूप धर लेता है तो कृष्ण कृष्णा बन जाता है। ज्ञान अज्ञान बन जाता है तो धर्म अधर्म में बदल जाता है। सत्य असत्य तो नाम अनाम बन जाता है। श्री चन्द बोले- आप भी लग गए बाबा जी जैसे ज्ञान बांटने। सीधे-सीधे समझाओ तो कोई बात बने।

मैंने कहा- मेरे भाई। सब आजमा लिया। ये भी आजमा लो। मन तो सन्तुष्ट होगा ही। कुछ मिलेगा तो ठीक अन्यथा जैसे हो वैसे तो रहोगे ही। वो बोले- मतलब। मैंने कहा- नाम के साथ विचारों में भी बदलाव जरूरी है। दुष्ट प्रवृति और नाम सुशील, ख्याल पुराने नाम नवीन, काम राक्षसों के और नाम प्रभुदयाल रखने से थोड़े भलाई पाओगे। मुखौटा छलावे के लिए ही होता है। मुखौटा पहनने का शौक है तो ये भी आजमाकर देख लो। पोपट के साथ चाहे लाल लगाओ चाहे चन्द। रहेगा तो वो पोपट ही। बॉम्ब को बम कहने से वो विनाश कम थोड़े ही न करेगा।

कार्टून वर्ल्ड

नदियों को जोड़ें

अटल बिहारी वाजपेयी के समय शुरू की गई नदी जोड़ो परियोजना उपयोगी है। देश की सभी नदियों को जोड़ने के साथ-साथ ही इनकी साफ-सफाई पर भी विशेष ध्यान देना होगा साथ ही उन इलाकों की मानसून पर निर्भरता भी खत्म होगी, जहां सूखा पड़ता है। किसानों को खेती के लिए समुचित सिंचाई का लाभ भी मिलेगा। गंगा उत्सव इसीका एक हिस्सा है।

- रितु लकड़ा, कांके रांची

चिंताजनक स्थिति

कोरोना महामारी ने जनजीवन को बहुत प्रभावित किया है, वहीं दूसरी ओर डॉक्टर एवं वैज्ञानिक इस महामारी से निजात दिलाने के लिए दिन-रात लगे हुए है। इस महामारी से देश की जनता मानसिक तनाव में है। आये दिन आंकड़ों का बढ़ना भी चिंता का विषय है। पहले की तुलना में आकड़ें कम अवश्य हुआ है लेकिन मामला नियंत्रिण में रहे यह आवश्यक है।

- अवंतिका राज, लोहरदगा

2024 का संकल्प सभी शहर हो कचरामुक्त

विकास

अश्विनी कुमार

सभी शहरों को कचरा मुक्त करना जरूरी स्वच्छ भारत राष्ट्रीय आंदोलन की सफलता है कि युवा पीढ़ी स्वच्छता अभियान में सहयोग कर रही है, सड़क पर कचरा फेंकने की प्रवृत्ति में कमी आई है। दरअसल स्वच्छता एक दिन का, एक पखवाड़े का, एक साल का या कुछ लोगों का ही काम नहीं है, बल्कि यह हर किसी का, हर दिन, हर पखवाड़े, हर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला सतत अभियान है, जिसे हमें चलाते रहना है। स्वच्छ भारत का संकल्प हर भारतीय का होना चाहिए। अपने देश को स्वच्छ, साफ-सुथरा बनाए रखने के लिए केवल सरकार या सफाई कर्मी ही नहीं बल्कि हर भारतीय का सहयोग जरूरी है। स्वच्छता के प्रति हमेशा सजग रहने वाले महात्मा गांधी की जयंती से ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'स्वच्छ भारत मिशन-शहरी' और कायाकल्प एवं शहरी सुधार के लिए 'अटल मिशन' के दूसरे चरण की शुरूआत की है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का 'स्वच्छ भारत' का सपना था। गांधी ने स्वच्छता बनाए रखने की शिक्षा प्रदान कर राष्ट्र को एक उत्कृष्ट सन्देश दिया था।

2 अक्टूबर 2014 को देश भर में एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में स्वच्छ भारत मिशन की शुरूआत हुई। हालांकि यह नई योजना नहीं थी। देश में 1 अप्रैल 1999 से ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का पुनर्गठन कर पूर्ण स्वच्छता अभियान शुरू किया गया था, जिसे 1 अप्रैल 2012 को तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने निर्मल भारत अभियान (एनबीए) नाम दिया। निर्मल भारत का पुनर्गठन कर ही स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया।

नई दिल्ली में राजपथ पर स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि 2019 में महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के अवसर पर भारत उन्हें स्वच्छ भारत के रूप में सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजलि दे सकता है।यह लक्ष्य तो पूरा नहीं हो सका, आज भी हमारे शहर बहुत गंदे हैं और खुले में शौच से मुक्त नहीं हुए हैं, लेकिन आज एक अक्टूबर 2021 में जब दूसरे चरण की शुरूआत हुई है, तो देश में स्वच्छता के प्रति राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता है, खुले में शौच बंदी की दिशा में देश ने काफी प्रगति की है। शहरी विकास असमानता को दूर करने में महत्वपूर्ण है। कई लोग बेहतर जीवन के लिए गांव से शहर आते हैं। उन्हें रोजगार तो मिल जाता है लेकिन उनका जीवन स्तर गांव से भी खराब हो जाता है। डा. आंबेडकर चाहते थे कि यह स्थिति बदले।

शहरी गरीबों का जीवन स्तर भी सुधरे। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 और अटल मिशन 2.0 की शुरूआत शहरों में स्वच्छता व सुधार की दिशा में अहम कदम साबित होंगे। भारत का उद्देश्य व्यक्ति, क्लस्टर और सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के माध्यम से खुले में शौच की समस्या को समाप्त करना है। स्वच्छ भारत राष्ट्रीय आंदोलन की सफलता है कि युवा पीढ़ी स्वच्छता अभियान में सहयोग कर रही है, सड़क पर कचरा फेंकने की प्रवृत्ति में कमी आई है।

दरअसल, स्वच्छता एक दिन का, एक पखवाड़े का, एक साल का या कुछ लोगों का ही काम नहीं है, बल्कि यह हर किसी का, हर दिन, हर पखवाड़े, हर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला सतत अभियान है, जिसे हमें चलाते रहना है। स्वच्छता एक जीवनशैली है, स्वस्थ जीवन का मंत्र है, इसे हमें अपनाना चाहिए। 2024 में देश का कचरा भी आय का बेहतर साधन बने यह आवश्यक है।

संस्थापक
स्व. डॉ अभय कुमार सिंह

वृन्दा मीडिया पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए
मुद्रक, प्रकाशक
मंजू सिंह

द्वारा चिरौंदी, बोड़ेया रोड, रांची (झारखंड) से मुद्रित एवं प्रकाशित।

संपादक
अविनाश ठाकुर*
फोन : 95708-48433
पिनः -834006
e-mail
khabarmantra.city@gmail.com

R.N.I No.
JHAHIN/2013/51797

*पीआरबी एक्ट के अंतर्गत खबरों के चयन के लिए उत्तरदायी। प्रकाशित खबरों से संबंधित किसी भी विवाद का निपटारा रांची न्यायालय में ही होगा।

गली-मोहल्ले में फैला ब्राउन शुगर का धंधा

एक साल में इस जहर से कई युवाओं की हुई मौत

अभय कुमार सिंह

हजारीबाग। हजारीबाग शहर के गली-मोहल्लें में ब्राउन शुगर का धंधा फैला दिया गया है। हर गली में आपको शाम होते ही नशे में धूत युवा मिल जाएंगे। ब्राउन शूगर याने कि बीएस इलाके आसानी से उपलब्ध है। जितना रुपये उतना माल। जैसा ग्राहक वैसी कीमत। धंधा करने वालों ने पैसे के बल पर पूरे शहर को अपने जहर के जाल में फंसा लिया हैं। युवाओं को गिरफ्त में लेता जा रहा हैं। सफेदपोशो की मिलीभगत से स्कूल-कॉलेजों के आस-पास और छात्रावासों के पास धंधा चल रहा हैं। इस कदर जहर फैला दिया कि अब उसका खात्मा होना मुश्किल लग रहा

हैं। ड्रग्स के कारण जिले का अपराध ग्राफ बढ़ रहा हैं।

ठोस कार्रवाई की कमी : आश्चर्य की बात यह है कि थाना के आसपास ही यह बिजनेस आसानी से फल-फूल रहा है, लेकिन थाने की ओर से

▸▸ शहर के लोगों को नशे के खिलाफ होना होगा लामबंद

होने वाली कार्रवाई काफी धीमी है। सदर थाना, लोहसिंघना और बड़ी बाजार थाना, कोर्रा टीओपी के आसपास से लगातार नशे के सामानों की बिक्री की खबरें आती रहती हैं। पुलिस कुछ मौको पर कार्रवाई भी करती है मगर इसे रोकने के लिए जिस ठोस पहल की आवश्यकता है वो नजर नहीं आती है।

जनप्रतिनिधि, समाजसेवी आखिर क्यों हैं मौन : शहर में ब्राउन शूगर ने इतने बड़े पैमाने पर पैर पसार लिया है। लेकिन इसके खिलाफ ना तो कोई जनप्रतिनिधि और ना कोई समाजसेवी मुखरता से विरोध कर रहे हैं। प्रशासनिक अमला पर जो दबाव इन लोगों के द्वारा पड़ना चाहिए था वो भी कहीं नहीं दिखता है। नशे के खिलाफ काम करने वाले एनजीओ की भागीदारी भी ना के बराबर देखी जा रही है। अब शहर के लोगों को ही इस नशे के खिलाफ लामबंद होना पड़ेगा। क्योंकि ये नशा यहां नहीं रूका तो आज नहीं तो कल ये आपके घर में प्रवेश करेगा।

नशे की लत से युवा पीढ़ी हो रही है बर्बाद

300 रुपए से लेकर 1 हजार रुपए तक की छोटी-छोटी नशे की पुड़ियां बेची जा रही हैं। शहर भर में इस काले कारोबार के एजेंट स्लीपर सेल की तरह फैले हुए हैं, जो नशे के बड़े तस्करों के लिए काम करते हैं। नशे की आदी हो चुके इन युवाओं को ना भविष्य की चिंता है ना वर्तमान का डर। दुःख की बात यह है की सिर्फ युवा ही नहीं, नाबालिग भी इसकी चपेट में आने से खुद को नहीं रोक पा रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले नशे के आदि एक युवा ने आर्थिक तंगी के कारण फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी क्योंकि उसे घरवालों ने पैसे देने से इंकार कर दिया था। साथ हीं पिछले दो दिनों में दो युवा ब्रैन हैमरेज के शिकार हुए हैं। जिनकी उम्र 24 वर्ष की थी। कारण था ब्राउन शूगर का ओवरडोज।

स्पीड न्यूज

जवाहर नगर में ग्रामसभा आयोजित

भुरकुंडा (रामगढ़)। ग्राम पंचायत विकास योजना को लेकर पीरामल फाउंडेशन रामगढ़ के तत्वावधान में बुधवार को जवाहर नगर पंचायत भवन में विशेष ग्रामसभा का आयोजन किया गया। सबका विकास और एलएसपीजी थीम के बारे में पीरामल फाउंडेशन की फेलो निशा वर्मा ने ग्रामीणों को दी जानकारी। उन्होंने जीपीपीएफटी के बारे में भी ग्रामीणों को जानकारी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। निशा वर्मा ने कहा कि 29 दिसंबर को ग्राम पंचायत योजना सहयोग दल का गठन किया जायेगा। ताकि समस्याओं का समाधान पंचायत स्तर पर ही किया जा सके। मौके पर सरिता देवी, जितनी देवी, खुशबू कुमारी, अनिता देवी, महिला समूह की श्वेता सिन्हा, मानसी मुर्मू, शिवानी देवी, रूपाली सरकार, कलावती देवी, रंजना देवी, राखी देवी, पूजा देवी, सनी देवी, सुलेखा देवी, उर्वसी देवी, पानमती देवी, अंजू देवी, अनिता देवी, बसंती देवी, श्याम कुमार सहित दर्जनों महिलाएं मौजूद थी।

निरामया में मोतियाबिंद ऑपरेशन आज

भुरकुंडा (रामगढ़)। लायंस क्लब ऑफ भुरकुंडा ने शिविर में पाये गये 15 में से 6 मोतियाबिंद मरीजों को नि:शुल्क ऑपरेशन के लिए बुधवार को रांची स्थित निरामया अस्पताल भेजा। क्लब की अध्यक्ष माला शर्मा, सचिव रेखा वर्णवाल व कोषाध्यक्ष अंजू देवी ने मरीजो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लायंस क्लब ऑफ भुरकुंडा द्वारा मेन रोड भुरकुंडा ट्रेकर स्टैंड स्थित राज नर्सिंग होम और टॉपकोन चश्मा दुकान में 25 व 26 दिसंबर को नि:शुल्क मोतियाबिंद जांच शिविर लगाया गया था। जिसमें 15 लोग मोतियाबिंद मरीज पाये गये। इनसभी का पैथोलॉजिकल के सनी नायक द्वारा नि:शुल्क ब्लड शुगर जांच किया गया। जिसके बाद 6 मरीजों को आंखों के ऑपरेशन लिए निरामया अस्पताल रांची भेजा गया है। जहां 28 दिसंबर को इनका ऑपरेशन होगा। वहीं 29 दिसंबर को इनकी घर वापसी होगी। इन सारी प्रक्रियाओं को सफल बनाने में लायन मोहम्मद मुमताज, राजेंद्र महतो, अखिलेश शर्मा, अशोक सिन्हा, विजय वर्णवाल, शिवा प्रसाद, राजेश अग्रवाल, विजयंत कुमार, प्रमोद शर्मा, निर्मल अग्रवाल, रमेश अग्रवाल आदि का विशेष योगदान रहा।

आजसू के सचिव बने सतीश सिन्हा

भुरकुंडा (रामगढ़)। सयाल निवासी अखिल झारखंड कोयला श्रमिक संघ के केंद्रीय महासचिव सतीश सिन्हा को केंद्रीय कमिटी द्वारा आजसू पार्टी का केंद्रीय सचिव बनाए जाने पर महाप्रबंधक कार्यलय जीएम यूनिट के कार्यकर्ताओं में हर्ष का माहौल है। बुधवार को जीएम यूनिट के एजेकेएसएस कार्यकताओं ने बारी-बारी से आजसू पार्टी के नवमनोनित केंद्रीय सचिव सतीश सिन्हा को फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत करते हुए बधाई दी। साथ ही बरका-सयाल क्षेत्र के जीएम यूनिट के एजेकेएसएस कार्यकताओं ने सतीश सिन्हा को केंद्रीय सचिव बनाने के लिए आजसू के केन्द्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो, गिरीडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, आजसू पार्टी महासचिव सह बड़कागांव विधानसभा प्रभारी रोशनलाल चौधरी के प्रति आभार जताते हुए धन्यवाद कहा है। सतीश सिन्हा के केंद्रीय सचिव बनने पर एजेकेएसएस के क्षेत्रीय सचिव संजय मिश्रा, वेलफेयर बोर्ड सदस्य कमलेश कुमार, शाखा अध्यक्ष शिवनंदन दास, सचिव कमल सिंह, सक्रिय सदस्य सुरेश प्रसाद खरवार, सुरेंद्र कुमार, साहिल कुमार, कुश कुमार, राजीव रंजन, चंद्रदीप चौधरी, अमित कुमार, मनीष कुमार सिंह, महालाल बेसरा, विजय टुडू, गोराचांद साव, तिवारी बेसरा, अजीत मरांडी, सुनील उरांव, पूर्णिमा सिन्हा, अनीता कुमारी, अंजू देवी, सेल कुमारी, सांता देवी, उर्मिला कुमारी, प्रमिला कुमारी, जीतनी देवी, बाबूलाल आदि ने बधाई दी।

अनमोल बचपन प्ले स्कूल के बच्चों ने वनभोज का लिया आनंद

भुरकुंडा (रामगढ़)। पटेलनगर भुरकुंडा स्थित अनमोल बचपन प्ले स्कूल के बच्चे निदेशक अवधेश कुमार सिंह के नेतृत्व में बुधवार को शैक्षणिक भ्रमण सह वनभोजन के लिए पतरातू डैम रवाना हुए। इसमें शामिल नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी से लेकर कक्षा 1, 2, 3, 4, एवं 5 के बच्चों के लिए फन और मस्ती से भरा दिन रहा। इस दौरान बच्चों ने निदेशक अवधेश कुमार सिंह से कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की। साथ ही बच्चों व शिक्षक-शिक्षिकाओं ने खूबसूरत पतरातु डैम पार्क में पिकनिक का जमकर आनंद उठाया। साथ ही एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजन का भी लुत्फ उठाया। इससे पूर्व बच्चों ने बगीचे में लगे विभिन्न झूलो का आनंद लिया। इसके बाद हरी घास के लोन पर फिजिकल गेम दौड़, खो-खो, रेलगाड़ी आदि खेलों का भरपूर आनंद लिया। मौके पर निदेशक अवधेश कुमार सिंह ने कहा की मनोरंजन के साथ-साथ बच्चों को आत्मनिर्भर बनने और आसपास के माहौल के साथ तालमेल बैठाने में ऐसी एक्टिविटी लाभदायक सिद्ध होती है। बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ दूसरी करिकुलम एक्टिविटीज में भी उनके सहभागिता रहती है। साथ ही ऐसे आयोजनो से बच्चों में बौद्धिक क्षमता का भी विकास होता है। श्री सिंह ने कहा की संस्था की ओर से पढ़ाई के साथ-साथ पिकनिक अलग ब्रेक देने का प्रयास था। ऐसे आयोजनों से बच्चों में नये ऊर्जा का भी संचार होता है।

सूर्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समिति के अध्यक्ष बने राजसिंह चौहान

खबर मन्त्र संवाददाता

▸▸ बरही में नौ दिवसीय महायज्ञ 16 फरवरी से होगा शुरू
▸▸ रमेश ठाकुर, जीतू ठाकुर उपाध्यक्ष व मुखिया समशेर आलम संरक्षक

बरही। बरही के प्राचीन छठ घाट बरही में सूर्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा सह महायज्ञ को लेकर हुई। बैठक में 16 फरवरी से होने वाले नौ दिवसीय महायज्ञ सह प्राण प्रतिष्ठा की घोषणा की गई। जिसमें सर्वसम्मति से राजसिंह चौहान को समिति का अध्यक्ष बनाया गया। वहीं राजवंशी सिंह को सचिव, लोकेश ठाकुर को सहसचिव, पिंटू ठाकुर को कोषाध्यक्ष, प्रवीण सिंह सहकोषाध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा स्थानीय मुखिया समशेर आलम, नागेश्वर प्रसाद केशरी, भगवान प्रसाद केसरी, कैलाशपति सिंह, होरील सिंह, छोटी ठाकुर, सीताराम प्रसाद केसरी, लखन सिंह, विनय सिंह, विजय सिंह, महेंद्र सिंह, बद्री साव, देवधारी प्रजापति, बलराम केशरी, जमुना प्रसाद केशरी, परमेश्वर केशरी, भुनेश्वर साव, राधा साव, दसरथ साव को संरक्षक बनाया गया। वहीं पूर्व मुखिया प्रतिनिधि रमेश ठाकुर, पंसस जीतू ठाकुर, मोती सिंह, राजू राणा, भोली पासवान, नागेश्वर प्रजापति, महेश साव, राजकुमार केशरी, अनिल केशरी, बिरेन्द्र पांडेय, दीनू प्रजापति, उदय ठाकुर, इंद्रदेव भुइयां को उपाध्यक्ष बनाया गया। वहीं महिलाओं के लिए अलग समिति का गठन किया गया है। जिसमें सुनीता देवी को अध्यक्ष, कंचन देवी, पायल देवी, ममता देवी को उपाध्यक्ष, देवन्ति देवी को सचिव, गायत्री देवी को सहसचिव बनाया गया। वहीं यज्ञ पूजा सलाहकार समिति में रामचन्द्र पांडेय, रामलखन शर्मा, परमानंद पांडेय, महेंद्र पांडेय, कामेश्वर पांडेय, उपेंद्र पांडेय, दिनेश पांडेय, कृष्णा पांडेय, सुरेश पांडेय, जीवलाल पांडेय, अजय पांडेय को बनाया गया। यज्ञशाला निर्माण समिति में छोटू पांडेय, सुरेश राणा, रामचन्द्र राणा, नकुल राणा, भरत राणा, मकुंदी राणा और बीरू राणा को बनाया गया। बैठक में विशेष रूप से युवाओं की काफी भागीदारी रही। समिति के अध्यक्ष राजसिंह चौहान ने कहा कि 16 से 24 फरवरी तक सूर्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा सह महायज्ञ आयोजित किया जाएगा। समिति के उपाध्यक्ष रमेश ठाकुर ने बताया कि सूर्य मंदिर निर्माण बनने में कई वर्ष लगे हैं परंतु भव्य मंदिर का निर्माण बरही के लोगों की मदद से हुआ है। यज्ञ सह सूर्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा बहुत ही धूमधाम व भव्य रूप से संपन्न किया जाएगा।

बैठक में समिति के सदस्य और ग्रामीण।

सदर विधायक ने कुसुम्भा में ग्रामीणों और एनटीपीसी अधिकारियों के साथ की बैठक

▸▸ बानादाग साइडिंग में अंडरब्रिज ब्रिज बनाने को लेकर है विवाद
▸▸ ग्रामीणों की सहमति के बगैर नहीं होगा काम : जायसवाल

खबर मन्त्र संवाददाता

कटकमदाग। सदर विधानसभा क्षेत्र के कटकमदाग प्रखंड स्थित ग्राम कुसुम्भा में बीते कुछ दिनों से इस क्षेत्र के लोग एनटीपीसी द्वारा बनादाग साइडिंग में अंडरब्रिज निर्माण के योजना को लेकर आंदोलनरत रहें हैं। इस क्षेत्र के ग्रामीणों का मांग है की अंडरब्रिज ना होकर यहां ओभरब्रिज बनाया जाना चाहिए। इसी मामले को लेकर बुधवार को हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल कुसुम्भा पहुंचे जहां उनके उपस्थिति में

ग्रामीणों और एनटीपीसी अधिकारियों के बीच इस मामले को लेकर वार्ता हुई। मनीष जायसवाल ने एनटीपीसी के अधिकारियों से स्पष्ट शब्दों में कहा कि कुसुम्भा, चीची, कुबा सहित आसपास के कई गांवों के लोगों का यह मुख्य मार्ग है और अंडरब्रिज बनाए जाने से असामाजिक घटना और असामाजिक कृत्य की आशंका भविष्य में रहेगी ऐसे में ग्रामीणों की यह जायज मांग है की यह ओभरब्रिज बनाया जाय और जब तक ग्रामीणों की सहमति नहीं मिलेगी तबतक एनटीपीसी यहां अपने प्रस्तावित अंडरब्रिज के कार्य को शुरू ना करें अन्यथा ग्रामीणों के साथ हम भी उनके आंदोलन में शरीक होंगे और आपके कार्य का विरोध जताएंगे ।मौके पर स्थानीय कई गांवों के प्रमुख जनप्रतिनिधि, स्थानीय ग्रामीण और एनटीपीसी के अधिकारी मौजूद रहे।

करमा में विकसित भारत को ले कार्यक्रम आयोजित

कुजू। भाजपा द्वारा करमा महतो मार्केट में बुधवार को संकल्प भारत व विकसित भारत अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व प्रदेश 20 सूत्री उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद, रामगढ़ जिला के पूर्व जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार सिन्हा, वर्तमान जिला उपाध्यक्ष राजू चतुवेर्दी, सांसद प्रतिनिधि जगेश्वर प्रजापति, नप अध्यक्ष मनोज गिरि शामिल हुए। प्रधानमंत्री द्वारा लागू किए गए योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी गई। लोगों ने भारत को 2047 तक विकसित व आत्मनिर्भर भारत बनाने का शपथ लिया। कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों ने जैविक कृषि के लाभ और आधुनिक खेती के बारे में बताया। कार्यक्रम से मंचासीन अतिथियों का स्वागत फूल माला पहनाकर किया गया।

रजरप्पा विस्थापित विकास मंच की बैठक

रजरप्पा। रजरप्पा विस्थापित विकास मंच का एक प्रतिनिधिमंडल रजरप्पा जीएम से मुलाकात की। इस दौरान रोजगार को लेकर चर्चा हुई। उसके बाद सभी सदस्यों की एक बैठक अपर्णा वाटिका में किया गया। बैठक में संगठन मजबूती पर चर्चा किया गया। मौके पर उपाध्यक्ष नाजिर अंसारी, पवन कुमार, सचिव शिवचरण महतो, उप सचिव नकुल महतो, कोषाध्यक्ष रकीब अंसारी, मिडिया प्रभारी सुनील करमाली, सदस्य माजिद अंसारी, बालकिशोर महतो, अशोक कुमार महतो, दिलीप कुमार, महेन्द्र महतो, हसीबुल्लाह, मोजाहिद आलम, इस्लाम अंसारी, सबीर, नकुल राम, नाजिर अंसारी, नौशाद अंसारी, मो. सनावर, तनवीर आलम, अयाज शेख, सयूब अंसारी सहित कई लोग मौजूद थे।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा को ले डीसी ने की बैठक

रामगढ़। उपायुक्त रामगढ़ चंदन कुमार की अध्यक्षता में बुधवार की उनके कार्यालय कक्ष में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई। उपायुक्त ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत कुल 73 लाभुकों के लिए तीन योजनाओं का चयन किया गया है। जिनमें मोटरसाइकिल (आइस बॉक्स के साथ) के लिए 11, तीन चक्का वाहन आइस बॉक्स के साथ 10, जलाशयों में केज अधिष्ठापन हेतु

42 मत्स्य पालकों को चिन्हित किया गया है। जिसपर उपायुक्त ने समिति के सदस्यों के साथ चर्चा करते हुए आगे की कार्रवाई करने संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश दिए। बैठके के दौरान जिला कृषि पदाधिकारी, निदेशक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण रामगढ़, वरीय वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र मांडू सहित अन्य उपस्थित थे।

नईसराय में धूमधाम से मनी अहिवरन जयंती

खबर मन्त्र संवाददाता

वर्णवाल समाज के आदिपुरुष थे आहिवरण महाराज : नंद किशोर

रामगढ़। शास्त्री नगर नईसराय में अहिवरन जयंती धूमधाम से मनायी गयी। जिसके उदघाटन झारखंड वैश्य समाज के केंद्रीय अध्यक्ष नंद किशोर गुप्ता उर्फ नंदू बाबू एवं झारखंड वैश्य समाज के संस्थापक सह युवा एवं जुझारू नेता राजीव जयसवाल ने किया। इस दौरान उनकां शॉल ओढ़ाकर और बुके देकर भव्य स्वागत किया गया। अहिवरन जयंती के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय मोदी वर्णवाल विकास संघ के प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार रंजन एवं विशिष्ट अतिथि शिवशंकर मोदी मौजूद थे। मंच संचालन शिवशंकर साहू एवं अध्यक्षता सुनील कुमार वर्णवाल ने किया। केंद्रीय अध्यक्ष नंदू गुप्ता ने कहा कि मोदी

वर्णवाल समाज के आदिपुरुष आहिवरण महाराज थे। जिनका इतिहास के पन्नों में सफल राज्य चलाने और जनता के दिलों में राज करने वाले महाराजा के रूप में जिक्र है । युवा नेता राजीव जयसवाल ने कहा कि बुलंदशहर के राजा अहिवरन महाराज वैश्य समाज के अग्रणी नायक में एक थे। वैश्य समाज से अनेकों राजा-महाराजाओं ने देश में कई राज्य चलाया । हम और आप नींप वैश्य समाज से आते हैं। आज देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी भी वैश्य समाज से हैं। कहा की जब जब वैश्य समाज ने देश और राज्य की बागडोर संभाली है देश एकजुट और सामर्थ्यवान बना है। आज वैश्य समाज को एक होकर सत्ता की बागड़ोर संभालने और देश को उन्नति के राह पर ले जाने की जरूरत है। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरूषों की उपस्थिति रही। जिनमें महेंद्र मोदी, पंकज मोदी, दिनेश मोदी , महेश मोदी, त्रिवेणी मोदी, राजू मोदी, राजेंद्र मोदी, मनोज मोदी, पिंटू मोदी, धीरज मोदी, मिथलेश मोदी शिवशंकर मोदी, बोमकेश वर्णवाल, सुरज मोदी, अंकित मोदी,विशाल मोदी, अभय मोदी,सुमन मोदी,शुभम मोदी, आकाश मोदी, राजेश मोदी, मुन्ना वर्णवाल, बिक्रम वर्णवाल आदि शामिल हैं।

एक नजर में

बिहारी पंचायत में लगा आपके द्वार शिविर

पदमा। बिहारी पंचायत भवन परिसर के प्रांगण में दिन मंगलवार को झारखंड सरकार द्वारा आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक उमाशंकर अकेला यादव, जिप सदस्य बसंत नारायण मेहता, पदमा प्रखंड विकास पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार, पदमा प्रमुख वीणा देवी, बिहार पंचायत मुखिया चंचला कुमारी, विधायक प्रतिनिधि सह पदमा के मुखिया अनिल मेहता, पदमा प्रखंड बीस सूत्री अध्यक्ष संजय कुमार यादव, उप प्रमुख सत्येंद्र राणा ,कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष गौतम कुमार मेहता पंचायत समिति सदस्य शारदा देवी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक उमाशंकर अकेला ने कहा कि झारखंड की हेमंत सरकार गरीबों की सरकार है। झारखंड सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं। शिविर में आए आवेदनों पर कार्रवाई की गयी। इस अवसर पर पर्यवेक्षिका माधुरी देवी, किरण देवी ,बंदर बेला के मुखिया विजय कुमार मेहता, सरैया पंचायत के मुखिया शांति देवी, रोमी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सुनील मेहता, पंचायत समिति सदस्य कामेश्वर प्रसाद मेहता, ननकू मेहता, कुलदीप रविदास, अशोक राणा, सत्यनारायण प्रसाद मेहता, रामचंद्र मेहता, पूर्व मुखिया सहदेव प्रसाद मेहता, कपिल देव प्रसाद मेहता सहित कई लोग उपस्थित थे।

आशीष सहाय ने किया बिस्तर का वितरण

कटकमसांडी। चार पंचायत में बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री के बी साहय के पौत्र आशीष सहाय के द्वारा कटकमसाडी प्रखंड क्षेत्र के चार पंचायत रेबर, डांटो,बाझा और कटकमसाडी पंचायत बिस्तर वितरण किया गया। आशीष सहाय के द्वारा चार पंचायत में करीब एक हजार बिस्तर को वितरण कर प्रखंड क्षेत्र के लोगों के साथ रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि कटकमसाडी प्रखंड क्षेत्र आने वाले समय में अगर लोंगो का प्यार आशिर्वाद मिला तो आने वाला समय में हजारीबाग का बेटा बनकर चुनाव के मैदान में आ सकता हूं। वही कांग्रेस जिला अध्यक्ष सलेन्द्र यादव ने कहा कि हमलोगों ने कांग्रेस को कटकमसाडी प्रखंड को मजबूत करने का संकल्प लिया है। मौके पर कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष नरसिंह प्रजापति, बीस सूत्री अध्यक्ष सरयू यादव, बाबर अंसारी, खुटरा पंचायत समिति सदस्य प्रदीप मिश्रा, पंचायत मुखिया कुमारी बखला, रंजीत यादव,कमलदेव यादव,उप मुखिया बिनोद यादव,सेराज अंसारी,मो अजीज सहित दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल थे।

नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी से मिले योगेंद्र साव

बड़कागांव। पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के नवनियुक्त प्रभारी गुलाम अहमद मीर से 24 अकबर रोड नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में शिष्टाचार मुलाकात किया। इस दौरान योगेंद्र साव ने प्रभारी को बधाई दिया साथ ही झारखंड की वर्तमान राजनीतिक हालात पर विस्तृत चर्चा करते हुए संगठन की मजबूती पर भी वार्ता किया।आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर संगठन को मजबूत करने की भी बात की गई योगेंद्र साव द्वारा बड़कागांव विधानसभा की समस्याओं पर भी प्रकाश डाला गया जिसमें विस्थापन आयोग का गठन करना, स्थानीय नीति एवं आंदोलन के दौरान हुए मुकदमो का निष्पक्ष जांच करने से संबंधित बातचीत हुई।इस दौरान पूर्व मंत्री ने प्रभारी को गुलदस्ता भेंट कर जल्द झारखंड आने का न्योता दिया।

एक जनवरी से पीडीएस डीलर हड़ताल पर

पदमा। फेयर्स प्राइस डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर एक जनवरी 2024 से पदमा प्रखंड के सभी पीडीएस डीलर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। हड़ताल को सफल बनाने के लिए पदमा डीलर संघ की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष श्यामसुंदर पांडेय व संचालन सचिव बासुदेव प्रसाद मेहता ने किया। प्रखंड अध्यक्ष श्याम सुन्दर पाण्डेय ने बताया कि एक जनवरी से फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के केन्द्रीय एवं प्रदेश कमिटी के निर्णय के आलोक में देश व्यापी राशन वितरण बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सभी जविप्र दुकानदार जाएंगे। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के संबंध में बीडीओ पदमा मनीष कुमार को लिखित सूचना दिया गया है। ज्ञापन सौपने क्रम श्याम सुन्दर पाण्डेय, बासुदेव मेहता, सुरेंद्र मेहता, चंदन कुमार, खिरोधर मेहता, तेजन साव, मनोज कुमार मेहता, पुष्पा बाला देवी, आरती महिला मंडल तराजू महिला मंडल एवं अन्य प्रखंड के विक्रेता उपस्थित थे।

कौलेश्वर गंझू को आजसू ने दी बधाई

बड़कागांव। ऊरेज निवासी पूर्व प्रमुख प्रतिनिधि कौलेश्वर गंझू को आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो के निर्देशानुसार केन्द्रीय सचिव बनाए जाने पर बड़कागांव प्रखंड आजसू कमेटी ने फलदार पेड़ देकर केंद्रीय सचिव बनाए जाने पर बधाई दी। गंझू ने कहा कि पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो और केंद्रीय महासचिव सह बड़कागांव विधानसभा प्रत्याशी रोशन लाल चौधरी का शुक्रगुजार हूं कि मुझे इस काबिल समझा और पार्टी में इतना बड़ा स्थान मुझे दिया है। आने वाले 2024 विधानसभा चुनाव में आजसू के प्रत्याशी रौशन लाल चौधरी को विजय बनाकर विधानसभा में भेजने का काम करेंगे।मौके पर केंद्रीय सदस्य राजा खान, प्रखंड सचिव मनोज दांगी,तुलेश्वर राम, नागेश्वर तुरी, सुरेश दांगी सहित दर्जनों लोग शामिल थे।

स्पीड न्यूज

परमवीर अलबर्ट एक्का की जयंती पर जिले के अधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि

गुमला। परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अलबर्ट एक्का की जयंती पर जिले के विभिन्न स्थानों में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। परमवीर अलबर्ट एक्का स्टेडियम परिसर में स्थित अलबर्ट एक्का की प्रतिमा पर उप विकास आयुक्त हेमंत सती सहित जिले के अधिकारियों ने माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। अधिकारियों ने अलबर्ट एक्का के जयंती पर उन्हें याद किया। मौके पर अपर समाहर्ता, एसडीओ सदर, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला सामाजिक सुरक्षा पदाधिकारी सह जिला जन संपर्क पदाधिकारी, जिला खेल पदाधिकारी, जिला श्रम अधीक्षक व अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी मौजूद थे।

22 जनवरी को अयोध्या के कार्यक्रम से जुड़ेगा गुमला जिले का आंजनधाम

गुमला। आंजन धाम में आगामी कार्यक्रम एक शाम-आंजन धाम कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कमेटी के पदाधिकारियों संग आंजन धाम विकास समिति के सदस्यों की बैठक हुई। जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम भगवान का प्राण प्रतिष्ठा समारोह से गुमला का आंजन धाम भी जुड़ेगा। कार्यक्रम 12 जनवरी की जगह 22 जनवरी को संपन्न होगा। जिसमें 20, 21, 22 जनवरी तीन दिनों का कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम सफलतापूर्वक कराने के लिए गुमला जिलाध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष अरविंद मिश्रा, लोहरदगा जिलाध्यक्ष मनीष राजगढ़िया, राष्ट्रीय महामंत्री नितेश पाठक को जिम्मेदारी दी गई। कार्यक्रम में संगीतमय सुंदरकांड पाठ, अखंड हरिकीर्तन, रामकथाव महा आरती के साथ हजारों भक्त एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। बैठक में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित दिवाकर पाठक, राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सिंह, वीरेंद्र तिवारी, उदय चंद्र मुखर्जी, सूर्यकांत दुबे, जलेश्वर सिंह, श्रीदेव सिंह सुशील तिवारी, विक्की सोनी थे।

ठंड के मौसम में गुमला में घंटों काटी जा रही है बिजली, आम जनता त्रस्त

गुमला। जिला में ठंड के इस माह में बिजली की आंख मिचौनी से आम जनता परेशानी है। बुधवार की सुबह 6 बजे से बिजली पूरे शहर में गुल रही जो अपराह्न लगभग 3 बजे आयी। गर्मी के दिन में बिजली की खपत की बात लोगों को समझ में आती है। इसलिए लोड शेडिंग होते रहता है लेकिन ठंड के इस मौसम में भी घंटो-घंटो बिजली की आपूर्ति बाधित होना लोगों के समझ से परे है। बिजली आ भी रही है तो वोल्टेज डीम रह रही है। बिजली आपूर्ति बाधित रहने से बिजली संचालित उद्योग खासा प्रभावित हो रहा है। वहीं बिजली नहीं रहने के कारण कई प्रतिष्ठानों के लोग परेशान रहे। क्योंकि बिना बिजली के प्रतिष्ठान के कार्य प्रभावित हुआ। ठंड में प्रतिदिन बिजली घंटों काटी जा रही है। एक ओर सरकार 24 घंटे बिजली देने का दावा करती है। वहीं धरातल पर लोगों को 8 से 10 घंटे ही बिजली मिल रही है। सरकार के दावा की पोल बिजली की लचर व्यवस्था खोल रही है।

छात्राओं ने सीखी ऑर्गेनिक फार्मिंग

लोहरदगा। एमएल अग्रवाल एसवीएम इंटर कॉलेज की छात्राओं ने बुधवार को ऑर्गेनिक फार्मिंग के गुरु सीखे। कॉलेज के सरस्वती यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत 20 छात्राओं को केंचुआ खाद (वर्मी कंपोस्ट) फार्म ले जाया गया। वहां संबंधित विषय के विशेषज्ञ दिनेश चांद ने छात्राओं को ऑर्गेनिक फार्मिंग के गुर सिखाये। छात्राओं ने सीखा कि जैविक खाद से कैसे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ा सकते हैं और उत्पादन बढ़ा सकते हैं। बालिका शिक्षा विभाग की प्रमुख ऋद्धि मिश्रा व अर्थशास्त्र की आचार्य अर्चना कुमारी के नेतृत्व में यह सरस्वती यात्रा हुई। छात्राओं में कनक दीप, कशिश कुमारी, पलक कुमारी, कमला कुमारी, पूर्णिमा भगत, रागिनी भगत, मनीता कुमारी, रेशमी कुमारी, मानसी कुमारी, समृद्धि कुमारी, ज्योति प्रिया कुजूर, अंजली कुमारी, सलोनी कुमारी, मुनिका कुमारी, पूजा कुमारी, काजल कुमारी, रंजीता टोप्पो, अनिमा कुमारी, किरण कुमारी, अंजली कुमारी उपस्थित थी।

एक जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जायेंगे जिले के डीलर

कैरो। लोहरदगा जिले के सभी पीडीएस दुकानदार अपने विभिन्न मांगों को लेकर एक जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे है। इसी को लेकर कैरो प्रखण्ड के सभी पीडीएस दुकानदारो की बैठक हुई। जिसमें निर्णय लिया गया कि 1 जनवरी 2024 से पूरे झारखंड में अपनी मांगो को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। इस निमित कैरो प्रखंड के सभी पीडीएस दुकानदार मिलकर बीडीओ को ज्ञापन सौंपे। जिसमें 1 जनवरी से कैरो प्रखंड के सभी डीलर अपना दुकान बंद रखेंगे। पीडीएस दुकानदारों की मांग है कि सभी डीलर को 50000 हजार प्रति महीना कमीशन, सभी डीलर को 5 लाख बीमा की गारंटी, अनुकंपा में उम्र सीमा बाध्यता को निरस्त किये जा, पीएमजीकेएवाई का बकाया कमीशन 2021-22 का भुगतान सुनिश्चित करने, खाली जुट बोरा जो कोराना काल में जो लिया गया है जिसका भुगतान किया जाय, राज्य खाद्य निगम के गोदाम से सुद तौल के साथ जुट बोरा छोड़ सुद वजन देने, दुकानदारों को प्रति क्विंटल सोकती बर्बादी सोटेज 5 प्रतिशत देने सहित अन्य मांग शामिल है। मौके पर लखन उरांव, दीपक साहू, नसीर आलम, ब्रजकिशोर साहु, सुरेंद्र साहु, मो खुर्शीद, मनिदार शाह, सोमा उरांव, रामकेशवर उरांव, चंपा महिला मंडल, चेतना महिला मंडल, जयदुर्गा महिला मंडल के लोग मौजूद थे।

परमवीर अलबर्ट एक्का के नाम से जारी में बने विश्वविद्यालय : याज्ञवल्क्य

- अलबर्ट एक्का गौरव रक्षा समिति के द्वारा परमवीर की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन
- परमवीर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी गयी श्रद्धांजलि
- परमवीर के पोते ने काटा केक, लगे गगन भेदी नारे

खबर मन्त्र संवाददाता

केक काटकर परमवीर अलबर्ट एक्का की जयंती मनाते लोग और जयंती पर परमवीर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन करते पुत्र भिनसेंट एक्का।

जारी। परमवीर अलबर्ट एक्का की जयंती पर बुधवार को परमवीर अलबर्ट एक्का गौरव रक्षा सम्मान समिति ने जारी गांव के स्कूल में मैदान में श्रद्धांजलि सभा की। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य कृष्ण ने मंत्रोचार के साथ किया। तत्पश्चात सभी अतिथियों ने परमवीर की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। वहीं शहीद के पुत्र भिनसेंट एक्का को करेस्टा ग्लोबल लिमिटेड के द्वारा 21 हजार व होस्ट बुक बिजनेस के द्वारा 11 हजार रुपये की राशि दी गयी। मुख्य वक्ता अनिल ठाकुर ने अलबर्ट एक्का के जीवनी के बारे में लिखा किताब पुत्र भीमसेन्ट एक्का को भेंट किया। मौके पर उपस्थित अखिल विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि बहादुर सैनिक के गांव आ सका। उन्होंने कहा कि अलबर्ट एक्का ने देश का नाम रौशन किया है। इसी तरह प्रखंड के वासी भी परमवीर चक्र विजेता की तरह गांव व देश का नाम रौशन करे। श्री शुक्ल ने कहा कि मैं यहां के नवयुवक से आग्रह करता हूं की वह आगे आएं और परमवीर अल्बर्ट एक्का के नाम से जारी में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग करें और साथ ही साथ विद्यार्थियों के सिलेबस में भी अल्बर्ट एक्का की जीवनी को शामिल किया जाय। क्षेत्र संपर्क प्रमुख राष्ट्रीय स्वमसेवक संघ के अनिल ठाकुर ने कहा कि प्रखंड के वासी आज जो दर्जा जारी गांव से जारी प्रखंड का मिला है।

कार्यक्रम की मुख्य बातें

परमवीर चक्र विजेता अलबर्ट एक्का की ही देन है। उनके बलिदानों को सेल्यूट करता हूं। इस छोटे से गांव से निकलकर जारी प्रखंड को पूरे देश भर में पहचान दिलाया है। प्रखंड के नव युवकों से कहना चाहूंगा कि आप भी फौज में जाए और परमवीर अलबर्ट एक्का की तरह देश की सेवा करें। साथ ही परमवीर चक्र गौरव सम्मान समिति के अध्यक्ष दिलीप बड़ाइक ने कहा कि हम सभी प्रखंड का दर्जा दिलाने के लिए जी तोड़ मेहनत किए हैं। इस गांव में विकास हो जिसको लेकर आज भी प्रखंड के कई लोग खड़े हैं। यह कार्यक्रम करने का मुख्य उद्देश्य है कि आज देश के रियल हीरो परमवीर चक्र विजेता अलबर्ट एक्का का जन्म दिवस है। जन्मदिवस में एक से बढ़कर एक कार्यक्रम कराया गया। वहीं यह गांव आज भी विकास की बांट जो रही है। जिसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जारी गांव आने का निमंत्रण भेजा गया है और गांव के सभी लोगों की सहयोग से ही यह कार्यक्रम सफल होगा। यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जारी प्रखंड का दौरा करते हैं तो हम सभी मिलजुल कर अपनी मांगों को उनके समक्ष रखेंगे। वहीं कार्यक्रम में आये उद्योगपतियों ने अपनी बातों को रखा। जिसमें किशोर मंत्री ने घोषणा की है कि झारखंड के सभी मानिंद उद्योगपतियों को जारी गांव बुलाऊंगा और यहां के लोगो का सर्वांगीण विकास के लिए तत्परता के साथ कार्य करने को उत्सुक करूंगा। इससे पूर्व परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का के 81 वे जन्मदिन को सभी जाति के लोग बहुत ही गर्व के साथ मिलजुलकर मनाया और संकल्प लिया कि बिना किसी भेदभाव के हर वर्ष जन्म दिन मनाना है। कार्यक्रम में परमवीर चक्र विजेता अलबर्ट एक्का के पोता अनुज एक्का ने केक काटा। केक काटते ही अल्बर्ट एक्का अमर रहे, भारत माता की जय के नारा से शहीद का पैतृक गांव गूंजता रहा। मौके पर किशोर मंत्री, डॉ विजय राज, राजेश कुमार झा, अर्जुन राम, प्रियंका असुर, शैलेश अग्रवाल, विकास मिश्र, डॉ अटल पांडेय, मनोज कुमार, मनसाय बड़ाइक, रविंद्र सिंह, नंदकिशोर नंद, शाहदेव महतो सहित कई लोग उपस्थित थे।

मंत्री रामेश्वर उरांव ने किया पड़हा भवन का उद्घाटन, सुनी जनता की समस्याएं

विकास के सफर में हम काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं : मंत्री

खबर मन्त्र संवाददाता

कार्यक्रम में मौजूद मंत्री व अन्य।

भंडरा। प्रखंड के नवडीहा एव कसपुर में विद्यायक मद से बने आदिवासी पड़हा भवन का स्थानीय विधायक सह मंत्री रामेश्वर उरांव ने बुधवार को उद्घाटन किया। उद्घाटन करने पहुंचे मंत्री का स्थानीय युवतियों ने पारंपरिक रूप से स्वागत किया।

मौके पर मंत्री ने ग्रामीणों संग बैठक कर ग्रामीणों की समस्या से रूबरू हुए। कई ग्रामीणों ने मंत्री को अपना समस्या बतलाया जिसे मंत्री ने तत्काल संबधित विभाग को समस्या दूर करने का निर्देश दिया। मौके पर मंत्री श्री उरांव ने कहा कि वर्तमान सरकार में विकास काफी तेजी के साथ हो रहा है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार राज्य का समग्र विकास में जुटी है। इससे राज्य की जनता खुशहाल हो रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि विकास के सफर पर हम काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जो कमियां हैं, उसे दूर करने को लेकर भी काम कर रहे हैं। राज्य के विभिन्न पंचायत और वार्ड में शिविर लगाकर जनता दरबार आयोजित किया जा रहा है।

खास बातें : जनता के द्वार तक पहुंच कर विकास कार्यो से अंतिम व्यक्ति को जोड़ने का काम कर रही है और उनके सारे समस्याओं का समाधान एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ इस शिविर के माध्यम से दिया जा रहा है। आज पूरे राज्य में 20 लाख राशन कार्ड लाभुकों को हमारी सरकार ने उपलब्ध कराया है। इस गठबंधन सरकार ने ऐसी व्यवस्था किया है की सरकारी पदाधिकारी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का पोटली बना कर जनता द्वार तक जायेंगे और अंतिम व्यक्ति को लाभान्वित कर समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जा रहा, मनुष्य को जीवन जीने के लिए रोटी कपड़ा एवं मकान की आवश्कता होती है।

परमवीर अल्बर्ट एक्का के गृह जिला को लूट का चरागाह नहीं बनने देंगे : विजय

- झारखंड नवनिर्माण दल गुमला और भाकपा (माले) रेड स्टार ने अलर्ट एक्का को दी श्रद्धांजलि

खबर मन्त्र संवाददाता

परमवीर को श्रद्धांजलि देते झानद व रेड स्टार के सदस्य।

गुमला। भाकपा (माले) रेड स्टार व झारखंड नवनिर्माण दल गुमला द्वारा जिला मुख्यालय के स्टेडियम स्थित परमवीर चक्र विजेता शहीद अल्बर्ट एक्का की जयंती पर संकल्प कार्यक्रम के तहत शहीद के मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। संकल्प कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित पार्टी के प्रमंडल प्रभारी सह झारखंड नवनिर्माण दल के केंद्रीय संयोजक विजय सिंह ने कहा कि परमवीर अल्बर्ट एक्का के गृह जिला को लूट का चरागाह नहीं बनने दिया जायेगा। उन्होंने जिला में पार्टी को मजबूत बनाते हुए आंदोलन को तीखा करने की अपील पार्टी नेताओं से की है।

खास बातें : कार्यक्रम से 7 जनवरी 2024 को केंद्रीय स्तर का कन्वेंशन में भाग लेने तथा गुमला जिला में किसान व मजदूरों का स्थिति में बदलाव के लिए 31 जनवरी 2024 को जिला मुख्यालय गुमला में किसान मजदूर सम्मेलन करने, गुमला को रेल लाइन से जोड़ने तथा रोजगारविहीन गुमला-लोहरदगा के सीमांत पर अल्युमिनियम कारखाना के अलावे जिले से पलायन व मानव तस्करी को रोकने को बड़े पैमाने पर कृषि आधारित रोजगार का सृजन करने की मांग केंद्र व राज्य सरकार से की गयी। मौके पर पार्टी के जिला सचिव प्रकाश उरांव, किसान नेता आदित्य सिंह, शिवप्रसाद साहू, सोमरा खड़िया, शंकर उरांव, भूषण सिंह, अशोक भगत, गोपेश्वर गोप, रीमिस कुजूर, पुष्पा उरांव, कुशमा मिंज, मालती देवी भी थे।

शहर में नालियों की सफाई व्यवस्था चरमरायी

गुमला। गुमला शहर में नालियों की साफ-सफाई व्यवस्था चरमरा गयी है। शहर के अधिकांश नालियां बजबजा रही है। वहीं कई स्थानों पर साफ-सफाई नहीं होने से कचरा का अंबार लगा हुआ है। शहर के घाटो बगीचा, आजाद बस्ती, इस्लामपुर, ज्योति संघ मार्ग आदि स्थानों की नालियां भरी हुई है। नालियों के बजबजाने से मछरों का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। नगर परिषद के द्वारा घरों से कचरा ले जाने वाले रिक्शा की भी व्यवस्था चुनिंदा वार्डों के क्षेत्र में है। कई वार्डों में रिक्शा आता तो जरूर है लेकिन वह घरों तक नहीं पहुंचती है। जिसके कारण लोग सड़क पर ही कचरा फेंकने को विवश हैं।

राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा 14 से : रमेश

गुमला। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद अब भारत न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे। यह यात्रा 14 जनवरी से 20 मार्च तक चलेगी। इसे लेकर जिले के कांग्रेसियों में उत्साह है। प्रदेश सचिव रमेश कुमार चीनी ने राहुल गांधी को यात्रा की शुभकामनाएं दी है। कहा है कि निश्चित इससे कांग्रेस में उर्जा का संचार होगा और पार्टी सशक्त होगी। चुंकि आर्थिक और सामाजिक हक के लिए इस यात्रा का नाम भारत न्याय यात्रा रखा गया है जो 6200 किमी, 14 राज्य और 85 जिलों से गुजरेगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक मात्र नेता है जो आवाम के हक के लिए सड़कों पर उतरते है। इसलिए इस यात्रा को सफल बनाने में पार्टी का हर कार्यकर्ता अपना दायित्व निभायें।

चंदलासो और ककरगढ़ पंचायत में हुआ हमारा संकल्प विकसित भारत कार्यक्रम

खबर मन्त्र संवाददाता

लोहरदगा। हमारा संकल्प विकसित भारत कार्यक्रम का आयोजन कुडू प्रखण्ड के चंदलासो एवं ककरगढ़ पंचायत में आयोजित किया गया। कार्यक्रम स्थल पर मोबाईल आईईसी वैन के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिये गये संदेश को प्रसारित किया गया। केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित लाभुकों के वीडियो को भी एलईडी वैन के माध्यम से दिखलाया गया। कार्यक्रम में संबंधित विभागों के कर्मियों द्वारा केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी दी गई और योजनाओं का लाभ उठाने हेतु प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में सभी उपस्थित लोगों को भारतवर्ष को वर्ष 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने, देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करने, भारत की एकता को सुदृढ करने, देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करने और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक होने का दायित्व निभाने की शपथ दिलायी गयी।

परमवीर के नाम पर रखे द्वीप का सरकार स्थानीय लोगों को करायें भ्रमणः संतोष झा

खबर मन्त्र संवाददाता

- परमवीर अलर्ट एक्का के पैतृक गांव की मिट्टी ले जाकर द्वीप पर बनायें प्रतिमा

गुमला। सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार झा ने कहा है कि परमवीर अलर्ट एक्का के नाम पर सरकार द्वारा अंडमान निकोबार में एक द्वीप का नाम पिछले वर्ष घोषित किया गया है। परंतु क्षेत्र के जनजाति लोग जो अपनी सीधी आस्था परमवीर अलबर्ट एक्का से रखते हैं। वह आज भी आश्चर्य और असमंजस के बीच हैं। उनके बीच अपने योद्धा के प्रति गर्व तो है एक द्वीप उनके नाम है इस बात का उल्लास प्रदर्शित नहीं हो पा रहा है। गुमला जिला झारखंड का एक पिछड़ा जिला माना जाता है और जारी प्रखंड गुमला के सभी प्रखंड में सर्वाधिक पिछड़ा हुआ है। यहां सभी आमजन गरीब ही हैं। उसमें जनजाति समाज तो अत्यंत गरीब है। शहीद का परिवार बस जी रहा है। ऐसे में शायद ही कोई संभावना है कि इस क्षेत्र के लोग कभी उस द्वीप का दर्शन कर गर्व का अनुभव कर सकें।

हिंडालको सीएसआर कार्यक्रम: जरूरतमंदों और वृद्धजनों के बीच 1200 कंबल का किया वितरण

लोहरदगा। बढ़ते ठंड से बचाव के लिए वृद्धजनों एवं जरूरतमंदों के बीच हिंडालको सीएसआर कार्यक्रम के तहत खनन क्षेत्रों में कंबल का वितरण किया जा रहा है। बगडू में सीएसआर विभाग के वरीय अधिकारी भास्कर सिन्हा की अगुवाई में 150 कंबल वितरण किए गए। गुरुकुल शांति आश्रम में अध्ययनरत ब्रह्मचारियों को सीएसआर प्रमुख नीरज कुमार एवं आचार्य शरचचन्द्र आर्य की उपस्थिति में की गयी। मौके पर सहायक महाप्रबंधक खान राज सिन्हा ने कहा कि बढ़ती ठंड बचाव में कंबल सहायक होगा। इसी तरह गुरदरी में महाप्रबंधक सुरक्षा अजय पाण्डेय कंबल वितरण कार्यक्रम में उपस्थित हुए। हिंडालको सीएसआर कार्यक्रम का निर्देशन कर रहे सीएसआर प्रमुख नीरज कुमार ने बताया कि बगडू, पाखर, सेरेंगदाग, बिमरला, चिरोडीह, कुजाम, गुरदारी, अमतीपानी आदि खनन क्षेत्र तथा टोरी व रिचुघुटा साइडिंग के समीपवर्ती ग्रामों में 1200 कंबल सीएसआर अधिकारियों के नेतृत्व में वृद्धजनों एवं अत्यंत जरूरतमंदों के बीच वितरित किये जा रहे हैं।

दुर्घटना से बचने को हेलमेट व सावधानी जरूरी : एसपी

खबर मन्त्र संवाददाता

सेन्हा-लोहरदगा। थाना क्षेत्र के सेरेंगहातु तोड़ार पंचायत के सेरेंगहातु में सड़क दुर्घटना से बचाव को सामाजिक कार्यकर्ता इमरान आजाद अंसारी के नेतृत्व में एसपी ने हेलमेट बांटा। हेलमेट वितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसपी हारिश बिन जमां ने कहा कि सेन्हा थाना क्षेत्र में हेलमेट वितरण कार्यक्रम दूसरी बार किया जा रहा है। सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम से ग्रामीण जनता जागरूक हों। नियम पालन का ध्यान रख अपने एवं परिवार के भविष्य को संवारा जा रहा है। जिसमें सेन्हा थाना क्षेत्र के समाजसेवी और बुद्धिजीवी लोग हेलमेट वितरण कर सुरक्षित बचाव के लिए आम जनता को जागरूक कर रहे हैं। साथ ही जनता से अपील करते हुए कहा कि जब भी घर से बाइक लेकर निकले तो हेलमेट जरूर पहनकर चलें।

85,240 आवेदनों की इंट्री पूर्ण, 26263 आवेदन निष्पादित

लोहरदगा। राज्य सरकार के निदेश पर आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन जिला के सभी प्रखंडों के सभी पंचायतों और नगर परिषद क्षेत्र में दिनांक 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक आयोजित किया गया। इस दौरान प्राप्त आवेदनों में से बुधवार तक कुल 85,229 आवेदनों की इंट्री पोर्टल पर पूरी हो चुकी है। इसमें 26, 263 आवेदन निष्पादित किये जा चुके हैं, अन्य आवेदन निष्पादित किये जाने हेतु अग्रसारित किया जा चुका है।

विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर आरंगी ग्राम में कार्यक्रम

खबर मन्त्र संवाददाता

- सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं के लिए ग्रामीण करें आवेदन : बीडीओ

घाघरा। प्रखंड के आरंगी ग्राम में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम का आयोजन बुधवार को किया गया। सर्वप्रथम विकसित भारत को लेकर संकल्प लिया गया। कार्यक्रम के निमित प्रधनमंत्री गरीब कल्याण योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, नैनो फर्टिलाइजर प्रमोशन, वन अधिकार, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सहित कई योजनाओं से संबंधित स्टाल लगाकर लोगो को जानकारी दी गयी। जहां कई ग्रामीणों को केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित किया गया।

पेयजल स्वच्छता विभाग से बन रहे नाडेफ योजना में मची लूट

- प्राक्कलन के विपरीत किया जा रहा है काम
- बिना नींव की खुदाई के ही जमीन की सतह से जोड़कर बनाया जा रहा ह नाडेफ
- अब तक दर्जन भर नाडेफ का हो चुका है निर्माण

खबर मन्त्र संवाददाता

बिना नींव के ही नाडेफ का निर्माण कार्य पूरा करते मजदूर।

घाघरा। प्रखंड मुख्यालय में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से बन रहे नाडेफ की योजना में खुलेआम लूट मची हुई है। प्राक्कलन के विपरीत कार्य ठेकेदार करा रहा है। बता दें कि प्राक्कलन के अनुरूप नाडेफ के कार्य में चौड़ाई और लंबाई तो घटाया ही जा रहा है। वहीं जिस मसाला से जोड़ाई की जा रही है। उसमें नाम मात्र का सीमेंट बालू में मिलाकर जोड़ाई की जा रही है। इसके साथ ही जमीन के सतह से 6 इंच नीचे जमीन की खुदाई कर फाउंडेशन बनाया जाना है। लेकिन जमीन सतह से नीचे कही भी फाउंडेशन न करके जमीन सतह से ही जोड़ाई की जा रही है। वही बिभाग द्वारा लाल ईटों का उपयोग करने की बात कही गयी है जबकि बिचौलिया ठेकेदार खुलेआम काला दो नंबर ईंट का प्रयोग कार्य में कर रहा है। लेकिन पेयजल एवम स्वछता विभाग के अधिकारियों कर्मियों को कोई लेना-देना नहीं सिर्फ नाडेफ बनाने का कार्य पूरा हो। बता दें कि इस तरह के दर्जनों नाडेफ घाघरा में बनकर तैयार हो गये हैं। सिर्फ रंग रोगन का काम बचा हुआ है। भाजपा नेता अमित ठाकुर ने कहा कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से बनाए जा रहे हैं नाडेफ योजना में खुलेआम लूट मची है। प्राक्कलन के विपरीत कार्य कराया जा रहा है। विभाग का काम सिर्फ टारगेट पूरा करना ही रह गया है। कार्यों में काफी अनियमितता बरती जा रही है।

अयोध्या से निकला अक्षत कलश पहुंचा भंडरा कई गांवों में पुष्प वर्षा के साथ जोरदार स्वागत

खबर मन्त्र संवाददाता

कलश यात्रा का स्वागत करते ग्रामीण।

भंडरा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर में 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है। इसका न्योता देने के लिए अयोध्या से अक्षत कलश भेजे गए हैं। भंडरा के कुम्हारिया, हाटी, मसमानो एव सेमरा,पलमी में यह कलश बुधवार को पंहुचा। अक्षत कलश का ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। जिसके बाद भव्य शोभा यात्रा निकली। जिसमें भारी संख्या में क्षेत्र के लोग भाग लिये। अक्षत कलशों का किया स्वागत बुधवार को सुबह 9.30 को अक्षत कलश कुम्हारिया पहुंचा यहां पर पुष्प वर्षा के साथ अक्षत कलशों का जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद शोभा यात्रा के रूप में इन कलशों को पूरे गांव में भ्रमण कराया गया। यहां पर पूजा अर्चना के साथ ही इन कलशों को दर्शन किये। कुम्हारिया के बाद अक्षत कलश हाटी, मसमानो, भौरो, बेदाल एव सेमरा, पलमी गांव पंहुचा जहां हिन्दू धर्मालम्बियों ने अक्षत कलश का जोरदार स्वागत किया। विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस व बजरंग दल के कार्यकर्ता इन कलशों में रखे पीले रंग के चावल लेकर प्रत्येक घर में जाकर वहां पर इस महाउत्सव के भाग लेने के लिए लोगों को न्योता दिये। मौके पर राम नाम के जयकारों की गूंज सुनाई दी।

विश्व हिन्दू परिषद के आनंद पंडित, भीम लाल, राजेंद्र साहू आदि ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता प्रत्येक घर में इस भव्य कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता देने के लिए जा रहे है उन्होंने कहा कि प्रखंड के हर दरवाजे तक इन अयोध्या से आये इन अक्षत को पहुंचाया।

स्पीड न्यूज

बिना ट्रेड लाइसेंस के संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर हुई कार्रवाई

कोडरमा। नगर पंचायत क्षेत्र कोडरमा में बुधवार को नगर प्रशासक शशि शेखर सुमन ने विभिन्न दुकानों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण कर ट्रेड लाइसेंस का जांच किया। इस दौरान बिना ट्रेड लाइसेंस के संचालित सिद्धू पेट्रोल पंप समेत 4 दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया। वहीं बिना ट्रेड लाइसेंस के संचालित एक दर्जन से अधिक दुकानों से आर्थिक जुर्माना वसूलते हुए एक सप्ताह के अंदर ट्रेड लाइसेंस लेने अन्यथा विधि सम्वत कार्रवाई करने का हिदायत दिया गया। इस सम्बंध में नगर प्रशासक श्री सुमन ने बताया कि पंजाब होटल के समीप संचालित सिद्धू पेट्रोल समेत चार दुकानों को पूर्व में भी नोटिस निर्गत कर अविलंब ट्रेड लाइसेंस लेने का निर्देश दिया गया था, परन्तु चारों व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के मालिकों के द्वारा निर्देशों का अनुपालन नही किया गया, जिसके आलोक में झारखंड नगर पालिका अधिनियम के तहत ऐसे प्रतिष्ठानों को ट्रेड लाइसेंस लेने तक बन्द रखने का निर्देश दिया गया। इसके अलावे करीब एक दर्जन दुकानों के पास ट्रेड लाइसेंस नही पाए जाने पर दोषी दुकानदारों से आर्थिक जुर्माना वसूला गया। साथ ही एक सप्ताह के अंदर ट्रेड लाइसेंस लेने का निर्देश दिया गया। मौके पर संजीत कुमार साहू, विकास कुमार, तिलक कुमार, सुरेश राम, पवन कुमार आदि मौजूद थे।

हमारा संकल्प विकसित भारत के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन

मरकच्चो। प्रखंड के नावाडीह एक तथा देवीपुर पंचायत सचिवालय प्रांगण में बुधवार को हमारा संकल्प विकसित भारत के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कोडरमा विधायक डॉ नीरा यादव, बीडीओ सह सीओ सना उस्मानी, नावाडीह पंचायत मुखिया बैजन्ती देवी, देवीपुर पंचायत मुखिया बेदू साव, पूर्व जिप सदस्य राजकुमार यादव, भाजपा जिलाध्यक्ष नितेश चंद्रवंशी ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। मौके पर मौजूद पदाधिकारी व अन्य लोगों ने हमारा संकल्प विकसित भारत को लेकर शपथ लिया। इसके पूर्व जेएसएलपीएस की महिलाएं, समूह की महिलाएं, आंगनबाड़ी सेविका व सहायिकाएं ने अक्षत और फूलों की बारिश कर हमारा संकल्प विकसित भारत रथ का सम्मान किया। कार्यक्रम में उपस्थित विधायक डॉ. नीरा यादव एवं पंचायत के मुखिया बैजन्ती देवी ने उपस्थित लोगों को शपथ दिलाये। मौके पर विजय यादव, लखपति दास, पवन सिंह, लखन पासवान, सुखदेव दास, पवन यादव, चंदन कुमार राणा, दिलीप यादव, रवि राम, सुबेश यादव, आंगनबाड़ी सेविका, जेएसएलपीएस की महिलाएं, विद्यावलय की छात्राएं समेत सैकड़ो लोग मौजूद थे।

नियमित टीकाकरण व कोल्ड चैन के रख-रखाव से संबंधित एक दिवसीय प्रशिक्षण

कोडरमा। सिविल सर्जन कार्यालय स्थित सभागार में बुधवार को नियमित टीकाकरण एवं कोल्ड चैन के रख-रखाव से संबंधित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं सिविल सर्जन ड.अनिल कुमार द्वारा कोल्ड चेन हेंडलर्स को वैक्सीन के रख-रखाव, तापमान निगरानी, वैक्सीन स्टक, वैक्सीन वेस्टेज रोकने संबंधित आवश्यक जानकारी दिये। वहीं जिला आरसीएच पदाधिकारी डॉ. कुलदीप कुमार ने प्रशिक्षण में उपस्थित सभी प्रशिक्षणार्थियों को वैक्सीन के उत्तम प्रबांन, भंडारण एवं वितरण को लेकर ई-विन प्रणाली की जानकारी दी गयी। महामारी के दौरान आवश्यक प्रतिरक्षण सेवाओं को सुनिश्चित करने, बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के नियमित टीकाकरण में ई-विन प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ ही बताया कि नियमित टीकाकरण के सभी वैक्सीन एवं सिरिंज के उत्तम प्रबांन के लिए ई-विन प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें इलेक्ट्रनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क प्रणाली वैक्सीन की गुणवत्ता बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हर टीके को सुरक्षित रखने की एक निश्चित अवधि होती है, जिसमें उसे एक खास तापमान पर रखना होता है। अगर इसमें कमी या कोई असावाानी हुई तो टीका कारगर नहीं हो पाता है। वहीं प्रशिक्षक नन्द जी दुबे यूनीसेफ एवं डा दीपक एसएमओ डब्लूएचओ के द्वारा पीपीटी के मायम से प्रशिणार्थियों को विस्तृत जानकारी दी गयी। वहीं उन्होंने कोल्ड चेन हेंडलर्स सभी कोल्ड चेन उपकरण आईएलआर, डीप फ्रीजर, कोल्ड बक्स, वैक्सीन कैरियर, आइस पैक, थर्मामीटर आदि का उपयोग करने की जानकारी दिया। वैक्सीन के रख-रखाव व सही तापमान की निगरानी के लिए आईएलआर में टेंपरेचर लगर लगा रहता है।

ट्रक की चपेट में आने से टोटो सवार दो यात्री गंभीर

कोडरमा। तिलैया थाना क्षेत्र अंतर्गत असनाबाद के समीप बुधवार शाम करीब पांच बजे ट्रक के चपेट में आने से टोटो (ई-रिक्शा) पर सवार दो यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार टोटो तिलैया से सवारी लेकर असनाबाद की ओर आ रही थी। इसी दौरान मॉर्डन पब्लिक स्कूल के समीप टोटो सवारी लेने के लिए रुकी, जहां पीछे से आ रही ट्रक जोरदार टक्कर मारकर फरार हो गई। इस घटना में करमा बाराटोला निवासी 60 वर्षीय बालेश्वर यादव पिता डेगन यादव व विद्यापुरी तिलैया निवासी 52 वर्षीय भागीरथ पांडेय पिता ननकु पांडेय गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना पाकर हाइवे पेट्रोलिंग पुलिस के द्वारा घायलों को सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों के द्वारा बालेश्वर यादव को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया। वहीं एक अन्य घायल का इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है।

जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक संपन्न, दिये जरूरी दिशा-निर्देश

अवैध रूप से खनिज उत्खनन व परिवहन करने वालों के खिलाफ करें सख्त कार्रवाई : उपायुक्त

खबर मन्त्र संवाददाता

कोडरमा। समाहरणालय सभागार में उपायुक्त सह अयक्ष जिला खनन टास्क फोर्स समिति कोडरमा मेघा भारद्वाज की अयक्षता में खनन टास्क फोर्स की बैठक संपन्न हुई। बैठक में पत्थर एवं बालू खनिज के अवैध खनन, परिवहन, भंडारण रोकथाम, वन क्षेत्र में अवैध खनन की रोकथाम व भंडारण, अनुज्ञप्ति क्षेत्र पर प्रदूषण नियंत्रण हेतु जांच को विस्तृत चर्चा किया गया। उपायुक्त ने जिला खनन पदाधिकारी को पत्थर व बालू खनन का अवैध रूप से खनन, परिवहन, भंडारण करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही वन क्षेत्र में अवैध खनन करने वालों पर भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा की एसडीओ, डीटीओ, जिला खनन पदाधिकारी, सीओ थाना प्रभारी आपस में अलग-अलग टीम गठित कर वाहन चेकिंग अभियान चलायें। उन्होंने कहा कि बिना चालान के खनिज परिवहन, अवधि समाप्त परिवहन चालान, गलत चालान, बिना लाईसेंस और ओवरलोड वाहनों की जांच करते हुए नियमित रूप से कार्रवाई करें। उपायुक्त ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पदाधिकारी को निर्देश दिये कि जिले के क्रशरों का नियमित भ्रमण करते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के अनुपालन की जांच करेंगे और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों का अनुपालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। मौके पर एसपी अनुदीप सिंह, डीएफओ सूरज कुमार सिंह, वन प्राणी आश्रयणी के वन प्रमंडल पदाधिकारी अविनाश कुमार चौरी, एसडीओ रिया सिंह, डीएमओ दारोगा राय, डीटीओ विजय कुमार सोनी सभी सीओ व थाना प्रभारी मौजूद थे।

जिला स्तरीय परामर्श दात्री समिति की बैठक

कोडरमा। उप विकास आयुक्त ऋतुराज की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक हुई, बैठक के दौरान डीडीसी ने पीएमईजीपी, पीएमएफएमई, प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना, केसीसी समेत विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा किया। इस दौरान डीडीसी ने एलडीएम को निर्देशित करते हुए कहा कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में केसीसी को लेकर आये आवेदनों को 15 दिनों के अंदर निष्पादित करें, साथ ही उन्होंने प्रखण्ड स्तर पर सरकार केंद्रित योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता सह ऋण वितरण कैम्प लगवाने का निर्देश दिया।

कार्यान्वित योजनाओं की डीडीसी ने की समीक्षा

कोडरमा। समाहरणालय सभागार में डीडीसी ऋतुराज की अध्यक्षता में सीएसआर निधि अंतर्गत कार्यान्वित योजनाओं की समीक्षा बैठक किया गया। बैठक में जिले में कार्यान्वित कंपनियों को सीएसआर अंतर्गत राशि जमा करने से संबंधित सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। जिले के विभिन्न स्थानों पर सामुदायिक भवन बनाने की योजना को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया। सभी औद्योगिक संस्थानों को अपने अपने क्षेत्र से संबंधित विकास कार्यों हेतु सीएसआर निधि में सहयोग करने की बात कही। मौके पर एसडीओ रिया सिंह, नयन कुमार, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र कोडरमा व विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

एक नजर में

बुनियादी सुविधा सड़क से वंचित है मिरचैया गांव के ब्रह्मणी टोला

जानकारी देते ग्रामीण

खबर मन्त्र संवाददाता

धुरकी। केंद्र और राज्य सरकार आदिम जनजातियों के उत्थान के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। ताकि आदिम जनजातियों की दिशा और दशा रहन-सहन में बदलाव व सुधार हो सके। लेकिन जिस टोले एवं गांव में जाने के लिए सड़क नहीं है उस गांव टोले के लोग सुविधा से वंचित रह जाते है। मामला धुरकी प्रखंड के मिरचैया ग्राम के ब्रह्मणी टोले की है। इस टोले की आबादी लगभग 500 है। इस टोले में अधिकतर आदिम जनजाति एवं अनुसूचित जाति के परिवार निवास रहते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क का सपना देखते देखते लोग निराश हो चुके हैं। यह सड़क 4 गांव केतमा, भण्डार, कदवा उर्फ लिखनी धौरा, बरसोती गांव को जोड़ती है। इस टोले के ग्रामीण जगरनाथ कोरवा, ननकू कोरवा, ठूराई कोरवा, ध्यान कोरवा, भूखन कोरवा, हीरामन कोरवा, सूरज कोरवा, सुबचनी देवी, राजकलिया देवी, मूर्ति देवी, विफनी देवी, कलावती देवी, तुलसिया कुंवर, उधांति देवी, रीता देवी, कर्णावती देवी, ललिता देवी, अनीता देवी, सुबसिया देवी सहित काफी संख्या में ग्रामीणों ने बताया कि इस टोले के निवासी पगडंडी पर चलने को मजबूर हैं। मोटरसाइकिल पर यात्रा करने में भी डर बनी रहती है।

ग्रामीणों ने यह भी बताया कि इस टोले में चुनाव के समय जनप्रतिनिधि सड़क का मुद्दा बनाकर वोट मांगते हैं और चुनाव जीतने के बाद यहां घूमने तक नहीं आते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क नहीं होने से गांव में रिश्ते करने वाले भी रिश्तेदार कतराते हैं।

उत्क्रमित उच्च विद्यालय इचाक खुर्द मे कीचन गार्डन लगाया गया

सिमरिया। प्रखण्ड के इचाक खुर्द स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय इचाक खुर्द में, पिरामल फाउंडेशन की गांधी फैलो चारु ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने विद्यालय में एक बेहतर किचन गार्डन की स्थापना छात्र और शिक्षको की सहयोग से किया गया। इसमें पांचवी और छठी कक्षा के छात्रों ने उत्साह से हिस्सा लिया और अपने विद्यालय के आंगन में एक बेहतर किचन गार्डन की रचना की। यह कार्यक्रम चारु ने अपने कम्युनिटी इमर्जन के दौरान बच्चों मे आर्गेनिक खेती के प्रति जागरूकता पैदा करना है। यह सामाजिक उत्थान के माध्यम से समृद्धि का संकेत है। इस किचन गार्डन को पूर्ण बनाने में, विद्यालय के शिक्षक, रसोइया ने भी अपना सहयोग दिया। बच्चों ने इसमें आलू, फरसबीन, बोदी, कद्दू, व पटल जैसी सब्जियों का पौधरोपण किया है। इन बच्चों का उत्साह और मनोबल सराहनीय है, जो इनकी सामाजिक सशक्तिकरण में मदद करेगा।

सम्मान समारोह का आयोजन शिक्षक को दी विदाई

खबर मन्त्र संवाददाता

गिद्धौर। प्रखंड मुख्यालय के अंतर्गत पंचायत गिद्धौर गांव सलगा गांव में संचालित उत्क्रमित मध्य विद्यालय सलगा में सरकारी कर्मचारी संघ गिद्धौर के द्वारा विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन बुधवार को किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष सह उएमएस सलगा विद्यालय प्रधानाध्यापक अशोक कुमार दांगी ने किया एवं संचालन शिक्षक अनिल कुमार दांगी ने किया।संघ के सदस्यों ने पाण्डेयबागी निवासी रामकृष्ण मोची को संघ के सदस्यता से विदाई दी गयी। रामकृष्ण मोची विगत 30 नवंबर को प्रभारी प्रधानाध्यापक पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। संघ के नियम के अनुसार सरकारी पद से सेवानिवृत्त होते ही संघ की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। इस उपलक्ष्य पर संघ की ओर से सम्मान स्वरूप रामकृष्ण मोची और उनकी पत्नी चिंता देवी को शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही संघ की ओर से उन्हें उपहार भी दिया गया। इस कार्यक्रम के साथ गांव में विभिन्न परीक्षाओं में सफल तीन बच्चों और उनके अभिभावक को भी सम्मानित किया गया। इनमें शशि कुमार पिता स्वर्गीय बिनोद दांगी और सपना रानी पिता महेन्द्र राम ने जेइइ मेंस परीक्षा पास कर बीआइटी सिंदरी में प्रवेश लिया है। वहीं शक्तिकांत ने बिहार में बीपीएससी द्वारा आयोजित 6 टू 8 और 9 टू 10 की परीक्षा पास की है। अन्त में सभा में धन्यवाद ज्ञापन शिक्षक महेन्द्र प्र. दांगी ने किया। इस कार्यक्रम में अशोक कुमार दांगी अरविंद कुमार दांगी युगेश्वर राम दांगी युगेश्वर दांगी ऋषि कपूर वर्मा कमलेश दास नरेश पासवान धर्मेन्द्र कुमार अजय कुमार दांगी अजय कुमार सुमन कुमार निलेश कुमार मनोज कुमार पोखन राम रामपवन कुमार श्याम सुंदर दांगी ऋषि कपूर अर्जुन राम दांगी रविन्द्र कुमार आदर्श कुमार अनिल कुमार महेन्द्र प्र.दांगी महेन्द्र राम दिलीप कुमार कविता देवी, सपना रानी कांती देवी उपेन्द्रनाथ दांगी शीला देवी एवं अन्य उपस्थित थे।

सिंदुआरी कला और खूर्द के ग्रामीणों ने गिद्धौर प्रखंड कार्यालय का किया घेराव

खबर मन्त्र संवाददाता

गिद्धौर। प्रखंड के अंतर्गत पंचायत मझगांवा के गांव सिंधवारी कला व खुर्द के ग्रामीणों ने अबुआ आवास को लेकर प्रखंड कार्यालय का किया घेराव। योजना का क्रियान्वयन कई खामियों से जूझ रहा, जैसे इसके पंजिकरण की समस्या, पंजिकरण के बावजूद पड़ताल सारणी में आवेदक का नाम न होना इत्यादि। इसी बीच पड़ताल कमीटी की लापरवाहीयो की खबर आ रही है। पता चला है कि अबुआ आवास का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे इस लिए आवेदकों की स्थिति की जांच पड़ताल के लिए घर-घर पड़ताल कमीटी बनाई गई थी। जिसका काम आवेदकों के घर जाकर जांच करना था। इसी जांच पड़ताल को लेकर बीते गुरुवार को मंझगावां पंचायत के सिंदुआरी कला और खूर्द में अबुआ आवास के लिए बनी कमीटी ने दस्तक दिया। ग्रामीणों ने मांग रखी है कि अबुआ आवास के लिए जारी जांच लिस्ट में नामित लोगों की फिर से जांच होनी चाहिए।

जीएन कॉन्वेंट में वीर बाल दिवस सम्पन्न

गढ़वा। शहर के ज्ञान निकेतन कान्वेंट स्कूल में वीर बाल दिवस के मौके पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित की गयी। जिसमें सीनियर वर्ग के छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरूआत विद्यालय के निदेशक मदन प्रसाद केशरी, सचिव सुषमा केशरी तथा उपप्राचार्य बसंत ठाकुर ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर व वीर बालकों साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया। मौके पर निदेशक ने कहा कि यह दिन समर्पित है गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों को। जिन्होंने धर्म के रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया। उन्हें मुगलिया फौज के सेनापति वजीर खान ने दीवार में जिंदा चुनवा दिया था, लेकिन उनके मुंह से उफ तक नहीं निकली। इनके पिता सिखों के दसवें गुरु के साथ-साथ संत एवं दार्शनिक ही नहीं बल्कि एक कुशल योद्धा भी थे, जिन्होंने बर्बर मुगल बादशाह औरंगजेब के विरुद्ध कई युद्ध लड़े। उन्होंने अपने परिवार का बलिदान दे दिया लेकिन मुगलों के सामने नहीं झुके। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण उपस्थित बच्चों को दिखाया गया जिसे प्रधानमंत्री ने सम्बोधन किया।

बुनियादी सुविधा सड़क से वंचित है मिरचैया गांव के ब्रह्मणी टोला

जानकारी देते ग्रामीण

खबर मन्त्र संवाददाता

धुरकी। केंद्र और राज्य सरकार आदिम जनजातियों के उत्थान के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। ताकि आदिम जनजातियों की दिशा और दशा रहन-सहन में बदलाव व सुधार हो सके। लेकिन जिस टोले एवं गांव में जाने के लिए सड़क नहीं है उस गांव टोले के लोग सुविधा से वंचित रह जाते है। मामला धुरकी प्रखंड के मिरचैया ग्राम के ब्रह्मणी टोले की है। इस टोले की आबादी लगभग 500 है। इस टोले में अधिकतर आदिम जनजाति एवं अनुसूचित जाति के परिवार निवास रहते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क का सपना देखते देखते लोग निराश हो चुके हैं। यह सड़क 4 गांव केतमा, भण्डार, कदवा उर्फ लिखनी धौरा, बरसोती गांव को जोड़ती है। इस टोले के ग्रामीण जगरनाथ कोरवा, ननकू कोरवा, ठूराई कोरवा, ध्यान कोरवा, भूखन कोरवा, हीरामन कोरवा, सूरज कोरवा, सुबचनी देवी, राजकलिया देवी, मूर्ति देवी, विफनी देवी, कलावती देवी, तुलसिया कुंवर, उधांति देवी, रीता देवी, कर्णावती देवी, ललिता देवी, अनीता देवी, सुबसिया देवी सहित काफी संख्या में ग्रामीणों ने बताया कि इस टोले के निवासी पगडंडी पर चलने को मजबूर हैं। मोटरसाइकिल पर यात्रा करने में भी डर बनी रहती है।

ग्रामीणों ने यह भी बताया कि इस टोले में चुनाव के समय जनप्रतिनिधि सड़क का मुद्दा बनाकर वोट मांगते हैं और चुनाव जीतने के बाद यहां घूमने तक नहीं आते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क नहीं होने से गांव में रिश्ते करने वाले भी रिश्तेदार कतराते हैं।

आजादी के 76 वर्ष बाद भी गांव तक पक्की सड़क नही

कुंदा (चतरा)। प्रखंड क्षेत्र के नवादा पंचायत के ग्राम दारी, सलगी के लोग आज भी आजादी के 76 साल के बाद भी कच्ची सड़क से ही आना जाना करते है। नवादा पंचायत भवन से करीब चार किलोमीटर दूरी पर स्थित दारी, सलगी गांव बसा है। इस गांव में सरकारी सुविधा के अभाव है यहा के लोगो के बीमार हो जाने पर काफी दिकत का समाना करना पड़ता है। जबकि इन दोनो गांव की महिला पुरुष की आबादी लगभग जनसंख्या पांच हजार है।

पंचायत सचिवालय में किया गया नेत्र जांच

गिद्धौर। प्रखंड के अंतर्गत पंचायत सचिवालय बारीसाखी में बुधवार को निशुल्क नेत्र जांच तथा मोतियाबिंद जांच डॉक्टर सुधीर कुमार के द्वारा किया गया। जिसमें मोतियाबिंद 19 एवं ओपीडी 41 लोगों को बताया गया। बताते चले की मोतियाबिंद के लिए पंचायत बारीसाखी सचिवालय से लोकनायक जयप्रकाश आंख अस्पताल बेहरा आश्रम के लिए शाम 4:00 बजे बस के द्वारा भेजा गया। मौके पर उपस्थित मुखिया प्रतिनिधि दिनेश भारती समाजसेवी रामाशीष यादव विकास कुमार बिक्कू यदुनंदन यादव सुनील कुमार पांडेय उपस्थित थे।

तिलैया प्रीमियम लीग का चैंपियन बना पिपचो किंग्स, रनरअप बना तिलैया इलेवन

झुमरीतिलैया (कोडरमा)। तिलैया प्रीमियम लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 27 दिसम्बर को एलिफेंटा ग्राउंड में खेला गया। फाइनल मैच पिपचो किंग वनाम तिलैया इलेवन के बीच खेला गया। वहीं टॉस तिलैया इलेवन ने जीता और पहले बल्लेबाजी करते हुए 143 ओवर में 128 रन बनाकर ऑल आउट हो गयी। टीम की ओर से विक्रम ने 33, रंजीत 34 और विनय ने 23 रन का योगदान दिया। गेंदबाजी में जीतू यादव ने 4, जिसन और शैलेश ने 2-2 विकेट झटके। जबाबी पारी खेलते हुए पिपचो किंग ने 113 ओवर में 3 विकेट खोकर जीत हासिल की। टीम की ओर से आशीष ने 43, जीतू ने 36, प्रवीण ने 35 रनों का योगदान दिया। पिपचो किंग के जीतू यादव को मैन ऑफ-द मैच एवं तिलैया इलेवन के अमित कार्तिक को मैन ऑफ-द सीरीज का पुरुस्कार दिया गया। वहीं इस टूर्नामेंट में एकमात्र शतक जड़ने वाले विकास कुमार एवं बेहतर प्रदर्शन करने वाले अन्य खिलाड़ी, एंपायर, स्कोरर एवं टूर्नामेंट में अहम भागीदारी निभाने वाले सदस्यों को सम्मानित किया गया।

पूर्व प्रत्याशी ने किया डेढ़ हजार गरीबों के बीच कंबल का वितरण

उपस्थित लोग

खबर मन्त्र संवाददाता

मझिआंव। विश्रामपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अंजू सिंह एवं समाज सेवी अभिमन्यु सिंह उर्फ बबलू सिंह ने अपने आवास मोरबे गांव पर बुधवार को लगभग डेढ़ हजार गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया। जिसमें महिला, गरीब, असहाय, वृद्ध एवं दिव्यांग लोगों को वितरण किया गया। विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी गांवों में लगभग 2 लाख कंबल का वितरण करने का लक्ष्य बताया गया है। मौके पर पूर्व प्रत्याशी अंजू सिंह ने बताई कि एक बार विधानसभा क्षेत्र के आप सभी का आशीर्वाद मिलने के बाद विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास की गंगा बहा दूंगी। साथ ही उन्होंने अभी बताई की लगभग 15 सालों तक मैं निस्वार्थ भाव से विधानसभा क्षेत्र के गांव- गांव घर-घर जाकर सेवा करने का काम की हूं। एक बार अपने बेटी अपनी बहुओं मौका दें, विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास की गंगा बहा दूंगी।

मां गढ़देवी के नाम से संचालित होगा टोल प्लाजा

सांसद प्रतिनिधि चन्दन जायसवाल के आग्रह पर डीसी ने की पहल

डीसी को मांग पत्र सौंपते चन्दन जायसवाल

खबर मन्त्र संवाददाता

गढ़वा। गढ़वा शहर के सांसद प्रतिनिधि सह युवा समाजसेवी चन्दन जायसवाल ने गढ़वा डीसी से मुलाकात कर 'गढ़देवी टोल प्लाजा' का नाम संशोधित कर 'माँ गढ़देवी टोल प्लाजा' करने का आग्रह किया। इसके लिए उन्होंने डीसी को एक मांग पत्र भी सौंपा। श्री जायसवाल ने डीसी को समर्पित पत्र में कहा है कि गढ़वा बाईपास रोड में ग्राम पिपरा के पास टोल प्लाजा का निर्माण कराया गया है। जिसका नामकरण गढ़देवी टोल प्लाजा रखा गया है। विदित हो कि माँ गढ़देवी जी के प्रति गढ़वा सहित आसपास के जिलावासियों की आस्था जुडी हुई है अतः यह अत्यंतआवश्यक है कि उनके नाम से पूर्व माँ शब्द का प्रयोग श्रद्धा भाव से किया जाए। टोल प्लाजा का नाम सिर्फ 'गढ़देवी टोल प्लाजा' अंकित होने से आमजनों की भावना काफी आहत हो रही है। चन्दन जायसवाल के आग्रह पर डीसी ने टोल प्लाजा निर्माण से सम्बन्धित एजेंसी से बात की एवं उसके नाम मे संशोधन करने को कहा है।

विधि व्यवस्था मेरी पहली प्राथमिकता : सन्नी राज

सिमरिया। सिमरिया अनुमंडल के 08 वें अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में बुधवार को सन्नी राज ने निवर्तमान अनुमंडल पदाधिकारी सुधीर दास से अनुमंडल कार्यालय सिमरिया में उन्होंने पदभार ग्रहण किया। अनुमंडल पदाधिकारी सिमरिया का पदभार ग्रहण करते समय नवनियुक्त अनुमंडल पदाधिकारी ने निवर्तमान अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा सिमरिया अनुमंडल क्षेत्र में किए गए कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उनके द्वारा जिले में किए गए विकास कार्यों को वह आगे ले जाने हेतु प्रयासरत रहेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी सिमरिया ने कहा विधि व्यवस्था मेरी पहली प्राथमिकता है। विकास के लिए जो दायित्व मिला है, उस पर शतप्रतिशत खरा उतरने का प्रयास करूंगा। अपने कार्यकाल में अनुमंडल को विकास के रास्ते पर ले जाने का हर संभव प्रयास रहेगा।

लातेहार जिला के कुंदरी गांव में आयोजित आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार कार्यक्रम में बोले सीएम

हमारी सरकार पूर्व की समस्याओं को दूर करने का कार्य किया

- डेकची फेंक कर सरकार की योजनाओं को राज्यवासी अपने सिर पर लें और राज्य सरकार की द्वारा चलाए जा रहें योजनाओं का लाभ लें : हेमंत सोरेन
- 900 एकड़ भूमि का सामुदायिक एवं व्यक्तिगत वन भूमि पट्टा का वितरण हुआ
- सरकार गांव के लोगों को साथ लेकर चल रही है, शिविर के माध्यम से लोगों की समस्याएं और तकलीफ सीधे मुझ तक आती है

- मुख्यमंत्री ने 345 करोड़ रुपए की 130 योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया।

कार्यक्रम का उद्घाटन करते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन।

डेकची फेंक कर सरकार की योजनाओं को राज्यवासी अपने सिर पर लें और राज्य सरकार की द्वारा चलाए जा रहें योजनाओं का लाभ लें

मुख्यमंत्री का स्वागत करते लातेहार डीसी।

इन्होंने कहा कि डेकची फेंक कर सरकार की योजनाओं को राज्यवासी अपने सिर पर लें और राज्य सरकार की द्वारा चलाए जा रहें योजनाओं का लाभ मुख्यमंत्री सृजन योजना के माध्यम से लेते हुए विकास की नई गाथा लिखें। इसके लिए उन्होंने और बताया कि हमारे सरकार के द्वारा छोटे कारोबारी के लिए 3 लाख तक का लोन बिना किसी गारंटी का दिया जा रहा है। जिसका लाभ लेकर आप लोग अपना स्वरोजगार करें। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत हमारी सरकार 23 नवंबर से 29 दिसंबर तक आपके घर-घर जाने का कार्य कर रही है। आपकी समस्या का समाधान हेतु यह योजना चलाया जा रहा है। जिसके तहत पूरे झारखंड के लोग लाभांति हो रहे हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि राज्य घर में 8 लाख लोगों का आवास हेतु अभी तक चयनित किया गया है और आगे भी किया जा रहा है। लातेहार जिले में मुख्यमंत्री के द्वारा कई योजना का शिलान्यास किया गया जिसकी लागत 345 करोड़ 87 लाख रुपया है।

राज्य में समस्याओं की भरमार थी जिसे हमारी सरकार दूर करने का कार्य कर रही है: हेमंत सोरेन

खबर मन्त्र संवाददाता

लातेहार। जिले के आरागुंडी पंचायत अंतर्गत कुंदरी ग्राम में आयोजित आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे जहां उनका दिदार के लिए हजारों की संख्या में ग्रामीणों की जन सैलाब उमड़ पड़ा। जैसे ही लोगों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हेलीकॉप्टर आते दिखा सभी का सर आसमान की ओर हो गया और हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे के साथ पुरा क्षेत्र गुंजायमान हो गया। इसके पश्चात हेलिकॉप्टर लैंड करते ही मुख्यमंत्री का स्वागत मनिका विधायक रामचन्द्र सिंह, जिला अध्यक्ष लाल मोती नाथ शाहदेव, कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुनेश्वर उरांव, राजद जिला अध्यक्ष रामप्रवेश यादव, विधायक प्रतिनिधि प्रभात कुमार, मनिका विधायक प्रतिनिधि हरिशंकर यादव, वहीं प्रशासन की ओर से प्रमंडलीय आयुक्त दशरथ चन्द्र दास, आईजी राज कुमार लकड़ा, उपायुक्त हिमांशु मोहन, एसपी अंजनी अंजन ने गुलदस्ता देकर स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जिसके बाद वहीं लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण में हम लातेहार पहुंचे हैं। जो पंचायत स्तर पर भी चल रहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि गांव की हजारों समस्याओं के आवेदन आ रहे हैं। राज्य में समस्याओं की भरमार थी। जिसे हमारी सरकार दूर करने का कार्य कर रही है। कोरोना के बाद 2021 से हम गांव गांव-गांव, पंचायत-पंचायत पहुंच रहे हैं और समस्याओं को दूर करने का कार्य कर रहे हैं। लातेहार जिला में 5 हजार 500 करोड़ के लागत से 550 किलोमीटर तक सड़क बनाई जाएगी। जिससे सड़क राहगीरों के लिए बेहतर हो जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि 5 हजार राज्य में उत्कृष्ट विद्यालय बनेंगे जो प्राइवेट विद्यालय से बेहतर होंगे। छात्रों को गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आगे पढ़ने का लाभ मिलेगा जिसके तहत गांव की बच्चे-बच्चियों भी डॉक्टर इंजीनियर का पढ़ाई कर पाएंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों से अपील करते हुए हंडिया दारू से दूर होने की अपील की।

सावित्रीबाई फुले योजना के तहत 9 लाख बच्चियां लाभान्वित हुये है : बादल पत्रलेख

कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने अपने संबोधन में कहा कि पिछली सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा केवल लगाते रहा जिसे उन लोगों के द्वारा पूरा नहीं किया गया। वही हमारी सरकार ने बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ के तहत सावित्रीबाई फुले योजना चला गया है जिसके तहत 9 लाख बच्चिया लाभान्वित हुये है। इस प्रकार की कई योजनाएं चलाई गई है। जिसमें 8 से 12 वर्गो तक की बच्चियों को कुल 40,000 रुपया देगी। वहीं सभी बच्चों का छात्रवृत्ति तीन गुना बढ़ा दिया गया। डॉक्टर, इंजीनियर एवं अन्य पढ़ाई हेतु गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बच्चों का पढ़ाई आगे बढ़ाने का कार्य हमारे सरकार कर रही है। यह चार सालों में हमारी सरकार बच्चों को भविष्य बनाने का काम किया है।

विधायक रामचंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री को जमीन संबंधी समस्या से अवगत कराया

मनिका विधायक ने अपने संबोधन में कहा कि लातेहार जिले में जमीन की भारी समस्या है। भूमी का सर्वे सही से नहीं होने कारण बिहार सरकार व जीएम लैंड कई लोगों को हो गया है। जिनका रसीद 2015 ऑफलाइन कटता था। लेकिन आज जमीन की रसीद आनलाइन नहीं कट पाने के कारण लोगों की समस्या बढ़ गई है। जिस कारण फोरलाइन में रैयतों की जमीन अधिग्रहण में मुआवजा नहीं मिल रहा है।

आदिवासी समुदाय के लोगों के द्वारा नागपुरी गीत व ढोल मांदर के थाप के साथ उनका स्वागत किया गया। जिसके बाद कार्यक्रम स्थल तक मुख्यमंत्री को लाया गया जहां हजारों की संख्या में जनता की भीड़ देख मुख्यमंत्री ने आभार व्यक्त व अभिनंदन किया। वहीं सीएम के साथ कृषि मंत्री बादल पत्रलेख एवं श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विधायक बैद्यनाथ राम, रामचन्द्र सिंह, गुमला विधायक भुषण तिर्की, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, भी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम को संबोधित करते मुख्यमंत्री।

परिसंपति का वितरण करते मुख्यमंत्री।

झामुमों कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का अभिवादन करते हुए।

अभिजीत प्लांट लगाने समय पिछले सरकार ने कहा था कि कई घर नौकरी होगा लेकिन उसे काट बेचा जा रहा है : सत्यनंद भोगता

श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवम कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोगता ने अपने संबोधन में बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कई तरह के इंजन लगाकर भोली- भाली जनता को पिछली सरकार ने गुमराह करते रहा जिसका फलाफल आपके सामने है चंदवा पर स्थित अभिजीत प्लांट लगाने समय पिछले सरकार ने कहा था कि कई घर नौकरी होगा और अभी देखा जाए तो प्लांट का उद्घाटन होने से पहले ही उसे काट-काट कर बेचा जा रहा। हमारे सरकार के द्वारा ग्रामीण जनता को स्वरोजगार धोती-साड़ी, फूलों-झानो, सावित्रीबाई फुले योजना, श्रम विभाग के द्वारा श्रमिकों का निबंधन किया जा रहा है जिसके तहत 2 लाख तक का जीवन बीमा साथ ही मुफ्त इलाज इस तरह की कई प्रकार की सुविधा दी जा रही है। लोगों के लिए सरकार के द्वारा कई प्रकार के योजनाएं है जिसका लाभ घर-घर जाकर हमारी सरकार दे रही है।

कार्यक्रम के दौरान ये सभी रहे मौजूद : इस अवसर पर डीएफओ रोशन कुमार, एसडीओ मो. परवेज, अपर समाहर्ता आलोक शिकारी कश्यप, बीस सूत्री उपाध्यक्ष अरूण दूबे, एसडीपीओ संतोष मिश्र, डीटीओ सुरेंद्र कुमार, डीएमओ आनंद कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रिंस कुमार, सीएस अवधेश सिंह, जिप उपाध्यक्ष अनिता देवी, जिला परिषद सदस्य विनोद उरांव, कृषि पदाधिकारी अमृतेश कुमार सिंह, खेल पदाधिकारी संजीत कुमार, प्रशासक राजीव रंजन, कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुनेश्वर उरांव, थाना प्रभारी आशुतोष कुमार, भूमि संरक्षण पदाधिकारी विवेक मिश्रा, डीएसडब्ल्यू रेनू रवि, मनिका विधायक प्रतिनिधि हरिशंकर यादव, आफताब आलम, वारिस अंसारी, युवा नेता अंकित पांडेय, पंकज तिवारी, विशाल कुमार समेत कई पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि लोग मौजूद थे।

विधायक वैद्यनाथ राम व जिलाध्यक्ष लाल मोती नाथ शाहदेव दिखे सक्रिय

- आने वाले समय में लातेहार जिले के राज्य के विकास में कृतिमान स्थापित करेगी हेमंत सोरेन सरकार : वैद्यनाथ राम

विधायक व जिला अध्यक्ष सक्रिय।

लातेहार। सदर प्रखंड के कुन्दरी में संपन्न हुए आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम ऐतिहासिक रहा। कार्यक्रम की सफलता में सबसे बड़ा हांथ विधायक वैद्यनाथ राम व झामुमो जिलाध्यक्ष लाल मोती नाथ शाहदेव की रही। जिनके नेतृत्व में कार्यक्रम में पूरे जिले से करीब 30 हजार के पार लोगो का जुटान हुआ। इसमें लातेहार के साथ-साथ बालूमाथ, बरियातू चंदवा, हेरंहज समेत अन्य प्रखंडों से पहुंचे हुए थे। जिसमें बच्चे, वृद्ध, युवा समेत सभी वर्ग के लोगो की भींड़ शामिल थी, खास कर महिलाओं बच्चियों की उपस्थिति ऐतेहासिक थी। जिला प्रशासन के द्वारा भी कार्यक्रम स्थल पर व्यवस्था का चाक चौबंद काफी बेहतर किया गया था। विधायक वैद्यनाथ राम ने कहा कि कार्यक्रम की ऐतिहासिक भींड बता रही है कि राज्य की जनता हेमंत सोरेन के साथ है। राज्य सरकार द्वारा संचालित विकास योजनाओं से आज गांव का हर जरूरतमंद लाभान्वित है। चाहे 60 वर्ष से अधिक उम्र के प्रत्येक व्यक्ति को सर्वजन पेंशन से जोड़ना, अबुआ आवास योजना के माध्यम से राज्य के प्रत्येक गरीब को पक्का आवास, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, साइकिल वितरण योजना, पशुधन विकास योजना जैसे दर्जनों महत्वपूर्ण कार्य हैं, जिसका निष्पादन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में हो रहा है। आने वाले समय में हेमंत सोरेन सरकार लातेहार जिले के राज्य के विकास में कृतिमान स्थापित करेगी।

आजसू कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का किया पुतला दहन, जताया विरोध

पुतला दहन करते आजसू कार्यकर्ता।

खबर मन्त्र संवाददाता

लातेहार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा जोहर यात्रा के दौरान लातेहार में दो-दो कॉलेज के शिलान्यास के 10 माह गुजर जाने के बाद भी पठन-पठान शुरू नहीं होने के विरोध में बुधवार को आजसू पार्टी विरोध प्रदर्शन करने वाली थी। इसकी सूचना मिलते ही मंगलवार के रात्रि ही आजसू जिला अध्यक्ष अमित पांडेय, केंद्रीय सदस्य राकेश सिंह व जिला उपाध्यक्ष विजेंद्र दास को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे आक्रोशित कार्यकताओं ने बुधवार को बालूमाथ एवं लातेहार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। आजसू जिला अध्यक्ष अमित कुमार पांडेय ने कहा कि आजसू पार्टी आंदोलन से जन्मी पार्टी है। लाठी, गोली, जेल से नहीं डरती है। उन्होंने कहा कि जितना आंदोलन को दबाया जाएगा। उतना ही उग्र होता जाएगा। उन्होंने कहा कि आजसू पार्टी डिग्री कॉलेज में ताला खुलवाने का जो आंदोलन शुरू किया है। वह आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि गठबंधन की सरकार दम भर कर बोलती है कि बोलने की आजादी है, लेकिन आवाज उठाने पर उसे दबाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत में अपनी आवाज उठाने व विरोध करने का अधिकार सभी को है, लेकिन आवाज उठाने पर सरकार के कहने पर जिला प्रशासन द्वारा जिस तरह की रवैया अपनाया गया है। वह ठीक नहीं है। मौके पर जिला प्रवक्ता रितेश पांडेय, प्रखंड अध्यक्ष अमर उरांव समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं बालूमाथ में प्रखंड अध्यक्ष शंकर उरांव के नेतृत्व में पुतला दहन किया गया। मौके पर हिरो यादव, रोहित लकड़ा, धमेंद्र सिंह, सूधिर उरांव, प्रकाश उरांव समेत कई लोग शामिल थे।

मुर्दा का मजदूरी की राशि मामले पर भाजपा प्रवक्ता ने किया सीएमओ को ट्वीट

बालूमाथ। बालूमाथ प्रखंड के गणेशपुर पंचायत में मृत व्यक्ति रामजय सिंह के नाम पर 36 दिन तक मनरेगा के विभिन्न योजनाओं में फर्जी काम दिखाकर उसके बदले मजदूरी भुगतान किए जाने का मामला खबर मन्त्र ने प्रमुखता से उठाया था। बुधवार को भाजपा प्रदेश प्रवक्ता लाल प्रतुल नाथ शाहदेव ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ट्वीट करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री आज हमारे गृह जिला लातेहार में आपका आगमन हो रहा है। इसके लिए आपका स्वागत है। पर जरा एक नजर मनरेगा योजना की रियलिटी चेक कर ले दलालों के नेटवर्क ने बालूमाथ इलाके में मनरेगा में मुर्दे से 36 दिन काम करवा कर 8530 रुपये की निकासी कर ली है। यह उन गरीबों के साथ क्रूर मजाक है जो दिन भर मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। उन्होंने कहा कि पूरी उम्मीद है कि आप कड़ी कार्रवाई करेंगे। ज्ञात हो कि गणेशपुर ग्राम में राम जय सिंह की मृत्यु 11 सितंबर 2022 को हो गई थी। उसके बाद कई योजनाओं में उससे फर्जी मजदूरी दिखाकर राशि की निकासी कर ली गई थी।

एक नजर में

सीएम को देखने लातेहार में उमड़ा जनसैलाब

सीएम हेमंत सोरेन ने जिले के जमीन संबंधी समस्याओ के निष्पादन पर दिया जोर, लोगो मे जगी उम्मीद

लातेहार। लातेहार के कुन्दरी में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में बुधवार को सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आगमन हुआ। राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन को देखने को लेकर लातेहार सदर प्रखंड समेत आसपास के प्रखंडों से हजारों की संख्या में लोगो का हुजूम उमड़ा। क्या बच्चे, क्या वृद्ध, क्या युवा सभी वर्ग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक झलक पाने को लेकर उत्सुक नजर आए। देर शाम तक लोगो की भींड़ मुख्यमंत्री के अभिभाषण को सुनने को लेकर जमे रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का वक्तयों को सुनने के बाद लोगो मे एक आशा की किरण देखने को मिली। लोगो ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिले के जमीन संबंधी समस्याओं को लेकर गंभीरता दिखाई है। यह मुद्दा जिले के आमजनों से जुड़ा हुआ है व काफी अहम भी है। हाल सर्वे में जमीन सम्बंधी त्रुटियों के कारण जिले के अधिकांश लोग प्रभावित हैं। अगर मुख्यमंत्री के पहल के बाद इसका निदान संभव हुआ तो यह एक बड़ी उपलब्धि होगी।

नीलम देवी ने जरूरतमंदों को किया कंबल का वितरण

कंबल वितरण करते पंसस।

चंदवा। चंदवा पश्चिमी पंचायत समिति सदस्य नीलम देवी व सामाजिक कार्यकर्ता इंद्रजीत शाह बंटी ने बुधवार को चंदवा पश्चिमी पंचायत अंतर्गत गेरुआगढ़ा, अंबेडकर नगर व आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले 20 गरीब, असहाय व वृद्धों के बीच कंबल का वितरण किया। पंसस नीलम देवी व इंद्रजीत शाह बंटी ने कहा कि कहा कि विगत कई दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड का प्रकोप दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में गरीब पंचायतवासियों को ठंड से बचे रहने के लिए कंबल व अलाव की काफी जरूरत है। सरकार के साथ साथ समर्थ लोगो को आगे आकर असहायों की सेवा करनी चाहिए। इधर पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच कम्बल पाकर वृद्ध व असहाय जन काफी खुश नजर आए। कम्बल वितरण के मौके पर काफी संख्या में ग्रामीण मौजुद थे।

स्वास्थ्य विभाग ने किया पीएलए बैठक, दी गई स्वास्थ्य सम्बंधित जानकारी

बारियातू। प्रखंड के शिबला पंचायत अंतर्गत झिरमतकोमा, कुशमाहा, बेसरा व गोनिया पंचायत के बारा, विश्रामपुर गांव में सहिया साथी गौरी देवी के अध्यक्षता में झिरमतकोमा, कुशमाहा, विश्रामपुर, बारा सहित अन्य जगहों में पीएलए बैठक किया गया। पीएलए बैठक में सुनीता देवी, रीता देवी, बसंती देवी, राजमणि देवी, कुंती देवी, हलीमा खातून उपस्थित थे। बैठक के पश्चात कई ग्रामीण महिलाओं ने अपने-अपने टोले मुहल्ले में जागरूकता रैली निकली। बैठक में उपस्थित ग्रामीण महिलाओं को मुख्य रूप से स्वास्थ्य से संबंधी जानकारी दी गई। उपस्थित कई सहिया व ग्रामीण महिलाओं ने अपने-अपने हाथों में तख्तीयां लेकर रंग-बिरंगा सब्जियां खाएंगे स्वस्थ जीवन अपनाएंगे, भोजन में विविधता बने रहे मां बच्चों के चेहरे पर खुशी रहे, मां स्वयं के लिए तीन बार बच्चों के लिए एक बार बच्चे का स्वस्थ भविष्य बनाना है तो धात्री मां को दो बार अतिरिक्त भोजन खिलाना है, हरे पत्तेदार सब्जियां खाएंगे शरीर में खून बढ़ाएंगे, माँ आयरन गोली खाएगी एनीमिया दूर भगाएगी, बीमारी से बचाना है तो गहरे रंग की फल एवं सब्जियां खाना है सहित कई नारा लगाते हुए आसपास के लोगों को जागरूक किया गया। इधर बारा ग्राम में एएनएम अर्चना हस्सा व सहिया कलामनी देवी द्वारा मासिक टिकाकरण किया गया। जहाँ खसरा, बुस्टर, टीटी, पेंटा, डीपीटी, बिसीजी सहित कई रोगों से बचाव के लिए जीरो से पांच वर्ष के बच्चे व गर्वती महिलाओ को मासिक टिका दिया गया। मौके पर कई महिला व शिशु मौजूद थे।

हिंदी के व्याख्याता नीलम साहू के निधन से कॉलेज शोकाकुल

लातेहार। गांधी इंटर कॉलेज के हिंदी के व्याख्याता नीलम साहू का 27 दिसंबर बुधवार को प्रातः स्वर्गवास हो गया। उनकी आत्मा को शांति के लिए महाविद्यालय के शिक्षक, शिक्षिकाएं, कर्मचारी एवं विद्यार्थी दिवंगत आत्मा के शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण कर भगवान से उनकी आत्मा को शांति प्रधान करने का प्रार्थना किया। महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक ने बताया कि हिंदी के व्याख्याता शिक्षक के आकस्मिक निधन से महाविद्यालय के छात्रों दुखों का पहाड़ टूट गया है। छात्र-छात्राओं की हिंदी का पढ़ाई अधूरा रह गया है।

कोलियरी के नये रास्ते का ट्रक मालिकों ने किया विरोध

- तेतरियाखाड़ कोलियरी में 650 से अधिक ट्रक चलते है जिनसे सैकड़ो डिओ होल्डर, लिफ्टर, होटल मालिक, ड्राइवर, खलासी समेत सैकड़ो लोगो को रोजगार मिलता है, सीसीएल रोजगार छिनना चाहती है

खबर मन्त्र संवाददाता

बालूमाथ। बालूमाथ प्रखंड क्षेत्र के पिंडारकोम ग्राम स्तिथ रामघाट नदी का धारा मोड़कर एवं वन भूमि में कई पेंडो को काटकर तेतरियाखांड कोलियरी में नया ट्रांसपोटिंग सड़क बनाया जा रहा है। जिसको लेकर तेतरियाखांड कोलियरी में चलने वाले बालूमाथ एवं बसिया के सैकड़ो ट्रक मालिको ने बुधवार को रामघाट नदी पहुंचकर विरोध जताते हुए सीसीएल प्रबंधन हाय-हाय,पीएनएम कंपनी तेरी मनमानी नही चलेगी, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना बंद करो,जल-जंगल जमीन हमारा है समेत कई नारे लगाए। मौके पर ट्रक मालिको ने जानकारी देते हुए कहा कि मंगलवार देर रात सीसीएल प्रबंधन के गार्ड एवं सिविल इंजीनियर द्वारा रामघाट नदी की ओर से वन भूमि पर कई पेड़ो को काटकर जेसीबी की मदद से तेतरियाखांड कोलियरी प्रवेश हेतु नया रास्ता का निर्माण कराया जा रहा था। जिसे देख कुछ ट्रक मालिको ने विरोध जताया तो मामला फंसता देख सीसीएल कर्मी मौके पर से भाग निकले। आगे उन्होंने कहा तेतरियाखांड में ओबी एव रेजिंग का कार्य कर रहे पीएनएम कंपनी और सीसीएल की मंशा है की नए रास्ते के सहारे हाइवा का प्रवेश कराया जाए। अभी तेतरियाखाड कोलियरी में 650 से अधिक ट्रक चलते है। जिनसे सैकड़ो डिओ होल्डर, लिफ्टर, होटल मालिक, ड्राइवर, खलासी समेत सैकड़ो लोगो को रोजगार मिलता है। सीसीएल हम लोगों का रोजगार छिनना चाहती है। हमलोग ऐसा किसी भी कीमत पर होने नही देंगे इसको लेकर चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। वही बालूमाथ ट्रक ऑनर एशोसिएशन अध्यक्ष संजीव सिन्हा ने कहा की रात के अंधेरे में नदी की धारा के साथ छेड़छाड़ करते हुए वन भूमि पर बिना एनओसी लिए कई पेड़ों को काट दिया गया है। आम नागरिक अगर जलावन के लिए लकड़ी लाता है तो उसके ऊपर एफआईआर हो जाता हैं ।लेकिन अब देखना है कि इसपर क्या कारवाई होती है। क्योंकि इसमें कई बड़ी कंपनियों का नाम सामने आ रहा है ।कारवाई होगी तब लगेगा कि वन विभाग के अधिकारी स्वतंत्र रूप से और निष्ठा पूर्वक काम करते हैं। वही विस्थापित नेता गंगेश्वर यादव, रौशन यादव, काली यादव ने कहा कि राज्य की सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन का नारा है जल जंगल जमीन पर अधिकार यहां के लोगों का होना चाहिए। लेकिन यहां ना नदी न जमीन बच रहा है। जिसका उदारण है कि वन भूमि में कई पेड़-पौधों को काटकर एवं प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हुए रामघाट नदी की मुख्य धारा को मोड़कर ट्रांसपोर्टिंग रोड बनाने का प्रयास जा रहा है ।सीसीएल बिना नौकरी-मुआवजा दिए यहां के ग्रामीणों का शोषण करते हुए बाहरी ट्रांसपोर्टर के सहारे कोलियरी पर कब्जा करना चाह रहा हैं। माननीय मुख्यमंत्री संज्ञान लेते हुए कारवाई करे। वही सैकड़ो ट्रक मालिको ने बालूमाथ वन क्षेत्र पदाधिकारी को हस्ताक्षरयुक्त आवेदन देकर सड़क बनाने वाले दोषियों पर कारवाई की मांग की है। ज्ञात हो कि ओबी कंपनी एवं सीसीएल वन विभाग के मिलीभगत से सैकड़ो पेड़ काटकर मुख्य सड़क से लागभग दो सौ फीट सड़क का निर्माण करा दिया है जो जांच का विषय है। मौके पर सुरेश यादव, राजेश राम, दिलीप यादव, चुरामन साव, रविन्द्र साव, सुरेंद्र साव, गोविंद यादव, गिरेन्द्र यादव, सुनील पांडे, संजय साव, अजय चौधरी, मो. सिंकदर, जितेंद्र तुरी, मो. शमीम, मोनू कुमार, जितेंद्र कुमार, विशुन यादव, बबलू यादव, संजय यादव, विकास यादव समेत कई ट्रक मालिक मौजूद थे ।वही इस संबंध में परियोजना पदाधिकारी के.एल यादव से पूछे जाने पर बताया कि दो नाला के बीच मे सीसीएल के सिविल विभाग द्वारा एक पीजो मीटर लगाया जाना था। पीजो मीटर पानी का लेबल व प्रेशर जांच करता है। इसको लेकर रास्ता बनाया जा रहा था। जानकारी के अभाव में ग्रामीणों ने उसे रोक दिया।

विरोध जताते ग्रामीण।

नीतीश से मिलने के बाद विजय चौधरी ने ललन सिंह को लेकर दिया बड़ा बयान

एजेंसी

बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी ने बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। नीतीश कुमार से मुलाकात करने के बाद मंत्री विजय चौधरी ने पत्रकारों के साथ बातचीत की। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए विजय चौधरी ने जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे की खबर को बेबुनियाद और अफवाह बताया है। उन्होंने कहा कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस्तीफे की अफवाह उड़ाई जा रही है। मैंने कल

भी कहा था और आज भी कह रहा हूं ऐसी कोई बात नहीं है। इसके अलावा बीजेपी सांसद सुशील मोदी पर हमला बोलते हुए विजय चौधरी ने कहा कि उनको कोई पूछता नहीं है, पार्टी की बैठक में उनको बुलाया नहीं जाता है, इसलिए वो इधर-उधर की बात करते रहते हैं। महागठबंधन में टूट की खबरों को लेकर जब पत्रकारों ने विजय चौधरी से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अभी हमलोगों के समझ से कोई कन्फ्युजन ही नहीं है। ये बाहरी लोग क्रिएट कर रहे हैं। हम आश्वस्त करते हैं कि कोई कितना भी कोशिश करे महागठबंधन अटूट है।

क्या कहा था सुशील मोदी ने

दरअसल, सुशील मोदी ने एक न्यूज चैनल के साथ बातचीत के दौरान कहा है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का जाना तय है। मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार को लगता है कि ललन सिंह की वजह से उनकी पार्टी में विरोध शुरू हो गया है। ललन सिंह लगातार आरजेडी की वकालत कर रहे हैं। वह आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के काफी करीब हो गए हैं। बीजेपी सांसद ने यहां तक कहा कि नीतीश कुमार इस उम्मीद के सहारे इंडिया गठबंधन में गए थे कि उनको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने में मदद मिलेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसी वजह से अब वहां पर दबाव बनाने के लिए है वह कई कदम उठाएंगे।

स्पीड न्यूज

तेज रफ्तार ट्रक के झटके से गिरकर एक की मौत

छपरा 27 दिसम्बर वार्ता बिहार में सारण जिले के मढ़ौरा थाना क्षेत्र में बुधवार को तेज रफ्तार ट्रक के झटके से एक व्यक्ति की गिरकर मौत हो गई। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि थाना क्षेत्र के धेनुकी गांव निवासी स्व रामजोत महतो का पुत्र मोहन महतो (45) अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान उसके समीप से एक तेज रफ्तार ट्रक गुजर रही थी, जिसके कारण वह गिर गया और उसकी मौत हो गई।

एसकेएमयू पीजी नामांकन फीस भुगतान के लिए खुला चांसलर पोर्टल

दुमका। सिदो-कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय में पीजी नामांकन का फीस भुगतान के लिए एक बार पुनः चांसलर पोर्टल खोला गया। अब नामांकन फीस को लेकर तीन दिनों के लिए चांसलर पोर्टल खोला गया है। इस बावत डीएसडब्लू डॉ संजय कुमार सिंह ने इस संबंध में सभी स्नातकोत्तर विभाग के विभागाध्यक्ष और संबंधित कॉलेज के प्रचार्यों को एक पत्र लिखते हुए कहा है कि 28 से 30 दिसंबर तक तीन दिनों के लिए वैसे छात्रों के लिए एक बार पुन चांसलर पोर्टल खोला जाता है। जिसका नाम पहला और दूसरे मेधा सूची में हो और अब तक नामांकन फीस भुगतान नहीं किए हो। यहां बता दें कि 25 दिसम्बर को ही चांसलर पोर्टल बंद हो गया था। अब एक बार फिर से छात्रहित में कुलपति डॉ बिमल प्रसाद सिंह के निर्देश पर तीन दिनों के लिए चांसलर पोर्टल वैसे छात्रों के लिए खोला गया है। जिनका नाम पहला और दूसरा मेधा सूची में है।

एसकेएमयू के अरविन्द टुडू ने हासिल किया स्वर्ण

दुमका। पंजाब में आयोजित ईस्ट जॉन इंटर यूनिवर्सिटी तीरंदाजी प्रतियोगिता में सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के छात्र अरविन्द टुडू ने गोल्ड मैडल हासिल किया। अरविन्द टुडू विश्वविद्यालय के एएन कॉलेज, दुमका के यूजी सेमेस्टर-1 के छात्र है। अरविंद ईस्ट जॉन इंटर यूनिवर्सिटी तीरंदाजी प्रतियोगिता में एसकेएमयू का प्रतिनिधित्व करते हुए उत्तरप्रदेश के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के उज्जवल मुद्गल को पराजित करते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। यहां बता दें यह प्रतियोगिता पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला में आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता में ईस्ट जॉन के लगभग 50 यूनिवर्सिटी ने भाग लिया। बीते 20 दिसंबर को एसकेएमयू की 9 सदस्य टीम पंजाब रवाना हुई थी। टीम में दिनेश मुर्मू, सुभादिप हजरा, राहुल जामुदा, गोबिंद मांझी, प्रकाश मांझी, पंकज दावे, सुरेश कुमार हेम्ब्रम, गंगाराम हेम्ब्रम, सिमरन लता महतो, अरविन्द टुड और बिकाश राणा शामिल हैं। टीम के बतौर कोच देविधन टुडू है। अरविन्द के स्वर्ण पदक जितने से विश्वविद्यालय में हर्ष का माहौल है। एसकेएमयू के कुलपति डॉ बिमल प्रसाद सिंह, क्रीडा पदाधिकारी डॉ. शम्श तबरेज खान सहित अन्य ने अरविन्द टुडू को स्वर्ण पदक जितने पर बधाई देते हुए उज्वाल भविष्य का कामना किया है।

भारत न्याय यात्रा के दौरान बिहार आयेंगे राहुल गांधी

पटना। कांग्रेस नेता एवं सांसद राहुल गांधी 14 जनवरी से 20 मार्च तक मणिपुर और मुंबई के बीच भारत न्याय यात्रा का नेतृत्व करेंगे। भारत न्याय यात्रा में 14 राज्यों में 6,200 किलोमीटर की पद यात्रा के दौरान राहुल गांधी बिहार भी आयेंगे। न्याय यात्रा की शुरूआत राहुल गांधी मणिपुर से करेंगे। यात्रा एक तरह से पूर्वी भारत से पश्चिमी भारत की ओर जायेगी। इसमें बिहार सहित कुल 14 राज्यों को राहुल गांधी पैदल लांघेगे। राहुल गांधी के भारत न्याय यात्रा पर निकले की चर्चा लम्बे समय से थी लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस ने बड़ा प्लान किया है अब राहुल गांधी 14 जनवरी से मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा पर निकलेंगे, जो 20 मार्च तक चलेगी।14 राज्यों से गुजरने वाली यह यात्रा पूर्वोत्तर भारत से देश के पश्चिमी हिस्से को जोड़ेगी।

मीट कारोबारी की बीच सड़क गोली मारकर हत्या

मुजफ्फरपुर। बिहार में अपराधियों का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा वारदात मुजफ्फरपुर की है, जहां एक मीट कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बाइक सवार दो अपराधियों ने मिठनपुरा के मीट कारोबारी मो. अफोरज को रामबाग रोड पर उस समय गोली मार दी जब वह अपनी दुकान खोलने जा रहा था। अफरोज की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दी है। जानकारी के मुताबिक अफरोज मुजफ्फरपुर के नगर थाना इलाके के महाराजी पोखर मोहल्ले का रहने वाला था। उसकी गौशाला-पीएंडटी चौक के पास मीट की दुकान है। वह बुधवार सुबह को दुकान खोलने जा रहा था। तभी बाइक पर सवार होकर दो अपराधी पीछे से आए और उसे गोली मार दी। गोली मीट कारोबारी के सिर में लगी, जिससे वह बाइक से तुरंत नीचे गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। देखते ही देखते घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर महाराजी पोखर से भी बहुत लोग आ गए। आक्रोशित लोगों ने नकुलवा चौक और अमर सिनेमा चौक को जाम कर दिया और टायर जलाकर नारेबाजी करने लगे। मौके पर पहुंची मिठनपुरा और नगर थाने की पुलिस को आक्रोश का सामना करना पड़ा। आक्रोशित युवकों ने राहगीरों के साथ मारपीट भी की। काफी प्रयास के बाद भीड़ को शांत कराने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा।

इंडिया अलायंस पर गिरिराज सिंह का हमला, कहा- स्वार्थ के आधार पर बना गठबंधन

एजेंसी

केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता इंडिया गठबंधन पर बड़ा हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा है कि स्वार्थ के आधार इंडिया गठबंधन बनाया गया है। बीजेपी नेता ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का पीएम बनने का सपना टूट चुका है। बीजेपी नेता ने यह भी कहा कि उनके (नीतीश कुमार) के लिए बीजेपी के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं।नीतीश कुमार द्वारा अटल बिहारी वाजपेई के प्रयास से मुख्यमंत्री बनने के बयान पर गिरिराज सिंह ने कहा कि पता नहीं पलटने की आदत नीतीश कुमार को कब लग गई। वहीं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन कुमार सिंह के इस्तीफे की चर्चा को लेकर

गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा किनीतीश कुमार ने ललन सिंह को सम्मान भी दिया और इस्तीफा भी लेकर एक तरह से ललन सिंह का अपमान किया है। इसके अलावा गिरिराज सिंह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला पर भी निशाना साधा। उन्होंने फारूक अब्दुल्ला के पाकिस्तान से बातचीत करने और कश्मीर की गाजा जैसी हालत होने के बयान पर हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा कि किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। कश्मीर की हालत सुधर रहा है। पीओके के लोग भारत आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए कोई व्यक्ति आज भारत को थ्रेट नहीं करें, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो चाहे पाकिस्तान हो। भारत खुद सक्षम है। उन्होंने कहा कि आज कश्मीर की हालात सुधर गए हैं, जिनको नहीं दिखाई दे रहा है वह नहीं देखें। कश्मीर सुधर रहा है, कश्मीर में अमन चैन शांति हो रहा है और वहां विकास हो रहा है।

हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का धरना प्रदर्शन

- अधिवक्ता संघ को मिला सत्ताधारी दल झामुमो विधायक प्रो स्टेफन मरांडी का साथ
- उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को अधिवक्ता संघ ने सौंपा मांग पत्र

खबर मन्त्र संवाददाता

दुमका। हाई कोर्ट, रांची की उपराजधानी दुमका में खंडपीठ स्थापना को लेकर एक बार फिर राजनीति तेज हो गई है। पहले तो हाई कोर्ट बेंच का वर्चुअल प्लेटफार्म का ओपनिंग होने के साथ ही बंद हो जाने के कारण जिला अधिवक्ता संघ में नाराजगी होना और उसके बाद भाजपा के देवघर विधायक नारायण दास का बयान की दुमका में हाई कोर्ट बेंच के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है, बेंच की स्थापना देवघर में होना चाहिए। विधायक श्री दास का बयान आग में घी डालने का काम किया। विरोध में अधिवक्ता संघ ने भाजपा विधायक का पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया। बुधवार को वर्षों से लंबित हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर अधिवक्ता संघ ने एक बार पुनः मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। जिसकी अगुवाई संघ अध्यक्ष निशिकांत प्रसाद एवं सचिव राकेश कुमार ने संयुक्त रूप से किया। अधिवक्ताओं को समर्थन सत्ताधारी दल के महेशपुर विधायक डॉ स्टेफन मरांडी का मिला। अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल के नाम एक सूत्री मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में बिहार पुनर्गठन विधेयक 2000 के विधेयक 25(3) का हवाला देते हुए उपराजधानी दुमका में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की मांग की। बताया कि संथाल परगना जैसे पिछड़े क्षेत्र का हवाला देते हुए आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े को लोगो को सुलभ और सस्ता न्याय मिले, इसके लिए दुमका में हाई कोर्ट बेच की स्थापना होना आवश्यक है। जिससे गरीब और पिछड़े लोगो को हाई कोर्ट, रांची जाने आने के अतिरिक्त आर्थिक बोझ और परेशानी से बच सके। अधिवक्ता संघ के आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे झामुमो विधायक प्रो स्टेफन मरांडी ने विपक्ष पर भ्रम फैलाने की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए विधानसभा में पारित गजट प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि दुमका में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर पूर्व में ही उनके वित्त मंत्री काल मे वर्ष 2014 में 13.84 एक जमीन चिन्हित की जा चुकी है। वन भूमि होने के कारण मुआवजा भी जमीन के बदले दिया जा चुका है। तत्कालीन वित्त मंत्री के हैसियत से हाई कोर्ट बेंच की स्थापना में स्वीकृति देते हुए न्यायधीश को स्पेशल प्लेन दुमका के लिए मुहैया कराने का आश्वासन दिया था। अधिवक्ता संघ के मांगों को जायज ठहराते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात कर सकारात्मक पहल करने का संघ को भरोसा दिलाया। इस अवसर पर संघ उपाध्यक्ष कमल किशोर झा, कोषाध्यक्ष विमलेन्दु कुमार, भवेश कुमार, अचल कुमार, मनोज मिश्रा, भीम मंडल,नीरज कुमार, अरुण साह आदि मौजूद थे।

एडमिट कार्ड नहीं आने पर शिक्षकों को पीटा

बिहार के भागलपुर जिले के एक इंटर स्कूल में बुधवार को स्टूडेंट्स ने जमकर बवाल काटा। मैट्रिक परीक्षा का एडमिट कार्ड नहीं मिलने से गुस्साए छात्र-छात्राओं ने विद्यालय में हंगामा कर दिया। उन्होंने शिक्षकों को घेरकर उनकी पिटाई कर दी और उन्हें कमरे में भी बंद कर दिया। स्टूडेंट्स ने महिला टीचर को भी नहीं बख्शा। मामला गोराडीह के गांधी इंटर स्कूल मुरहन हाट का है। जानकारी के मुताबिक गांधी इंटर स्कूल के छात्र-छात्राओं ने बुधवार को जमकर हंगामा किया। मैट्रिक परीक्षा का प्रवेश पत्र नहीं आने पर स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स ने बवाल काटा। छात्र-छात्राओं ने विद्यालय के शिक्षकों की पहले तो पिटाई कर दी। फिर उन्हें कमरे के अंदर बंद कर दिया। महिला शिक्षक के साथ भी बच्चों ने मारपी की। मामले की सूचना देने के बाद भी कोई अधिकारी नहीं मौके पर नहीं पहुंचा। प्रदर्शन कर रहे छात्र-छात्राओं का कहना है कि स्कूल में लगभग 300 बच्चे ऐसे हैं जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया है। पिछले साल भी 150 बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं आया था। जबकि उन्होंने प्रवेश पत्र के लिए आवश्यक शुल्क भी जमा कराया। बच्चों ने बताया कि प्राचार्य पिछले 15 दिनों से विद्यालय नहीं आ रहे हैं। वहीं जो प्रभारी प्राचार्य हैं वह भी मौका देखकर निकल गए। इधर विद्यालय के शिक्षकों का कहना है कि वे लोग सिर्फ पढ़ाने से मतलब रखते हैं। अगर एडमिट कार्ड नहीं आया तो इसमें शिक्षकों का कोई दोष नहीं है।

बालक–बालिका दोनों वर्गों में हरियाणा चैंपियन

राष्ट्र स्तरीय 29वी सब जूनियर नेट बॉल प्रतियोगिता में झारखंड की टीम उपविजेता

खबर मन्त्र संवाददाता

गोड्डा। गोड्डा में आयोजित छह दिनों से चल रहे खेल का समापन हुआ। दिनांक 21 दिसंबर से चली आ रही ये राष्ट्रीय स्तर का खेल आज 27 दिसम्बर 2023 को समाप्त हो रही है बालक और बालिका संवर्ग में झारखंड बालक और बालिका वर्ग झारखंड की टीम फाइनल में पहुंच गई है। झारखंड बालिका टीम हरियाणा बालिका टीम के साथ खेल रही फाइनल खेल रही है। थर्ड प्लेस के लिए बालक वर्ग में पंजाब बनाम राजस्थान की टीम जोर आजमाइश कर रही है वही बालिका वर्ग में थर्ड प्लेस के लिए मनीपुर बनाम कर्नाटक के बीच मुकाबला जारी है। झारखंड बालक वर्ग और हरियाणा की टीम में रोमांचक संघर्ष जारी है हरियाणा की टीम 22अंक प्राप्त कर खेल रही है वही झारखंड बालक टीम 3अंक पीछे चल रही है। खेल का उद्घाटन उपायुक्त गोड्डा ने किया और समापन भी उपायुक्त के द्वारा ही किया गया। समापन समारोह के आमंत्रण पत्र में यद्यपि कई झारखंड राज्य के मंत्रियों के नाम थे मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री हफीजुल हसन, विशिष्ट अतिथि के रूप में आलम गीर आलम मंत्री झारखंड, राज महल सांसद विजय हांसदा, गोड्डा सांसद डॉ निशी कांत दुबे, विधायक लोबिन हेम्बरम, गोड्डा विधायक अमित मंडल, विधायक प्रदीप यादव पोडैया हाट, महगामा विधायक दीपिका पांडे सिंह जो खेल की आयोजक और सचिव खेल के साथ राज्य कांग्रेस की सचिव भी हैं आमंत्रण पत्र में इन सबका नाम है। लेकिन मौके पर एक भी जन प्रतिनिधि उपस्थित नही हुए और दुर्भाग्य वश खेल की आयोजिका दीपिका पांडे सिंह भी खुद अपनी मां की अस्वस्थता की वजह से समापन समारोह में शामिल नहीं हो पाई।लेकिन कोई भी सम्मानीय जन प्रति निधि का समापन समारोह में उपस्थित नही होना कुछ जचता नही। उद्घाटन हुआ तो समापन भी होना ही था। पोस्टर बैनर भी कई तरह की लगाई गई थी जिसमे जिले के कई कांग्रेस कार्यकताओं और झारखंड सरकार के मंत्री कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह के साथ कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह भी बैनर और होर्डिंग्स में नजर आ रहे थे। मुख्यमंत्री झारखंड के भी होर्डिंग लगे थे। तो ये समझना जरा मुश्किल था की ये खेल झारखंड सरकार की एक योजना है या महागठबंधन की जबकि खेल की आयोजक थी कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह। खेल के उद्घाटन से समापन तक महागठबधन द्वारा आयोजित खेल प्रचार प्रसार किया गया लेकिन कांग्रेस नेता पोडैया हाट विधायक का उद्घाटन से समापन तक कही कोई पोस्टर नही दिखी और झामुमो के जिला स्तर के कार्यकर्ता इसमें नजर आए और जिला काग्रेस के कार्यकर्ता, राजद प्रवक्ता की भी शिकायत रही महा गठबन्धन के कार्यक्रम के तहत अगर खेल का आयोजन किया गया तो गठबंधन के सभी दलों के प्रमुखों को आमंत्रित किया जाना चाहिए था। लेकिन जिला परिषद अध्यक्ष के कोई पोस्टर नही थे। जिला नेट बॉल अध्यक्ष के कोई पोस्टर बैनर नही लगे, सीपीआई एमएल के भी किसी संगठन को आमंत्रण नही मिली। अध्यक्ष सबको, कुछ सोशल मीडिया के रिपोर्टर भी कार्यकर्ता के रूप में दिन रात इंतजाम करने में लगे थे जो रात भर यू ट्यूब पर फेसबुक अपनी न्यूज चलाते रहे। दर्शकों की कमी को स्कूली बच्चों ने पूरी की जिसमे कई स्कूलों की छात्र और छात्राएं एक साइड की पूरी गैलरी में अपनी जगह जमी थी। कुल मिलाकर खेल संपन्न हुआ और स्थानीय जन प्रतिनिधियों की प्रतिक्रिया कहीं खुशी कही गम थी। लेकिन गोड्डा में राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन करना बहुत बड़ी उपलब्धि थी और इसका श्रेय भी निश्चित रूप से महगामा विधायक दीपिका पांडे सिंह को अवश्य जाएगा।

खबर एक नजर में

माता सीता जन्मस्थान पर चुप्पी क्यों नहीं तोड़ती भाजपा : राजीव रंजन

पटना। जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के राष्ट्रीय महासचिव राजीव रंजन ने सीता जन्मस्थान के नवनिर्माण के मुद्दे को लेकर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर हमला बोला और कहा कि वह माता सीता जन्मस्थान पर चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रही है। श्री रंजन ने माइक्रो ब्लोगिंग साइट एक्स पर बुधवार को पोस्ट किया कि छोटे-छोटे विषयों पर भी बयानवीर बनने वाले भाजपा के नेताओं की चुप्पी माता सीता के जन्मस्थान के मसले पर टूटने को तैयार नहीं है। यह दिखाता है कि इनकी निगाह में माता सीता का कोई महत्व ही नहीं है। उन्होंने लिखा है कि भाजपा को समझना चाहिए कि सारे धर्मगुरुओं से लेकर साधू-संतों तक, यहां तक कि आम लोग भी जय सिया राम ऐसे ही नहीं कहते हैं बल्कि यह दशार्ता है कि माता सीता ही भगवान राम को संपूर्ण करती हैं। शास्त्रों के मुताबिक माता सीता ब्रह्मांड की शक्ति और स्त्री ऊर्जा का प्रतीक हैं। सीताराम के जप से भक्त और भगवान के संबंधों में पूर्णता आती है इसीलिए माता सीता के जन्मस्थान का नवनिर्माण किये बिना भगवान राम के जन्मस्थान का निर्माण करने से संपूर्णता नहीं आ सकती है।

ट्रेन से छात्रा को फेंकने वाले 3 मोबाइल झपटमार अरेस्ट

बिहार के सुगौली स्टेशन पर चलती ट्रेन में छात्रा सोनाली से मोबाइल छिनतई और फिर उसके ट्रेन की चपेट में आने से कटने के मामले में रेल पुलिस मुजफ्फरपुर ने सफलता पायी है। रेल एसपी डॉ. कुमार आशीष के द्वारा गठित एसआइटी ने घटना में शामिल दो बदमाश व एक मोबाइल दुकानदार को दबोचा है। पुलिस ने साथ ही छात्रा सोनाली के मोबाइल सहित 13 अन्य मोबाइल सेट भी बरामद किया है। सभी शातिर मोतिहारी के ही रहने वाले हैं। बता दें कि 17 दिसंबर को सोनाली दारोगा भर्ती परीक्षा देने के लिए ट्रेन से जा रही थी। मोबाइल छिनतई के दौरान बदमाशों ने छात्रा को ट्रेन से धक्का दे दिया था। गंभीर हालत में उसे मोतिहारी सदर अस्पताल से भर्ती कराया गया।

पेज 1 का शेष

जनता की उम्मीदें...

इस दौरान सीएम ने जिले वासियों को करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात दी और आम लोगों को संबोधित करते हुए विपक्ष और केंद्र सरकार पर हमला भी बोला। **पिछली सरकारों ने जम कर लूटा :** मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड राज्य 20 वर्षों तक शोषण का शिकार रहा। इसके कारण प्रचुर धन-संपदा के बावजूद यहां के लोग गरीब और पिछड़े बने रहे, लेकिन जब से उनकी सरकार बनी है, झारखंड की जनता की उम्मीदें पूरी हो रही हैं। सीएम ने कहा, चुनाव से पहले भी मैने वादा किया था कि हेमंत सोरेन की सरकार दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से नहीं चलेगी और न ही एसी कमरों में बैठकर चलेगी। हमारी सरकार गांव और ग्रामीणों के बीच जाकर योजनाएं बनायेगी और काम करेगी। सरकार बनी तो हमने अपने सभी वादे पूरे किये। इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा लाभ उन ग्रामीणों को मिलता है जो ब्लॉक या जिला मुख्यालय जाने में असमर्थ हैं। झारखंड के सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को कई देश की कई राज्य सरकारें अपना रही हैं। **लोगों की तकलीफें मुझतक आ रही हैं :** सीएम ने कहा, लोगों की समस्याएं और तकलीफें अब शिविर के माध्यम से सीधे मुझ तक आती है। सरकार ने हर वो योजना बनाने का कार्य किया है, जिससे राज्य मजबूत हो सके और यहां के गांव में निवास करने वाले लोग सशक्त हो सकें। हमारी सरकार हर वर्ग के लोगों को योजना का लाभ दे रही हैए किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। एक लम्बी लकीर खींचने का प्रयास किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि भूमि को लेकर त्रुटियां पूरे राज्य में है। इसका समाधान भी शीघ्र किया जायेगा। आपकी सरकार ने वर्षों से संघर्ष कर रहें नेतरहाट के लोगों की भूमि को वापस किया है। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अधिसूचना रद्द की गयी। राज्य में कई किसानों की भूमि वापस हुई है। विश्वास रखें आने वाले समय में समाधान होगा। **बेहतर शिक्षा का कर रहे प्रयास :** मुख्यमंत्री ने कहा राज्य के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का प्रयास कर रही है। बच्चियों को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से जोड़ा जा रहा है। बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और अफसर बनें, इसके लिए उन्हें प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी से लेकर विभिन्न कोर्सेस करने को गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ दिया जायेगा। मौके पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री बादल पत्रलेख, विधायक रामचंद्र सिंह, बैजनाथ राम, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, पुलिस उप महानिरीक्षक, डीसी व एसपी समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

लीज आवंटन मामले...

सीएम और उनके रिश्तेदारों पर एक ही तरह के आरोप लगे हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुकी हैं। ऐसे में सुनील कुमार महतो की जनहित याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए। वहीं प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार एवं विशाल कुमार ने कोर्ट को बताया कि शिव शंकर शर्मा के मामले में केवल सीएम हेमंत सोरेन के माइंस लीज का मामला था। लेकिन इस मामले में सीएम के माइनिंग लीज के अलावा उनकी पत्नी और साली को इंडस्ट्रियल एरिया में जमीन देने का भी है।

14 से राहुल...

इस बार यात्रा बस से निकाली जायेगी और नेताओं के मार्ग के कुछ हिस्सों में पैदल चलने की उम्मीद है। **खड़गे दिखायेंगे हरी झंडी :** कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यात्रा को हरी झंडी दिखायेंगे। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान भी तेज होने की उम्मीद है। जिन राज्यों से यात्रा गुजरने की उम्मीद है उनमें से कुछ राज्यों में वर्तमान में उन पार्टियों का शासन है जो भारत गठबंधन का हिस्सा हैं। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू हुई थी। यह यात्रा 3,970 किमी, 12 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने और 130 दिनों से अधिक चलने के बाद 30 जनवरी 2023 को श्रीनगर में समाप्त हुई थी।

मुस्लिम लीग जम्मू-कश्मीर...

मसर्रत आलम भट कौन हैं : 2021 में सैयद अली गिलानी की मृत्यु के बाद अलगाववादी मसर्रत आलम भट को कथित तौर पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के लिए नामांकन मिला। 2015 से, मसर्रत आलम को जम्मू-कश्मीर में अशांति भड़काने से संबंधित कई आरोपों में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। 52 वर्षीय मसर्रत आलम पहली बार 1990 के दशक की शुरुआत में जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद में शामिल हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने गिलानी के साथ गठबंधन कर लिया। उसने हिजबुल्लाह के स्थानीय कमांडर के रूप में कार्य किया, जो पाकिस्तान द्वारा समर्थित एक आतंकवादी समूह है। इसकी स्थापना मुश्ताक अहमद भट ने की थी। दावा किया जाता है कि गिलानी की हड़ताल वापस लेने की इच्छा को मसर्रत ने कमजोर कर दिया, जिसने कश्मीर घाटी में पथराव प्रदर्शनों को उकसाया था।

दीघा-सोनपुर में गंगा पर...

उन्होंने बताया कि इसके साथ नॉर्थ त्रिपुरा और साउथ त्रिपुरा को जोड़ने से जुड़े प्रस्ताव को भी कैबिनेट की हरी झंडी मिल गयी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नारियल पर एमएसपी बढ़ाने को भी अपनी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडलीय समिति ने 2023 सीजन के लिए कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी दे दी है। यह अनुमोदन कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों व प्रमुख नारियल उत्पादक राज्यों की मांगों के आधार पर किया गया है। साथ ही भारत न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में महावाणिज्य दूतावास खोलने को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गयी। भारत जल्द ही ऑकलैंड में महावाणिज्य दूतावास खोलेगा। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय रहते हैं। वर्तमान में ऑकलैंड में भारत का एक काउंसुलेट है, जिसका नेतृत्व एक मानद वाणिज्य दूत करते हैं। महावाणिज्य दूतावास खुलने से महावाणिज्य दूत की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा, यह पद आमतौर पर भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) के एक अधिकारी के पास होता है।

पाक में आम चुनाव के लिए पहली हिंदू महिला ने किया नॉमिनेशन

एजेंसी

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के आम चुनाव में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) ने हिंदू महिला डॉ. सवीरा प्रकाश को उम्मीदवार बनाया है। 16वीं नेशनल असेंबली का चुनाव अगले साल 8 फरवरी को होना है। डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार पीपीपी ने डॉ. सवीरा प्रकाश को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बुनेर जिले से अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला उम्मीदवार बनाने की घोषणा की है। सवीरा प्रकाश ने 2022 में एबटाबाद इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की। उनके डॉक्टर पिता ओम

- पीपीपी ने डॉ. सवीरा प्रकाश को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बुनेर जिले में उम्मीदवार बनाने का किया एलान
- 2022 में प्रकाश ने एबटाबाद इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस पढ़ाई की है

प्रकाश हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं। वो पिछले 35 वर्षों से पार्टी के सक्रिय सदस्य थे। सवीरा प्रकाश ने 23 दिसंबर को पीके-25 की सामान्य सीट से अपना नामांकन पत्र जमा किया है। वह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी महिला विंग की महासचिव हैं। गौरतलब है कि पाकिस्तान निर्वाचन आयोग ने हाल ही में राजनीतिक पार्टियों से कहा था कि पांच फीसदी सामान्य सीटों पर महिला उम्मीदवारों को खड़ा करना होगा। नेशनल असेंबली और चार प्रांतीय असेंबली की 1,085 सीटों के लिए चुनाव होंगे। नेशनल असेंबली की 266 सीटों के लिए 7,713 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। इनमें 471 महिलाएं हैं।

पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का चुनाव चिह्न बहाल

इमरान की पार्टी को चुनाव चिह्न वापस करे आयोग : हाईकोर्ट

पेशावर। पाकिस्तान में आम चुनाव से पहले पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बड़ी जीत मिली है। पेशावर हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग के आदेश को निलंबित करते हुए पीटीआई को उसका अपना चुनाव चिन्ह बल्ला बहाल कर दिया है। पाकिस्तान में 16वीं नेशनल असेंबली के लिए 8 फरवरी 2024 को आम चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने इससे पहले पार्टी के आंतरिक चुनावों में बल्ला निशान को अवैध करार दे दिया था। कोर्ट ने आदेश में कहा कि याचिका पर अंतिम फैसले में पार्टी का चुनाव चिह्न बहाल किया जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि सर्दियों की छुट्टियों के बाद डबल बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी।

पेशावर हाई कोर्ट के जज जस्टिस कामरान हयात मियांखेल ने टिप्पणी करते हुए कहा कि चुनाव आयोग को पीटीआई को चुनाव चिन्ह देना होगा क्योंकि चुनावी तारीख जारी होने के बाद इसे रद्द नहीं किया जा सकता है। हाई कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने एक्स पर लिखा कि बल्ला मारो, आजादी को गले लगाओ! पार्टी ने आयोग और चुनाव को चुनौती देने वालों को नामित करते हुए कोर्ट से मामले की तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था। इसको देखते हुए कोर्ट ने मंगलवार को याचिका पर सुनवाई की।

पीटीआई के वकील अली जफर ने कहा कि पार्टी को चुनाव कराने के लिए 20 दिन का समय दिया गया था। पार्टी ने 3 दिसंबर को पेशावर में पार्टी के आंतरिक चुनाव कराए। आयोग ने पार्टी के आंतरिक चुनावों की सत्यता को स्वीकार करते हुए पार्टी को एक प्रमाण पत्र जारी किया।

एक नजर में

ऑस्ट्रेलिया में तूफान से तबाही, नौ लोगों की मौत और हजारों घरों की बिजली गुल

सिडनी। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान देश के पूर्वी हिस्से में आए शक्तिशाली तूफान से अब तक नौ लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बुधवार को कहा, हजारों घरों में अब भी बिजली गुल है। बिजली आपूर्ति बहाल करने में अधिक समय लग सकता है। द डेली टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार 25 और 26 दिसंबर को विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड राज्यों में मौसम की कड़ी मार पड़ी। जमकर ओले गिरे और मूसलाधार बारिश हुई। सबसे अधिक प्रभावित कुछ इलाकों में तेज हवाओं के कारण घरों की छतें उड़ गईं और हजारों पेड़ गिर गए। क्वींसलैंड राज्य पुलिस आयुक्त कैटरीना कैरोल के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि मोरेटन बे में ग्रीन आइलैंड के पास एक नौका के पलट जाने से तीन लोगों की मौत हो गई। उसमें 11 लोग सवार थे। क्वींसलैंड में अलग-अलग घटनाओं में नौ साल की एक लड़की और एक महिला नाले में बह गईं। दोनों के शव बरामद हो गए। इसके अलावा पेड़ गिरने से दो लोगों की मौत हो गई। एक महिला विक्टोरिया के एक कैंप ग्राउंड में भरे पानी में मृत पाई गई है। क्वींसलैंड के स्वामित्व वाली बिजली कंपनी एनर्जेक्स ने कहा कि तूफान के बाद 90,000 से अधिक घरों में अभी भी बिजली नहीं है। तूफान से सैकड़ों लाइनों को नुकसान हुआ है। बिजली आपूर्ति बहाल करने में अभी कई दिन लगेंगे। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के मौसम विज्ञान ब्यूरो ने बारिश की भविष्यवाणी की है।

इजराइल की सुरक्षा परिषद ने भारत में अपने नागरिकों के लिए जारी किया एडवाइजरी

तेल अवीव। इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने भारत में अपने नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। इसमें संदेह व्यक्त किया है कि मंगलवार को नई दिल्ली में इजराइल के दूतावास के पास हुआ विस्फोट आतंकवादी हमला हो सकता है। इस परामर्श को इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट पर साझा किया गया है। इस परामर्श में कहा गया है कि नई दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित इजराइल के दूतावास के पास मंगलवार शाम एक विस्फोट हुआ और घटनास्थल से इजराइल के राजदूत को अभद्र भाषा में संबोधित एक पत्र बरामद किया गया। अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने भारत में रह रहे अपने नागरिकों को भीड़भाड़ वाली जगहों जैसे मॉल और बाजार पर जाने से बचने की सलाह दी है। यहूदियों और इजराइलियों के रूप में पहचाने जाने वाले स्थानों पर भी न जाने की सलाह दी गई है।

इराक को अमेरिका का संदेश, देश की सुरक्षा के लिए हमला करने से नहीं हिचकिचाएंगे

वाशिंगटन। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए इराक पर हमला करने से नहीं हिचकिचाएंगे। ऑस्टिन ने यह टिप्पणी इराक में ईरान समर्थित गतिविधियों को लेकर दी है। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि ईरानी-प्रायोजित मिलिशिया द्वारा इराक और सीरिया में अमेरिकी कर्मियों के खिलाफ हमलों के जवाब में अमेरिकी सैन्य बलों ने इराक में तीन स्थानों पर आवश्यक और आनुपातिक हमले किए। ऑस्टिन ने कहा कि अमेरिका की सुरक्षा से बढ़कर कोई उच्च प्राथमिकता नहीं है और वह देश, उसके सैनिकों और हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेगा। लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडन के निर्देश पर, अमेरिकी सैन्य बलों ने इराक में कातिब हिजबुल्लाह और संबद्ध समूहों के इस्तेमाल वाली तीन सुविधाओं पर हमले किए। इराक और सीरिया में अमेरिकी कर्मियों के खिलाफ एक प्रतिक्रिया है और इसका उद्देश्य ईरान-गठबंधन मिलिशिया समूहों की क्षमताओं को बाधित और खराब करना था। अमेरिका ने इन हमलों को ईरानी-प्रायोजित मिलिशिया द्वारा किए जाने का आरोप लगाया।

नये शैक्षिक सत्र के लिए एआइसीटीइ का पोर्टल शुरू

नयी दिल्ली। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए अनुमोदन की प्रक्रिया को बुधवार से शुरू कर दिया है। मौजूदा एआईसीटीई अनुमोदित तकनीकी संस्थान, डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटी, केंद्रीय एवं राज्य या निजी विश्वविद्यालय, तकनीकी और प्रबंधन कार्यक्रम व पाठ्यक्रम चलाने के लिए परिषद से अनुमोदन चाहने वाले नए संस्थान ऑनलाइन आवेदन भेज सकते हैं। एआईसीटीई के अध्यक्ष प्रोफेसर टी.जी. सीताराम ने उपाध्यक्ष डॉ. अभय जेरे और सदस्य सचिव प्रो. राजीव कुमार के साथ आधिकारिक तौर पर नई दिल्ली में एआईसीटीई मुख्यालय से अनुमोदन प्रक्रिया के वेब पोर्टल को लाइव किया। एआईसीटीई से अनुमोदन प्राप्त करने के इच्छुक मौजूदा और नए तकनीकी संस्थान एवं विवि 01 से 31 जनवरी तक काउंसिल की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, जो संस्थान बीबीए, बीसीए या बीएमएस पाठ्यक्रम शुरू करना चाहते हैं उन्हें नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पर ऑनलाइन आवेदन करके एआईसीटीई से अनुमोदन लेना होगा।

सेंसेक्स ने फिर बनाया नया रिकॉर्ड, पहली बार 72000 पार

एजेंसी

फेड रिजर्व के ब्याज दरों में कटौती उम्मीद से विश्व बाजार में आई तेजी

- सेंसेक्स 701 अंक छलांग लगाकर 72,038 पर पहुंचा और निफ्टी 213 अंक तेजी के साथ 21,654 अंक पर रहा

इन कंपनियों में रही तेजी

इस दौरान कमोडिटीज 1.19, सीडी 0.91, एफएमसीजी 0.39, वित्तीय सेवाएं 0.94, हेल्थकेयर 0.49, इंडस्ट्रियल्स 0.49, आईटी 0.68, दूरसंचार 0.65, ऑटो 1.33, बैंकिंग 1.09, कैपिटल गुड्स 0.67, कंज्यूमर डयूरेबल्स 0.67, धातु 1.33, रियल्टी 0.60 और टेक समूह के शेयर 0.96 प्रतिशत लाभ में रहे।

मुंबई। अमेरिका में महंगाई पर लगाम लगने से फेड रिजर्व के अगले साल से ब्याज दरों में कटौती की बढ़ी उम्मीद से विश्व बाजार में आई तेजी की बदौलत स्थानीय स्तर पर कमोडिटीज, ऑटो, धातु और बैंकिंग समेत पंद्रह समूहों में हुई लिवाली से बुधवार को सेंसेक्स ने फिर नया रिकॉर्ड बनाया और पहली बार 72 हजार अंक के पार पहुंच गया। बीएसई का तीस शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 701.63 अंक अर्थात 0.98 प्रतिशत की छलांग लगाकर 72 हजार अंक के मनोवैज्ञानिक स्तर कि पार 72,038.43 अंक हो गया। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 213.40 अंक यानी एक प्रतिशत की तेजी के साथ 21,654.75 अंक पर रहा। दिग्गज कंपनियों की तरह मझौली और छोटी कंपनियों एक शेयरों में भी लिवाली हुई। इससे बीएसई का मिडकैप 0.41 प्रतिशत मजबूत होकर 36,286.89 अंक और स्मॉलकैप 0.20 प्रतिशत चढ़कर 42,286.91 अंक हो गया। इस दौरान बीएसई में कुल 3914 कंपनियों के शेयरों में कारोबार हुआ, जिनमें से 1993 में लिवाली जबकि 1815 में बिकवाली हुई वहीं 106 में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसी तरह निफ्टी की 39 कंपनियां लाभ में जबकि 10 नुकसान में रही वहीं एक के भाव स्थिर रहे।

बीएसई में यूटिलिटीज, ऊर्जा, पावर, सर्विसेज और तेल एवं गैस समूह की 0.40 प्रतिशत तक की गिरावट को छोड़कर शेष 15 समूहों में तेजी का रुख रहा। इस दौरान कमोडिटीज 1.19, सीडी 0.91, एफएमसीजी 0.39, वित्तीय सेवाएं 0.94, हेल्थकेयर 0.49, इंडस्ट्रियल्स 0.49, आईटी 0.68, दूरसंचार 0.65, ऑटो 1.33, बैंकिंग 1.09, कैपिटल गुड्स 0.67, कंज्यूमर डयूरेबल्स 0.67, धातु 1.33, रियल्टी 0.60 और टेक समूह के शेयर 0.96 प्रतिशत लाभ में रहे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेजी का रुख रहा। इस दौरान ब्रिटेन का एफटीएसई 0.55, जर्मनी का डैक्स 0.14, जापान का निक्केई 1.13, हांगकांग का हैंगसेंग 1.74, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.42 और चीन का शंघाई कम्पोजिट 0.54 प्रतिशत उछल गया। कारोबार की शुरूआत में सेंसेक्स 155 अंक की तेजी लेकर 71,492.02 अंक पर खुला लेकिन बिकवाली होने से दोपहर बाद 71,473.65 अंक के निचले स्तर पर आ गया। लिवाली होने से यह कारोबार के अंतिम चरण में 72,119.85 अंक के सार्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।

आरबीआइ समेत 11 स्थलों को धमकी मामले में तीन धराये

वडोदरा। मुंबई में आरबीआई समेत 11 स्थलों को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल भेजने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामले के 3 आरोपितों को वडोदरा से गिरफ्तार किया गया है। बुधवार को इन्हें मुंबई क्राइम ब्रांच और महाराष्ट्र एटीएस ने गुजरात पुलिस के सहयोग से पकड़ा गया है। तीनों आरोपितों को फिलहाल मुंबई ले जाया गया है, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मंगलवार को धमकी भरा ई-मेल मिला था। इसमें आरबीआई, एचडीएफसी समेत 11 स्थानों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच, महाराष्ट्र एटीएस और गुजरात एटीएस ने संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस को वडोदरा के पादरा से एक संदिग्ध युवक की जानकारी मिली, बाद में पाणी गेट क्षेत्र से भी दो लोगों को पकड़ा गया। शुरूआती जानकारी के अनुसार मुंबई क्राइम ब्रांच खिलाफत इंडिया मूवमेंट के साथ जुड़े होने की आशंका में आदिल, अर्सील और वसीम नामक व्यक्ति को पकड़ा है। पूछताछ के लिए इन्हें मुंबई ले जाया गया है।

अंगदान को लेकर जागरूकता फैलाने की जरूरत : राष्ट्रपति

- आइएलबीएस के 9वें दीक्षांत समारोह में द्रौपदी मुर्मू बोलीं- पर्याप्त संख्या में अंगों की अनुपलब्धता से लीवर, किडनी प्रत्यारोपण से रह जाते हैं वंचित कई मरीज

नयी दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्याप्त संख्या में ऑर्गन की अनुपलब्धता पर चिंता जताते हुए देश में अंगदान को प्रोत्साहित करने के लिए बड़े पैमाने पर जागरुकता अभियान चलाने की जरूरत बताई है। राष्ट्रपति बुधवार को नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलेरीज साइंसेज (आईएलबीएस) के 9वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि पर्याप्त संख्या में अंगों की अनुपलब्धता के कारण बहुत से मरीज लीवर, किडनी या किसी अन्य प्रत्यारोपण से वंचित रह जाते हैं। दुर्भाग्य से अंगदान से जुड़ी अनैतिक कृत्य भी समय-समय पर उजागर होते रहते हैं। इन समस्याओं का समाधान करना एक जागरूक समाज की जिम्मेदारी है। देश में लोगों को अंगदान के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए बड़े पैमाने पर जागरुकता अभियान चलाने की जरूरत है। राष्ट्रपति ने कहा कि आईएलबीएस ने विश्व स्तरीय दक्षता और अखंडता के बल पर केवल 13 वर्षों की अवधि में अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि आईएलबीएस में 1000 से अधिक लीवर प्रत्यारोपण और लगभग 300 गुर्दे प्रत्यारोपण किए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत अपेक्षाकृत कम खर्च पर विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करके आईएलबीएस जैसे संस्थानों के बल पर एक अंतरराष्ट्रीय हेल्थकेयर हब के रूप में प्रतिष्ठित हो रहा है। उन्होंने कहा कि जीवन विज्ञान और आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के एकीकरण से स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं।

इडी ने मोबाइल एप से धोखाधड़ी में 278.71 करोड़ की संपत्ति जब्त की

नयी दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मोबाइल एप एचपीजेड टोकन के माध्यम से निवेशकों से कथित धोखाधड़ी से जुड़े मामले में चीन से संबंध रखने वाली इकाइयों समेत अन्य इकाइयों से 278.71 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की हैं। ईडी ने बुधवार को बताया कि धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मोबाइल फोन ऐप एचपीजेड टोकन के माध्यम से निवेशकों से कथित धोखाधड़ी मामले में विभिन्न व्यक्तियों और चीन से जुड़े मुखौटा संस्थानों से 278.71 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है। ईडी ने इससे पहले मामले में 176.67 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।

जांच एजेंसी ने बताया कि पीएमएलए के तहत जब्त यह चल और अचल संपत्ति अपराध से अर्जित की गई है। ईडी के मुताबिक ये मुखौटा कंपनियां कथित तौर पर निवेशकों से सैकड़ों करोड़ रुपये की धोखाधड़ी में लिप्त पाई गई है।

मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है आपने मारूति वैन ले ली : मोदी

एजेंसी

- विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थी रुबीना से पीएम ने बात की, कहा- दो करोड़ दीदियां बनेंगी लखपति

भोपाल/ नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मध्यप्रदेश के देवास जिले की स्वयं सहायता समूह की एक कार्यकर्ता रूबीना खान से संवाद के दौरान मजाकिया लहजे में कहा कि उनके (श्री मोदी के) पास तो साइकिल भी नहीं है और स्वयं सहायता समूह की कार्यकर्ता ने अपने दम पर रोजगार के अवसर पैदा करते हुए मारूति वैन ले ली।

श्री मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने देवास जिले में एक लाख तीन हजार दीदियों के समूह की सदस्य रूबीना खान से संवाद किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी राज्य मंत्रालय से वर्चुअली जुड़े। श्रीमती खान ने

अपने जीवन के संदर्भ में मोदी को बताया कि वे पहले मजदूर थीं। 2017 में स्वयं सहायता समूह से जुड़ीं और गांव में ही लोन लेकर काम शुरू किया। अब उसी काम की बदौलत मारूति वैन ले ली। इस पर श्री मोदी ने कहा कि आप मारूति ले आईं, मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है। केंद्र सरकार की योजनाओं की लाभार्थी श्रीमती खान ने बताया कि कोरोना काल में उन्हें प्रशासन से सैनिटाइजर, मास्क और पीपीई किट बनाने का काम मिला, शुरूआत में कुछ दीदियां डरीं, लेकिन फिर देश की मुश्किलें देख कर मास्क बनाने शुरू किए और उन्हें स्थान स्थान पर बांटा। इसी दौरान प्रति महिला ने लगभग 60-70 हजार रुपए के मास्क और किट बनाए। श्री मोदी ने श्रीमती खान को संबोधित करते हुए कहा कि क्या वे उनका एक सपना पूरा करने में मदद करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी बहनें हैं, उनमें से दो करोड़ दीदियों को लखपति बनाने का उनका सपना है।

अभिनेत्री रुबीना दिलैक ने दिखायी जुड़वां बेटियों की पहली झलक

मुंबई। टीवी जगत की लाडली छोटी बहू यानी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक ने जुड़वां बेटियों को जन्म दिया है। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली रुबीना अपनी प्रेग्नेंसी के दौरान की सारी अपडेट्स अपने फैंस के साथ शेयर कर रही थीं। बेटियों के जन्म के एक महीने बाद अभिनेत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर खुशखबरी शेयर की। एक्ट्रेस रुबिना दिलैक और उनके पति एक्टर अभिनव शुक्ला ने बेटी के आने की खबर सोशल मीडिया के जरिए शेयर की है। इसके साथ ही उन्होंने अपने फैंस को अपनी जुड़वा बेटियों के नाम भी बताए हैं। इन दोनों लड़कियों के नाम इधा और जीवा हैं। अपने नन्हे-मुन्नों की पहली झलक शेयर करते हुए

उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हमें यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारी बेटियां इधा और जीवा आज एक महीने की हो गई हैं। आप सभी से आशीर्वाद की कामना करते है। कृपया हमारी दोनों नन्हीं परियों पर प्यार बरसाएं। रुबिना और अभिनव दोनों के चेहरे पर माता-पिता बनने की खुशी झलक रही है। शादी के 5 साल बाद उनके घर में ये दोहरी खुशी आई है।

पूंछ में रक्षा मंत्री ने सरहद पर जवानों का बढ़ाया हौसला

एजेंसी

- कहा- सैनिकों का कर्तव्य सिर्फ युद्ध ही नहीं, बल्कि लोगों के हृदय को जीतना भी
- सेना के वरिष्ठ अधिकारियों से ली आतंकवाद विरोधी अभियानों की जानकारी

नयी दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार दोपहर आतंकवाद विरोधी अभियानों की स्थिति का जायजा लेने के लिए जम्मू-कश्मीर के पुंछ सेक्टर पहुंचे और सीमा पर तैनात जवानों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने हाल ही में आतंकी हमले में बलिदान हुए चार जवानों एवं उनके परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने जवानों के जज्बे को सलाम करते हुए उनसे और ज्यादा सजग रहने का आह्वान किया। राजनाथ सिंह आज दोपहर सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे के साथ जम्मू पहुंचे, जहां जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उनका स्वागत किया। इसके बाद रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी के साथ क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी अभियान के बीच स्थिति का जायजा लेने के लिए राजौरी के लिए रवाना हो गए। सीमा पर तैनात जवानों से मिलकर उन्होंने हाल ही में आतंकी हमले में शहीद चार जवानों एवं उनके परिवारजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने घायल सैनिकों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। रक्षा मंत्री ने सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि यह देश आप सभी के प्रति कृतज्ञता का भाव रखता है। मातृभूमि की सेवा में आप लोगों का बलिदान अमूल्य है और इसकी कोई कीमत नहीं चुकाई जा सकती है। उन्होंने जवानों को भरोसा दिलाया कि यह सरकार सदैव आप लोगों के साथ खड़ी है और आपके कल्याण को हम हमेशा उच्च प्राथमिकता पर रखते हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि सेना कोई साधारण सेना नहीं है। भारतीय सैनिक इस देश के रक्षक हैं, इसलिए आपका कर्तव्य सिर्फ युद्ध ही नहीं, बल्कि लोगों के हृदय को जीतना भी है। उन्होंने आतंकी हमलों की बात करते हुए कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने में सुरक्षा बल और सुरक्षा एजेंसियां अपनी पूरी कोशिश करती हैं, इसके बावजूद और ज्यादा सजग रहने की जरूरत है।

राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जायेंगी ममता

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल नहीं होंगी। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने बुधवार को कहा कि न केवल मुख्यमंत्री, बल्कि पार्टी के किसी भी नेता के मंदिर उद्घाटन समारोह में शामिल होने की संभावना से इनकार कर दिया। जब पूछा गया कि क्या मुख्यमंत्री 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम में जाएंगी, तो घोष ने कहा कि मुझे नहीं पता कि उन्हें निमंत्रण आया है या नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि मंदिर उद्घाटन में उनके शामिल होने का सवाल ही नहीं उठता। घोष ने कहा कि ममताराम की श्रद्धा से पूजा करती हैं, लेकिन पार्टी राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए राम के बारे में लोगों की भावनाओं का फायदा उठाने की भाजपा की रणनीति का समर्थन नहीं करती।

वर्मा प्रेस प्रा० लि० राँची

Verma's® Today®

शृंखला की निम्न पुस्तकें सर्वत्र उपलब्ध हैं—

Class - X		Class - IX	
Hindi	₹ 140	Hindi	₹ 140
English	₹ 140	English	₹ 140
Mathematics	₹ 140	Mathematics	₹ 140
Science	₹ 140	Science	₹ 140
Social Science	₹ 140	Social Science	₹ 140
Sanskrit	₹ 120	Sanskrit	₹ 120
Hindi – B	₹ 140	Hindi – B	₹ 80
Hindi Vyakaran– II	₹ 120	Hindi Vyakaran– II	₹ 120
English Grammar – II	₹ 120	English Grammar – II	₹ 120
Sanskrit Vyakaran–II	₹ 100	Sanskrit Vyakaran–II	₹ 100
Hindi Practical	₹ 55	Hindi Practical	₹ 55
English Practical	₹ 55	English Practical	₹ 55
Maths. Practical	₹ 65	Maths. Practical	₹ 55
Science Practical	₹ 65	Science Practical	₹ 70
S. Science Practical	₹ 65	S. Science Practical	₹ 65
Sanskrit Practical	₹ 55	Sanskrit Practical	₹ 55
Maths. Practical (Combined)	₹ 90	Maths. Practical (Combined)	₹ 75
Science Practical (Combined)	₹ 90	Science Practical (Combined)	₹ 75
English Medium		English Medium	
Mathematics	₹ 200	Mathematics	₹ 130
Science	₹ 200	Science	₹ 200
Social Science	₹ 200	Social Science	₹ 130
Maths. Practical	₹ 80	Maths. Practical	₹ 80
Science Practical	₹ 80	Science Practical	₹ 80
S. Science Practical	₹ 80	S. Science Practical	₹ 80

मिलते जुलते नाम वाली नकली पुस्तकों से सावधान !

कलियुग में नाम संकीर्तन ही आधार : चैतन्य महाप्रभु



कृते यद्ध्यातो विष्णुम त्रैतायाम यजतोमरवै
द्वापर परिचर्याम कल्यौ तदहरिकीर्तनाम
सतयुग में ध्यान के द्वारा, त्रेता में यज्ञ द्वारा, द्वापर में अर्चना के द्वारा जो पुरुषार्थ लाभ होता है वह अब कलियुग में श्री हरिकीर्तन द्वारा प्राप्त हो सकता है।

कलियुग धर्म है नाम संकीर्तन
एतदर्थे अवतीर्ण श्री शचीनंदन

नदनंदन श्रीकृष्ण ही श्रीराधारानी के भाव और माधुर्य रस को लेकर जो पूर्ण में किसी को नहीं दिया गया, वही उन्नत-उज्जवल रस सभी साधारण लोगों को देने के लिए कलियुग की प्रथम संध्या में श्रीगौर सुन्दर, श्री धाम मायापुर, नवद्वीप, जिला नदिया, पश्चिम बंगाल में सन 1486 की फाल्गुनी पूर्णिमा तिथि में संध्या काल में अवतीर्ण हुए थे। पिता श्री जगन्नाथ मिश्र तथा श्री माता शची देवी को अवलंम्वन कर श्री चैतन्य देव ने श्री कृष्ण प्रेम की अप्राकृत परम कल्याणमय कार्य किया इसलिए प्रतिवर्ष फाल्गुणी पूर्णिमा तिथि में उनके जन्म दिवस (अविर्भाव) के उपलक्ष्य में भारत ही नही अपितु पूरे विश्व में उनके द्वारा प्रचारित श्री हरीनाम -संकीर्तन के साथ उनका दिव्य जन्मोत्सव मनाया जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म श्री गंगा जी के तट पर उस समय हुआ जब चन्द्रग्रहण के समय असंख्यक लोग भागीरथी में स्नान कर रहे थे तथा सभी जगह हरि बोल, हरि बोल, शब्द गुजाएमान हो रहा था।

व्रजेन्द्रनंदन श्री कृष्ण जोकि भक्ति भाव को लेकर अपने ही माधुर्य का आस्वादन करने व युगधर्म श्री हरीनाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में अवतरित हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु जी को अनेकों नामों जैसे श्री गौर हरि, श्री गौरांग, श्री गौर नारायण, श्री चैतन्य देव, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु व बचपन के नाम श्री निभाई इत्यादी से भी पुकारा जाता है।

कलियुग के युगधर्म श्री हरिनाम संकीर्तन को प्रदान करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने पार्षदों श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्धैत, श्री गदाधर, श्री वास आदि भक्तवृंद के माध्यम से जीवों के कल्याण हेतु गांव-गांव, नगर-नगर, शहर-शहर आदि जाकर श्री हरिनाम संकीर्तन का प्रचार व प्रसार की शिक्षा दी।

नमो मद्यवदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते
कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः

श्री रूप गोस्वामी महान वैष्णव सत जी ने श्री गौर सुन्दर के प्रणाम मंत्र में कहा है- हे, दाताशिरोमणी, कृष्ण प्रेम प्रदाता, श्री कृष्णचैतन्य नाम धारी अर्थात श्रीकृष्ण अभिन्न, सर्व अवतारी, दयालु, गौर कान्ति कृष्णा आपको नमस्कार है।

श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने मानव प्राणियों के उद्धार के लिए शिक्षाएं दी हैं। जो पूरे विश्व को देन है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने शिक्षाएं विश्व के कल्याण हेतु प्रदान की जो इस प्रकार है-

प्रथम शिक्षा : श्री हरिनाम का महात्म बताते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते है कि श्री कृष्ण नाम संकीर्तन चित रुपी दर्पण को साफ करने वाला, संसारिक दावानल को समाप्त वाला, कल्याणकारी, जीवनरूप, आनन आन्नद देने वाला, पूर्ण का आस्वादन करने वाला, आंतरिक पाप वृति व जन्म मृत्यु के चक्कर से हमेशा के लिए छुटकारा दिलवाने वाले त्रिकृष्ण नाम संकीर्तन की जय हो।

द्वितीय शिक्षा : जीवों की भिन्न रूचियों को रखने के लिए हे भगवान आपने अपने मुकुन्द, माधव, गोविन्द, दामोदर, श्यामसुन्दर, घनश्याम, यशोदानंद इत्यादि नाम रखे ओर प्रत्येक नाम में अपनी पूरी शक्ति भी स्थापित कर दी। नाम लेने के लिए देश-काल, शुद्धाशुद्धी का नियम बंधन तोड़ दिया लेकिन मेरा आपके नामों में अनुराग नहीं हुआ। आप कृपा करें कि आपके नामो में मेंरी रूचि हो सके।

तीसरी शिक्षा : संसार के जीवों को अपने घंमड, अहंम को समाप्त करके घास के तिनके जैसा निम्न समझना चाहिए अर्थात घमंड छोडकर, पद प्रतिष्ठा छोड़कर विनम्र स्वभाव होना चाहिए। पेड़ से भी अधिक सहनशील होकर, खुद सम्मान की चाहना न रखते हुए सदा श्री हरीनाम संकीर्तन करना चाहिए।

चौथी शिक्षा : हे जगदीश आप ऐसा आर्शीवाद दें कि मेरे में अत्यधिक धन, बहुत जन, पंडित, सुंदरी आदि की चाहना न हो और आपके श्री चरणकमलों मेरी जन्म-जन्म तक अहैतुकी भक्ति रहें।

धार्मिकता दुख को सुख में बदलता है

आज जीवन का जहाज उत्ताल तरंगों और तूफानों से भरे संसार सागर में भटक गया है। इसका नैतिक-बोध व दिशासूचक यंत्र खराब हो गया है। जीवन को गतिशील बनाने के लिए जीवन ऊर्जा चाहिए, परंतु उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है उसका सही दिशा में संयोजन। इसके अभाव में मनुष्य अनेक प्रकार की विभीषिकाओं के बीच खड़ा है। कभी वह बीमारी से भयभीत रहता है, कभी उसे बुढापा सताता है, कभी वह मौत से घबराता है। न जाने कितने चेहरे हैं भय और दुख के। मनुष्य उन सबसे सुरक्षा चाहता है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रार्थना दुख मुक्ति की है, लेकिन मेरी दृष्टि में जीवन में दुख न आए, यह प्रार्थना कायरतापूर्ण है। दुख और कठिनाइयों के बीच में मनोबल बना रहे, यही सच्ची प्रार्थना है, जो व्यक्ति को अहंकार से बचाने वाली और पुरुषार्थी बनाने वाली है।

इच्छा करना एक बात है और इच्छापूर्ति के उपाय खोजना दूसरी बात। जब तक उपाय हाथ नहीं लगते, इच्छा पूरी नहीं होती। यदि दुखमुक्ति के उपाय नहीं किए जाएं तो दुख मुक्त रहने का सपना भी केवल सपना बनकर रह जाता है। 'रक्षंति पुण्यानि पुरा कृतानि' अर्थात पहले के किए हुए पुण्य प्रबल हों तो मनुष्य को दुख से मुक्ति मिल सकती है। जंगल हो या युद्ध का मैदान, शक्तिशाली

शत्रु से सामना करना पड़े या जल और अग्नि का प्रकोप, मनुष्य के पुण्य प्रबल हों तो उसे कोई मार नहीं सकता।

महाभारत में लिखा है, 'धर्मो रक्षति रक्षित अर्थात मनुष्य धर्म की रक्षा करे तो धर्म भी उसकी रक्षा करता है। हमारी व्याख्या के अनुसार मनुष्य की धार्मिक वृत्ति उसकी सुरक्षा करती है। यह व्याख्या सार्थक भी है। आखिर धर्म अपने आप में है क्या? वास्तव में धर्म का न कोई नाम होता है और न कोई रूप। व्यक्ति के आचरण, व्यवहार या वृत्ति के आधार पर ही उसे धार्मिक अथवा अधार्मिक होने का प्रमाणपत्र दिया जा सकता है। श्रीमद भागवत के प्रथम स्कंध में कुंती का आत्मनिवेदन अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। उसने मनोबल बढाने की प्रार्थना के स्थान पर विपदाओं को आमंत्रित किया। प्रभो! मेरे पग-पग पर निरंतर विपत्तियां रहें, क्योंकि मैं जब विपदाओं से घिरी रहती हूं, तभी आपके दर्शन होते हैं। आपके दर्शन मेरे लिए मुक्ति के दर्शन हैं - मेरे जन्म-मरण की परंपरा को उच्छिन्न करने वाले हैं।

धार्मिक व्यक्ति के जीवन में कष्ट नहीं आता। यह बात नहीं है कि उसे बुढापा, बीमारी या आपदा का सामना नहीं करना पड़ता। बुढापा आता है, पर उसे सताता नहीं। बीमारी आती है, पर उसे व्यथित नहीं कर पाती। इस कथन का सारांश यह है कि धार्मिक व्यक्ति दुख को सुख में बदलना जानता है। इसे यों भी कहा जा सकता है कि धार्मिक वही होता है, जो दुख को सुख में बदलने की कला जानता है।

2024 में स्वाद का सफर और परिवार की सेहत का रखें ख्याल



मनोज कुमार सिन्हा

पकवान

किचन से ही शुरू होता है स्वाद का सफर और आपके परिवार की सेहत भी. यानी आपको रोजाना टेस्टी खाना बनाकर परिवार वालों का दिल जीतने के साथ ही उनकी सेहत का ध्यान भी रखना पड़ता है. आपकी कुकिंग को आसान, दिलचस्प और क्रिएटिव बनाने के लिए मैं आपको बताउँगा।

पाक कला सामग्री को स्वादिष्ट भोजन में बदलने की कला है, स्वाद, तकनीक और रचनात्मकता के संयोजन से स्वाद को संतुष्ट करने और शरीर को पोषण देने की कला है। यह एक संवेदी अनुभव है जो लोगों को एक साथ लाता है और अंतहीन पाक अन्वेषण की अनुमति देता है।

कुकिंग को बनाएं आसान

कम समय में स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें ::--इडली का घोल तैयार करते समय उसमें थोड़े उबले चावल भी पीस दें, इससे इडली नरम बनती हैं ।

अगर सूप या ग्रेवी में मिक्स करने के लिए खाना आपके पास क्रीम नहीं है, तो १ टीस्पून रूरी कॉर्नफ्लोर को १ कप दूध में घोलकर रखें मिलाएं।

उबले अंडे को थोड़ी देर ठंडे पानी में रखे, इससे छिलका आसानी से उतर जाएगा।

सांबर या रसम पाउडर को फ्रीजर में रखें, इससे उनकी सुगंध लंबे समय तक बनी रहती है।

बैंगन को काटकर पानी में रखें, वरना बो काले पड़ जाते हैं।

अचार निकालने के लिए कभी भी स्टेनलेस स्टील के चम्मच का इस्तेमाल न करें, क्योंकि ये अचार में मौजूद एसिड सेप्रतिक्रिया करता है।

कोई भी स्मेली फूड ऐसी चीज जिसमें से बहुत महक आए, जैसे- मछली आदि) बनाने के बाद उस एरिया में नींबू रगड़ें, इससे महक दूर हो जाती है. यदि बर्तन या

चाकू से महक आ रही है, तो उसे भी नींबू से साफ करें..

प्याज को पीसने से पहले तेल में थोड़ा फ्राई कर लें, इससे मसाला जल्दी पकेगा और खाना भी स्वादिष्ट बनेगा।

गाजर, हरी मटर, कॉर्न या बीट को पकाते समय थोड़ा शक्कर डालें, इससे इनका नेचुरल फ्लेवर बना रहता है।

बाजार में मिलने वाले तंदूरी कलर का इस्तेमाल करने की बजाय कश्मीरी मिर्च के बीज निकालकर मसाले में पीस लें, इससे खाने का रंग अच्छा आता है।

रोटी के बर्तन में अदरक के कुछ टुकड़े डालें, इससे रोटी नरम और ताजी बनी रहती है।

बड़ा बनाने के लिए बेसन का घोल ठीक से तैयार हुआ है या नहीं, यह जांचने के लिए घोल की कुछ बूंदें एक कप पानी में डालें, अगर वो तैरने लगें तो समझ लीजिए कि घोल का गाढ़ापन सही है।

2024को बनायें शुभ

नववर्ष का आगाज होने के साथ सबसे पहले लोग कैलेंडर बदलते हैं। गुजर चुकी तारीख, साल और समय के उपरांत जीवन में आगे बढने की प्रेरणा देता है कैलेंडर। वास्तु और फेंगशुई के अनुसार दीवार पर गुजर चुके समय के बाद नया कैंलेडर लगाना ही सही माना गया है। आने वाला वक्त सुनहरी भविष्य का आगाज करें इसके लिए महीने के प्रथम दिन ही कैलेंडर बदल लेना चाहिए।

घर में इस जगह न लगायें कैलेंडर

■ कभी दरवाजे के ऊपर न तो घड़ी लटकाएं और न ही कैलेंडर इससे घर के पारिवारिक सदस्यों की उम्र कम होती है। विशेषतौर पर मुख्य द्वार के ऊपर तो कभी ऐसा न करें।

■ कुछ लोग नया कैलेंडर तो लगाते हैं मगर पुराने कैलेंडर के ऊपर क्योंकि पुराने कैलेंडर से उन्हें भावनात्मक लगाव हो जाता है। जिस वजह से वह उसे उतारते नहीं हैं। फेंगशुई और वास्तु की मानें तो पुराने कैलेंडर को दीवार पर लगाना अशुभता का संचार करता है। जिंदगी में

आने वाले उन्नति के अवसरों पर विराम लग जाता है।

■ पूर्वी तथा उत्तरी दिशा में भूल कर भी कोई भारी वस्तु न रखें। इन दोनों दिशाओं में कोई कैलेंडर या फोटो तक न टांगें अन्यथा कर्ज, हानि व घाटे का सामान करना पड़ता है।

■ घरवालों की आयु कम करता है, दरवाजे पर आगे या पीछे की ओर लटकाया गया कैलेंडर।

■ जानवर और उदास चेहरे वाला कैलेंडर न लगाएं। इससे घर में नकारात्मकता आती है।

यहां लगायें कैलेंडर

वास्तु के अनुसार कैलेंडर को उत्तर, पूर्व और पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए।

घर में धन धान्य बढ़ाते हैं ये पौधे

घर में पेड़-पौधे लगाने से घर की खूबसूरती और बढ़ जाती है। अगर आपको पेड़-पौधे लगाने का शौक हैं तो वास्तु की जानकारी भी जरूर रखें क्योंकि वास्तु के नियम अनुसार घर में पेड़-पौधे ना लगाएं जाए तो घर में रहने वालो को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता हैं। इसलिए पेड़-पौधों को कौन-सी दिशा में लगाना चाहिए, ये जानना जरूरी है।

1. तुलसी

तुलसी एक औषधि पौधा है। इस पौधे को पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इन दिशा में लगाने से तुलसी का पौधा घर में बरकत लाता है।

2. ऊंचे पौधे

ऊंचे पौधों को घर में दक्षिण या पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। ऐसी दिशा में जहां इन्हें सूरज की भरपूर रोशनी मिलें। ऐसा करने से घर में रहने वालों को किसी भी काम में कोई बाधा नहीं आती।

3. छोटे पौधे

छोटे आकार के पौधों को घर में पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना चाहिए।

4. कांटेदार पौधे

कांटेदार पौधों को घर के भीतर बिल्कुल भी ना लगाएं। अगर गुलाब का पौधा है तो इसे घर के भीतर लगाया जा सकता हैं।

5. दूधिया पेड़-पौधे

दूधिया पेड़-पौधों को घर के आंगन में न लगाएं। इनके घर में होने से घर में रहने वालों को स्वास्थ्य कष्ट हो सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि घर के ठीक सामने या बीच में कोई भी पौधा ना हो। इन जगह पेड़-पौधे होने से घर में नकारात्मक शक्ति का वास होता है।

सत्कर्मों से दुर्भाग्य बदल सकता है : श्रीराम शर्मा आचार्य

प्रारब्ध कर्मों का, भूतकाल में किये हुए भले बुरे कामों का, फल मिलना प्रायः निश्चित ही होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि कृतकार्य का फल तुरन्त मिल जाता है, कई बार ऐसा होता है कि प्रारब्ध भोगों की प्रबलता होने के कारण विधि निर्धारित भली बुरी परिस्थिति वर्तमान काल में बनी रहती है और इस समय जो कार्य किये गये हैं उनका परिणाम कभी पीछे भुगतने के लिए जमा हो जाता है।

यदि प्रत्येक भले बुरे कर्म का फल तुरन्त हाथों हाथ मिल जाता होता तो इस संसार में कहीं भी पापी और पाप का निशान ढूंढ़े न मिलता। यानि जैसे विष खाते ही तुरंत मृत्यु हो जाती है वैसे ही पाप करते ही उसकी भयंकर पीड़ा होती तो उसे कोई स्पर्श ही न करता और पुण्य का स्वादिष्ट फल मिठाई की तरह मधुर, बर्फ सा शीतल, चन्दन सा सुगंधित और सब प्रकार मनोहर आनन्द मय होता तो दौड़ दौड़ कर सभी लोग पुण्य करते, शुभ कर्म करने में कोई किसी से पीछे न रहता। परन्तु परमेश्वर ने मनुष्य की बुद्धिमत्ता की परीक्षा करने के लिए और उसकी स्वतंत्रता, दूरदर्शिता एवं विवेकशीलता को स्वतंत्र दिशा में विकसित होने देने के लिए ऐसी व्यवस्था की है। कर्मफल तुरन्त तो बहुत कम मिलते हैं वे आगे पीछे के लिए जमा होते रहते हैं। यह उधार खाता, उचित खाता, बैंकों के हिसाब की तरह आगे पीछे जमा खर्च में पड़ता रहता है। यह वह स्थान है जिस पर मनुष्य की बुद्धिमता परखी जाती है, इसी खतरे से सावधान करने के लिए धर्म का विधान है। वेद पुराण शास्त्र, इतिहास इसी जगह पर सावधान करने के लिए अपना अभिमत घोषित करते रहते हैं। फिर भी लोग चूकते हैं- भ्रम में पड़ते हैं, और इस संदेह में पड़ते हैं कि जाने कर्मफल मिलता भी है या नहीं! शास्त्रों की वाणी, धर्म की व्यवस्था जाने सच है भी या नहीं! इस संदेह में भ्रमित होकर ही वे पाप और नास्तिकता को अपना लेते हैं। तुरन्त फल न मिलना यही तो माया है, इस माया में ही मनुष्य भ्रमित होता है। आग छूने से जलन और बर्फ छूने से ठंडक की भांति यदि पाप पुण्य का स्पर्श अपना अपना तुरन्त परिणाम दिखाते तो वेदशास्त्र धर्म, भजन, पूजन, कथा, कीर्तन आदि किसी की जरूरत न पड़ती। जैसे हरी घास को देखते ही गधा सीधा उसे खाने को चला जाता है वैसे ही सब लोग पुण्य के लिए सीधे चल देते। और जैसे लाल झंडे को देखकर भैंस बिदकती है वैसे ही पाप का नाम सुनते ही लोग उससे बचकर दूर भागते। पर ऐसा है नहीं, यही ईश्वर की माया है। इस माया को समझें और उसके जाल में न उलझें, यही हमारी बुद्धिमानी का प्रमाण हो सकता है।

जन्मस्थान की यात्रा : अयोध्या में श्रीमद रामायण

अभय कुमार सिंह

श्रीमद रामायण की टीम ने हाल ही में भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या की तीर्थयात्रा शुरू की, जो उनकी रचनात्मक यात्रा में एक महत्वपूर्ण पल है। इस यात्रा ने उन्हें उनकी कहानी की ऐतिहासिक जड़ों से गहराई से जुड़ने का अवसर दिया। टीम की खोज में राम जन्मभूमि, कनक भवन और हनुमान गढ़ी जैसे पवित्र स्थल शामिल थे, जिन्होंने उन्हें शहर के आध्यात्मिक माहौल और ऐतिहासिक महत्व से जोड़ा।

सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के बिजनेस हेड, नीरज व्यास ने इस यात्रा के महत्व पर प्रकाश डाला : अयोध्या की हमारी यात्रा भगवान राम की कहानी को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की हमारी प्रतिबद्धता को दशार्ती है। हम आज की दुनिया में उनकी प्रासंगिकता पर जोर देते हुए, उनके कालातीत आदर्शों और शिक्षाओं को प्रस्तुत करने के लिए समर्पित हैं।

स्वास्तिक प्रोडक्शंस के संस्थापक और श्रीमद रामायण के निर्माता, सिद्धार्थ कुमार तिवारी ने अपने अयोध्या दर्शन के अनुभव के प्रभाव पर टिप्पणी की : अयोध्या की हमारी यात्रा से हमारी सीरीज में वास्तविक गहराई आयेगी और इस तरह यह यात्रा इस प्रतिष्ठित शहर की ऐतिहासिक अनुगूंज से भर गई है, जिससे श्रीमद रामायण की कहानी भी विकसित होगी।

मर्यादा पुरूषोत्तम प्रभु श्री राम का किरदार निभा रहे सुजय रेउ ने अपने विचार व्यक्त किये : अयोध्या की तीर्थयात्रा परिवर्तनकारी रही है। इसने भगवान राम को लेकर मेरी समझ और निरूपण को बढ़ाया है, और उनके किरदार को अधिक निष्ठा और गहराई से निभाने की मेरी प्रतिबद्धता को और भी मजबूत किया है।

माता सीता की भूमिका निभाने वाली प्राची बंसल ने अपनी यात्रा पर विचार व्यक्त करते हुए कहा : अयोध्या को प्रत्यक्ष तौर पर अनुभव करना दिव्य अनुभूति थी। इस तरह से मैं माता सीता की शक्ति और शोभा को समझने के करीब पहुंची हूं।

लक्ष्मण का किरदार निभा रहे, बसंत भट्ट ने अपना नजरिया व्यक्त किया : अयोध्या के जीवंत एहसास ने मुझे लक्ष्मण की भक्ति और निष्ठा को लेकर एक नया दृष्टिकोण दिया। यह अनुभव मेरी भूमिका के लिए मार्गदर्शक रहा है।

भगवान हनुमान का किरदार निभा रहे निर्भय वाधवा कहते हैं, अयोध्या की आध्यात्मिक ऊर्जा स्फूर्तिदायक थी। इसने मुझे हनुमान की अटूट भक्ति और समर्पण की विशालता का एहसास कराया। श्रीमद रामायण क प्रीमियर 1 जनवरी, 2024 को रात 9 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर होगा, जो इस महागाथा की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का सम्मान करने